

गल्प-मंजरी

हिन्दी के सुप्रसिद्ध गल्प-लेखकों की सर्वोत्तम

गल्पों का संग्रह

संग्रहकर्ता

नारत विख्यात, गल्प-सम्राट्

श्रीयुत सुदर्शन

प्रकाशक

मोतीलाल बनारसीदास

हिन्दी-संस्कृत पुस्तक विक्रेता
सैदमिडा, लाहौर।

दूसरा संस्करण

१६३४

मूल्य २॥

प्रकाशक—

सुन्दरलाल जैन

पंजाब संस्कृत पुस्तकालय,
सैदमिठा लाहौर ।

(सर्वाधिकार सुरक्षित हैं)

सुद्रक—

दुर्गादास प्रभाकर
सुम्बई संस्कृत प्रेस
सैदमिठा बाजार, लाहौर ।

भूमिका

आजकल कहानियों का युग है। जितनी पुस्तकें कहानियों की निकलती हैं, उतनी पुस्तकें किसी अन्य विषय की नहीं निकलतीं न मनोरंजन का इससे बढ़ कर कोई सुगम साहित्यिक साधन है। उपन्यासों के लिए २ दिन चाहिए, जब वह कहीं जाकर समाप्त हों। और वर्तमान युग के लोगों के पास इतना समय कहां? नाटक के लिए सारी शत जागना पड़ता है। रात को नाटक देखिए, दिन को आँखें ही न खुलेंगी। इससे मनोरंजन तो होता है, पर कौन मुसीबत पाले। सिनेमा के लिए भी दो घन्टे से कम न चाहिए। और फिर आँखें जो झराब होती हैं, वह धाटे में। कहानी इस दृष्टि-कोण से सब से अच्छा है। आप कुरसी पर बैठ गए, और पुस्तक उठा ली, पन्द्रह मिनट में कहानी समाप्त हो जाएगी। आप यात्रा कर रहे हों, जब भी मनोरंजन की यह सामग्री आपके काम आ सकती है। आप लाहौर से अमृतसर को चलिए। राह में चार-पांच कहानियां पढ़ जाइए। जो बाकी रह जाएं, वह किसी समय फिर सही। यही कारण है कि आजकल कहानियों की प्रथा बहुत बढ़ गई है। हिन्दी में भी गल्प-लेखकों का अभाव नहीं,

परन्तु अभी ऐसे गल्पकार कम हैं जो बहुत उच्चकोटि की कहानियां लिख सकें।

गल्प-मंजरी हिन्दी के उन्हीं इने गिने सर्व-श्रेष्ठ गल्प-लेखकों की सर्व-श्रेष्ठ गल्पों का संग्रह है। इसमें हमने उन तमाम सज्जनों की कहानियां ले ली हैं, जो कहानियों के मर्म को समझते हैं। इन कहानियों को पढ़ कर पाठक यह बात भली भांति समझ जाएंगे, कि इस समय हिन्दी में गल्प-रचना की कला किस मंजिल पर है। इसके अतिरिक्त यह भी झ्याल रखा गया है कि इस संग्रह में केवल उन्हीं कहानियों को स्थान दिया जाए, जो पाठकों के हृदय पर अच्छा प्रभाव डालने वाली हों, जिन से पाठकों का चरित्र उत्तेजित हो, और उन्हें भिन्न २ लेखकों की लेखन शैली का ज्ञान हो सके।

हम उन महानुभावों के कृतज्ञ हैं, जिन की रचनाओं से यह पुस्तक तैयार हुई है, और जिन्होंने हमें उनको इस संग्रह में सम्मिलित करने की आज्ञा दी है। अन्यथा यह संग्रह तैयार होना असम्भव था।

हमें पूर्ण आशा है, कि पाठक हमारे इस प्रथम को पसन्द करेंगे।

सुदर्शन

सूची

श्री प्रेमचन्द्र

		पृष्ठ
१. परिचय	...	१
२. बूढ़ी काकी	...	३
३. प्रारब्ध	...	११
४. बेटी का धन	...	३८
५. गृह-दाह	...	४४

श्री सुदर्शन

		पृष्ठ
१. परिचय	...	८७
२. न्याय-मन्त्री	...	८९
३. पाप-परिणाम	...	१०६
४. कमल की बेटी	...	१२४
५. आशीर्वाद	...	१३०

पं० विश्वमभरनाथ शर्मा कौशिक

		पृष्ठ
१. परिचय	...	१४७
२. उद्धार	...	१४९
३. नमक हलात नौकर	...	१७२

पं० ज्वालादत्त शर्मा

		पृष्ठ
१. परिचय	...	१६३
२. विधवा	...	१६४

पं० चतुरसेन शास्त्री

१. परिचय	२९३
२. भिज्जराज	२९४

श्री राय कृष्ण दास

१. परिचय	२३८
२. कला और कृतिमता	२३६

बाबू जयशंकर प्रसाद

१. परिचय	२४५
२. ममता	२४६

पं० विनोद शंकर व्यास

१. परिचय	२५३
२. शक्तिसिंह	२५४

श्री राजेश्वरप्रसाद सिंह

१. परिचय	२६१
२. आदर्श	२६२

श्री जैनेन्द्र कुमार

१. परिचय	२८७
२. खेल	२८८

गल्प-मंजरी

श्री प्रेमचन्द

वर्तमान युग के हिन्दी गल्प लेखकों में श्री प्रेमचन्द का स्थान बहुत ऊँची है। आपकी कहानियां बड़ी सरल सरस और भावपूर्ण होती हैं। उनकी सब से बड़ी विशेषता मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन है। उनकी कहानी पढ़कर ऐसा मालूम होता है, जैसे हम अपना हृदय पढ़ रहे हैं, जैसे कवि ने हमारे ही हृदय का वृत्तान्त लिख दिया है। आपकी शैली बड़ी सुन्दर है। जो कुछ लिखते हैं, उसका जीता-जागता चित्र सामने खड़ा कर देते हैं। ग्राम्य-जीवन की कहानियां लिखने में आप निपुण हैं। शायद इसका कारण यह हो, कि आपने बाल्यावस्था गांव में व्यतीत की है। उन दिनों के संस्कार इतने प्रबल हैं कि अभी तक नहीं मिटे।

काशी के पास तीन चार भीख की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। प्रेमचन्दजी वहाँ के रहने वाले हैं। आपका असली नाम धनपतराय है। सब से पहले आपने कानपुर की उर्दू पत्रिका “ज़माना” में लिखना आरम्भ किया। उस समय आप अपना नाम द० २० लिखा करते थे। इस के बाद आपने कई कारणों से यह नाम ताग कर नव्वाबराय नाम अस्तियार कर लिया। इस नाम से आपने उर्दू भाषा में दो तीन किताबें

परन्तु आपके प्रेममय हृदय ने जल्दी ही इस घमण्ड-

पूर्ण नाम का परित्याग कर दिया और 'प्रेमचन्द' नाम से लिखने लगे। देखते देखते इस नाम की धूम मच गई। तब आपने १९१६ में हिन्दी साहित्य में प्रवेश किया। उनकी मंजी दुर्व भाषा और मनोरञ्जक कहानियों ने लोगों के मन मोह लिये। तब से आप बराबर हिन्दी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, और इस समय तक ६ उपन्यास और २५० के लगभग कहानियां लिख चुके हैं। आप आज कल "हंस" नाम की एक गत्पत्रिका का सम्पादन भी कर रहे हैं। भारत की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें आपकी एक-आध पुस्तक का अनुवाद न हो चुका हो।

बूढ़ी काकी

(१)

बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा-स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्ठों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इन्द्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहतीं और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, उसका अभिप्राय पूर्ण न होता, अथवा बाज़ार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थीं। उनका रोना-सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़-फाड़कर रोती थीं।

उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालान्तर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सम्पत्ति लिखाते समय तो

खूब लम्बे चौड़े वादे किये, परन्तु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाये हुए सब्ज़ बाग थे। यद्यपि उस सम्पत्ति की वार्षिक आय डेढ़ सौ रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भर्तजे परिणत बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अद्वागिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किन्तु उसी समय तक जब तक कि उनके रुपये पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र श्री सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी, जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत।

बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी सम्पत्ति के कारण मैं इस समय भलामानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित् कोई आपत्ति न होती; परन्तु विशेष व्यय का भय उनकी सच्चेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें डांटते। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक देष्ट होता ही है; वह जब माता-पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी

काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ही कर देता। काकी चीख मारकर रोतीं, परन्तु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिये रोती हैं; अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी कभी कोधातुर हो कर बच्चों को गालियां देने लगतीं तो रूपा घटनास्थल पर अवश्य आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा-कृपाण का कदाचित् ही प्रयोग करतीं थीं, यद्यपि उपद्रव शान्ति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था।

सम्पूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को सहानुभूति थी, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठ कर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था।

(२)

रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाईयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुकियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा

हुआ भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावश्च मेहमानों के “वाह, वाह” पर ऐसा खुश हो रहा था मानों इस ‘वाह, वाह’ का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंगरेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार-मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे।

आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रहीं थीं और रूपा मेहमानों के लिये भोजन के प्रबंध में व्यस्त थीं। भट्टियों पर कढ़ाहे चढ़े थे। एक में पूड़ियां कचौरियां निकल रही थीं। दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। धी और मशाले की जुधा-वर्षक सुगन्धि चारों ओर फैली हुई थी।

बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भाँति बैठी हुई थी। यह स्वाद-मिश्रित सुगन्धि उन्हें बैचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, सम्भवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी दूर होगई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है, सब लोग भोजन कर चुके। मेरे लिये कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परन्तु अशकुन के भय से वह रो न सकी।

“आहा ! कैसी सुगन्धि है। पर मुझे कौन पूछता है ? जब रोटियां ही के लाले पढ़े हैं तब ऐसे भाग्य कहां कि भर

बूढ़ी काकी

७

पेट पूँड़ियां मिलें ?”—यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में एक हूँक सी उठने लगी। परन्तु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया।

बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुःखदायक विचारों में डूबी रहीं। थी और मसालों की सुगन्धि रह रहकर मन को आपे से बाहर किये देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूँड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूँ, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकड़े सदा दिक किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है?

बूढ़ी काकी की कल्पना में पूँड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भाँति मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजबाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़ुरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चल कर कड़ाह के सामने ही बैठूँ। पूँड़ियां छुन छुन कर तैरती होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं; परन्तु बाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय कर के बूढ़ी काकी उकड़ूँ बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरीं और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठीं। यहां आने पर

उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना किसी भूखे जानवर को
खाने वाली वस्तु के सन्मुख बैठने में होता है।

रूपा उस समय कार्य भार से उद्विग्न हो रही थी। कभी
इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में; कभी कड़ाह के पास
आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर
कहा—महाराज ठंडई मांग रहे हैं; ठंडई देने लगी। इतने में
फिर किसी ने आकर कहा—भाट आया है उसे कुछ दे दो।
भाट के लिये सीधा निकाल रही थी, कि एक तीसरे आदमी
ने आकर पूछा—“अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब
है? ज़रा ढोल मज़ीरा उतार दो।” बेचारी अकेली स्त्री
दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुदृती थी,
परन्तु कोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता,
कहीं पड़ोसिनें यह न कहने लगें कि इतने ही में उबल पड़ी।
प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फुंकी
जाती थी, परन्तु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी
पी ले अथवा पंखा लेकर भले। यह भी खटका था कि ज़रा
आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने
बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई, कोध
न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई
हैं; मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे।
जिस प्रकार मैंदक केचुए पर भपटता है, उसी प्रकार वह
बूढ़ी काकी पर भपटी और उन्हें दोनों हाथों से भिँझोड़कर

बूढ़ी काकी

६

बोली—“ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़ ? कोठरी में बैठते क्या दम छुट्टा था ? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका ? आकर छाती पर सवार हो गई । जल जाय ऐसी जीभ । दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हाँड़ी में मुँह डालतीं ? गांव देखेगा तो कहेगा, बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुँह बाये फिरती है । डाइन न मरे न मांचा छोड़े । नाम बेचने पर लगी है । नाक कटवाकर दम लेगी । इतना दूँसती है न जाने कहां भस्म हो जाता है । लो ! भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा । तुम कोई देवी नहीं हो चाहे किसी के सुह में पानी न जाए परन्तु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए ।” बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली । चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई । आधात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की सम्पूर्ण शक्तियां, सम्पूर्ण विचार और सम्पूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे । नदी में जब करार का कोई बृहद् खंड कट कर गिरता है तो आस-पास का जलसमूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिये दौड़ता है ।

(३)

भोजन तैयार हो गया । आंगन में पत्तल पड़ गए । मेहमान

खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार-गीत गाना आरम्भ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किन्तु कुछ हटकर, भोजन करने वैठे थे। परन्तु सभ्यतानुसार जब तक सब के सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े-लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बन्धन को व्यर्थ और वे सिर-पैर की बात समझते थे।

बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चात्ताप कर रही थी कि मैं वहां गई ही काढे को। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाज़ी पर दुःख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया। सब के सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी।

मन ही मन इसी प्रकार विचारकर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परन्तु धी का रुचिकर सुवास बड़ा ही धैर्य-परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछु गए होंगे। अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है, यह विचारकर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मूझे गाते देर हो गई; क्या इतनी देर तक लोग

भोजन कर ही रहे होंग। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आए, वह कोई मेहमान तो नहीं, जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उन की स्वादेन्द्रियों को गुदगुदाने लगें। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे-पहिले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शकर से, कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांगकर खाऊंगी। यद्दी न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं? कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंद जूठा करके थोड़े ही उठ आऊंगी।

वह उक्छूं बैठकर हाथों के बल सरकती आंगन में आईं परन्तु हाय दुर्भाग्य! अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिच्छें नेत्रों से देखता था कि अभी लोग खा रहे हैं या नहीं? कोई इस चिन्ता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परन्तु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था, कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची।

कई आदमी चौककर उठ सड़े हुए। पुकारने लगे—“अरे यह कौन बुढ़िया है? यह कहां से आगई? देखो किसी को छून दे।”

(४)

पं० बुधिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। पूढ़ियों का थाल लिये सड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी वैदमान और भगोड़े असामी को देखते ही झपट कर उसका टेढ़ुआ पकड़ लेता है, उसी तरह झपट कर उसने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर इन्हें अंधेरी कोठरी में धम्मसे पटक दिया। आशा रूपी बाटिका लू के एक ही भौंके से नष्ट विनष्ट हो गई।

मेहमानों ने भोजन किया। घर वालों ने भोजन किया। बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परन्तु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दण्ड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुझाये पर, दीनता पर, हत-ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुछ रही थी।

लाडली को काकी से अत्यन्त प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बालविनोद और चंचलता की उसमें गन्ध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता-पिता ने काकी को

निर्दयता से घसीटा, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह ऊँझला रही थी कि, यह लोग काकी को क्या बहुत सी पूँडियाँ नहीं दे देते? क्या मेहमान सब की सब खा जायेंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहिले खा लिया तो क्या बिगड़ जायेगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी; परन्तु माता के भय से न जाती थी, उसने अपने हिस्से की पूँडियाँ विलकुल न खाई थीं, अपनी गुडियों की पिटारी में बन्द कर रखी थीं। वह उन पूँडियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूँडियाँ देख कर कैसी प्रसन्न होंगी! मुझे खूब प्यार करेंगी!

रात के ग्यारह बज गये थे। रूपा आंगन में पढ़ी सो रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूँडियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुडियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि मां सो रही है; तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूँ। चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग जल रही थी, और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाली नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमानजी बैठे हुए हैं। उन की पूँछ, उनकी गदा, सब स्पष्ट दिखलाई दे रहीं थीं। मारे भय के उसने आंखें बन्द कर लीं, इतने में कुत्ता

उठ बैठा, लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली।

बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटी, फिर ऐसा मालूम हुआ, जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाप लिये जाता है। उनके पैर बार बार पथ्थर से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गयीं।

जब वे सचेत हुईं, तो किसी की ज़रा भी आहट न मिलती थी। समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम! क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है? हा! किसी ने मेरी सुध न ली! क्या मेरा ही पेट काटने से धन बच जायगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने कब मर जाय? उसका जी क्यों दुखाएं? मैं पेट की रोटियाँ ही खाती हूँ कि और कुछ? इस पर यह हाल! मैं अन्धी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूँ न देखूँ, यदि आँगन में चली गई तो क्या बुद्धिर म से इतना नहीं कहते बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूँछियों के लिये रूपा ने सब के सामने गालियाँ दीं। उन्हीं पूँछियों के लिये इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का

कलेजा न पसीजा। सब को खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब उस समय ही न दीं तब अब क्या देंगीं?

यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आ ता था, परन्तु मेहमानों के भय से रोती न थीं।

(५)

सहसा उनके कानों में आवाज़ आई—“काकी! उठो,
मैं पूड़ियां लाइ हूँ।”

काकी ने लाडली की बोली पहिचानी, चटपट उठ बैठीं।
दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया।

लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दीं। काकी ने पूछा—
“क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं?” लाडली ने कहा—“नहीं
यह मेरे हिस्से की हैं।” काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। पांच
मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा—काकी,
पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और
भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने
काकी की जुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था।
बोली—“नहीं बेटी! जा कर अम्मा से और मांग लाओ।”
लाडली ने कहा—“अम्मा सोती है, जगाऊगी तो मारेंगी।”

काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुर्चन

गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गयीं। बार बार हौंठ चाटती थीं। चटखारे मारती थीं।

हृदय मसोस रहा था कि और पूँडियाँ कैसे पाऊँ। सन्तोष-सतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदान्ध बनाना है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रवल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रहीं फिर सहसा लाडली से बोलीं—“मेरा हाथ पकड़ कर बहांले चलो, जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है।”

लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, जुधातुर, हत-जान बूढ़ी पत्तलों से पूँडियों के ढुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह! दही कितना स्वादिष्ट था! कचौरियाँ कितनी सलोनी! खस्ता कितने सुको-मल! काकी बुद्धिमान होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिये। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ। परन्तु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अन्तिम समय है, जब सम्पूर्ण इच्छाएं एक ही केन्द्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी मैं यह केन्द्र उनकी स्वादेन्द्रिय था।

ठीक उसी समय रूपा की आँखें खुलीं। उसे मालूम हुआ

कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे बहाँ न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है, कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूँछियों के ढुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सघ्र हो गया। किसी गाय की गर्दन पर लुरी चलते देख कर जो अवस्था उसकी होती, वही इस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल चाटे, इस से अधिक शोकमय दृश्य असम्भव था। पूँछियों के कुछ ग्रासों के लिये उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानों आसमान चक्र खा रहा है; संसार पर कोई नहै विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंख भर आईं। इस अधर्म तथा पापका भागि कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन-मण्डल की ओर हाथ उठाकर कहा—“परमात्मा! मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जायगा।”

रूपा को अपनी स्वार्थ-परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्षरूप में कभी न देख पड़ा था। वह सोचने लगी—हाय! कितनी निर्देय हूँ। जिसकी सम्पत्ति से मुझे कई सौ रुपया

धार्षिक आय हो रही है, उसी की यह दुर्गति ! और मेरे कारण । हे दयामय भगवन् ! सुझ से बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही; अपने नाम के लिए सैकड़ों रूपये व्यय कर दिये। परन्तु जिस की बदौलत हजारों रूपये खाए उसे इस उत्सव में भी भर पेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो, कि वह बृद्धा है, असहाय है !

रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में समूर्ख सामग्रियां सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली।

आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परन्तु उनमें किसी को वह परमानन्द प्राप्त न हो सकता था, जो बूढ़ी काकी को अपने समुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा—“काकी ! उठो-भोजन कर लो। मुझ से आज बड़ी भूल हुई, इसको बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे ।”

भोले-भाले बच्चों की भाँति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोपं से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं, और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दश्य का आनन्द लूटने में निमग्न थी।

प्रारब्ध

(१)

लाला जीवनदास को मृत्युशय्या पर पड़े ६ मास हो गए हैं। अवस्था दिनों दिन शोचनीय होती जाती है। चिकित्सा पर उन्हें अब तनिक भी विश्वास नहीं रहा। केवल प्रारब्ध का ही भरोसा है। कोई हितैषी वैद्य या डाक्टर का नाम लेता है, तो वे सुंह केर लेते हैं। उन्हें जीवन की अब कोई आशा नहीं है यहां तक कि अब उन्हें अपनी बीमारी के जिक्र से भी घृणा होती है। एक दृण के लिए भूल जाना चाहते हैं कि मैं काल के मुख में हूँ। एक दृण के लिए इस दुस्साध्य चिन्ता-भार को सिर से फेंककर रवाधीनता से सांस लेने के लिए उनका चिच्च लालायित हो जाता है। उन्हें राजनीति से कभी रुचि नहीं रही। अपनी व्यक्तिगत चिन्ताओं ही में लीन रहते थे। लेकिन अब उन्हें राजनीतिक विषयों से विशेष प्रेम हो गया। अपनी बीमारी की चर्चा के अतिरिक्त वह प्रत्यके विषय को चाव से सुनते हैं। किन्तु ज्योंही किसी ने सहानु-भूतिभाव से किसी औषधि का नाम लिया, कि उनकी त्यौरी

बदल जाती है। अंधकार में विलाप-च्चनि इतनी निराशाजनक नहीं होती, जितनी प्रकाश की एक भलक।

वह यथार्थवादी पुरुष थे। धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक की व्यवस्थायें उनकी विचार-परिधि से बाहर थीं। यहाँ तक कि अज्ञात भय से भी वे शंकित न होते थे। लेकिन उसका कारण उनकी मानसिक शिथिलता न थी। बल्कि लोक-चिन्ता ने परलोक चिन्ता का स्थान ही शेष न रखा था। उन का परिवार बहुत छोटा था। पत्नी थी और एक बालक। परन्तु स्वभाव उदार था। ऋण आय से बढ़ता रहता था। उस पर इस असाध्य और चिरकालीन रोग ने ऋण पर कई दर्जे की वृद्धि कर दी थी। मेरे पीछे इन निस्सहाओं का क्या हाल होगा यह ध्यान आते ही उनका चित्त विहळ जो जाता था। इनका निर्वाह कैसे होगा? ये किस के सामने हाथ फैलायेंगे? कौन इनकी खबर लेगा? हाय! मैंने विवाह क्यों किया? पारिवारिक बन्धन में क्यों फंसा? क्या इस लिये कि ये संसार के हिम-तुल्य दया के पात्र बनें। क्या अपने कुल की प्रतिष्ठा और सम्मान को यों विनष्ट होने दूँ? जिस दुर्गादास ने सारे नगर को अपनी अनुग्रह-वृष्टि से प्लावित कर दिया था, उसी के पोते और बहू द्वार-द्वार ठोकरे खाते किरे?

हाय क्या होगा? कोई अपना नहीं चारों ओर भयावह बन है! कहीं मार्ग का पता नहीं! यह सरला रमणी! यह अबोध बालक! इन्हें किस पर छोड़ूँ?

हम अपनी आन पर जान देते थे। हमने किसी के सन्मुख सिर नहीं झुकाया। किसी के ऋणी नहीं हुए। सदैव गर्दन उठा कर चले और अब यह नौबत है, कि कफ़न का भी ठिकाना नहीं !

(२)

आधी रात व्यतीत हो चुकी थी। जीवनदास की दशा आज बहुत नाजुक थी। बार बार मूर्छ आ जाती। बारबार हृदय की गतिरुक्त जाती। उन्हें ज्ञात होता था कि अब समय अन्त निकट है। कमरे में एक लैम्प जल रहा था। उन की चारपाई के सभी प ही प्रभावती और उस का बालक साथ सोये हुए थे। जीवनदास ने कमरे की दीवारों को निराशा-पूर्ण नेत्रों से देखा जैसे कोई भटका हुआ पथिक निवास स्थान की खोज में हो। चारों ओर से घूमकर उन की आंखें प्रभावती के चेहरे पर जम गईं। हा ! यह सुन्दरी एक क्षण में विधवा हो जायगी। यह बालक पिटहीन हो जायगा ? यही दोनों व्यक्ति मेरी जीवन-आशाओं के केन्द्र थे। मैंने जो कुछ किया इन्हीं के लिये किया। मैंने अपना जीवन इन्हीं को अपेण कर दिया था। और अब इन्हें मंझदार में छोड़े जाता हूँ। इसी लिये कि वे विपत्ति-भंवर के कौर बन जाएं। इन विचारों ने उनके हृदय को मसोत दिया। आंखों में आंसू बहने लगे।

अचानक उनके विचार-प्रवाह में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। निराशा की जगह मुख पर एक ढढ़ संकल्प की आभा

दिखाई दी, जैसे किसी गृहस्वामिनी की भिड़कियां सुनकर एक दीन मिल्कुक के तेवर बदल जाते हैं। 'नहीं कदापि नहीं' मैं अपने प्रियपुत्र, अपनी प्राण-प्रिया पत्नी पर प्रारब्ध का अत्याचार न होने दूंगा। अपने कुल की मर्यादा को यों भ्रष्ट न होने दूंगा। एक अवलोकन की कठिन परीक्षा मैं न ढालूंगा। मैं मर रहा हूं, परन्तु प्रारब्ध के सामने सिर न कुकाऊंगा। उस का दास नहीं स्वामी बनूंगा। अपनी नौका के निर्दय तरंगों के आश्रित न बनने दूंगा।

"निस्सन्देह संसार का मुंह बनाएगा। मुझे दुरात्मा, घातक, नराधम कहेगा। इस लिए कि उसके पाशविक आमोद मैं, उसकी पाशविक कीड़ाओं मैं एक व्यवस्था कम हो जायगी। कोई चिन्ता नहीं मुझे यह संतोष तो रहेगा कि उस का अत्याचार मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, उस की अनर्थ लीला से मैं सुरक्षित हूं।"

जीवनदास के मुख पर वर्ण-दीन संकल्प अंकित था। वह संकल्प जो आत्म-हृत्या का सूचक है। वह बिछौने से उठे मगर हाथ पांव थरथर कांप रहे थे। कमरे की प्रत्येक वस्तु उन्हें आंखें फाड़ फाड़कर देखती हुई जान पड़ती थी। अलमारी के शीशे मैं अपनी परछाई दिखाई दी। चौक पढ़े, वह कौन? स्थाल आ गया यह तो अपनी छाया है। उन्होंने अलमारी से एक चमचा और एक प्याला निकाला। प्याले मैं वह ज़हरीली दवा थी जो डाक्टर ने उनकी छाती पर मलने के

लिये दी थी। प्याले को हाथ में लिये चारों ओर सहमी हुई दृष्टि से ताकते हुए वह प्रभावती के सिराहने आकर खड़े हो गए। हृदय पर करुणा का आवेग हुआ। “आह इन प्यारों को क्या मेरे ही हाथों मरना लिखा था? मैं ही इनका यमदूत बनूंगा। यह अपने कर्मों का फल है। मैं आंखें बन्द करके वैवाहिक बन्धन में फंसा। इन भावी आपदाओं की ओर मेरा ध्यान क्यों न गया? मैं उस समय ऐसा हर्षित और प्रफुल्लित था मानों जीवन एक अनादि सुख-स्वर है, एक सुधामय आनन्द-सरोबर। यह इस अदूरदर्शिता का परिणाम है कि आज मैं यह दुर्दिन देख रहा हूँ।”

हठात् उनके पैरों में कम्पन हुआ, आंखों में अन्धेरा छा गया, नाड़ी की गति बन्द होने लगी। वे करुणामयी भावनाएं मिट गईं। शंका हुई, कौन जाने यही दौरा जीवन का अन्त न हो। वह संभल कर उठे और प्याले से दवा का एक चम्मच निकाल कर प्रभावती के मुंह में डाल दिय। उसने नींद में दो एक बार मुंह डुलाकर करवट बदल ली। तब उन्होंने लखनदास का मुंह खोलकर उसमें भी एक चम्मच भर दवा डाल दी और प्याले को भूमि पर पटक दिया। पर हा! मानव-परवशता! हा प्रवल भावी! भाग्य की विषम कीड़ा अब उनसे चाल चल रही थी। प्याले में विषन था, वह टानिकथा जो डाक्टर ने उन का बल बढ़ाने के लिए दिया था।

प्याले को रखते ही उनके कांपते हुए पैर स्थित हो गए,

मूर्छा के सब लक्षण जाते रहे। चित्त पर भय का प्रकोप हुआ। वह कमरे में एक लक्षण भी न ठहर सके। हत्या प्रकाश का भय हत्या कर्म से भी कहाँ दाखल था। उन्हें दण्ड की चिन्ता न थी; पर निंदा और तिरस्कार से बचना चाहते थे। वह घर से इस तरह बाहर निकले, जैसे किसी ने उन्हें ढकेल दिया हो। उनके अंगों में कभी इतनी स्फूर्ति न थी। घर सड़क पर था, द्वार पर एक तांगा मिला। उस पर जावैठे। नाहियों में विद्युतशक्ति दौड़ रही थी।

तांगे वाले ने पूछा—कहाँ चलूँ?

“ जहाँ चाहो !”

“ स्टेशन चलूँ ?”

“ वही सही !”

“ छोटी लैन चलूँ या बड़ी लैन ?”

“ जहाँ गाड़ी जल्द मिल जाय !”

तांगे वाले ने उन्हें कौतूहल से देखा। परिचित था, बोला—“ आप की तबीयत अच्छी नहीं है, क्या और कोई साथ न जायगा ?”

“ नहीं मैं अकेला ही जाऊँगा !”

“ आप कहाँ जाना चाहते हैं ?”

“ बहुत बातें न करो यहाँ से जल्द चलो !”

तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाया और स्टेशन की ओर चला। जीवनदास वहाँ पहुँचते हीं तांगे से कूद पड़े

और स्टेशन के अन्दर चले। तांगे वाले ने कहा—“पैसे ?”

जीवनदास को अब ज्ञात हुआ कि मैं घर से कुछ नहीं लेकर चला, यहां तक कि शरीर पर यथेष्ट बस्त्र भी न थे। बोले, पैसे फिर मिलेंगे।

“आप न जाने कब लौटेंगे।”

“मेरा जूता नया है, ले लो।”

तांगे वाले का आश्र्य और भी बढ़ा, समझा इन्होंने शराब पी है, अपने आपे में नहीं हैं। चुपके से जूते लिए और चलता हुआ।

गाड़ी के आने में अभी धंटों की देर थी। जीवनदास बेटफार्म पर जा कर टहलने लगे। धीरे धीरे उनकी गति तीव्र होने लगी मानों कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें इसकी बिलकुल चिन्ता न थी कि मैं खाली हाथ हूँ। जाड़े के दिन थे लोग सरदी के मारे अकड़े जाते थे, किन्तु उन्हें ओढ़ने बिछौने की भी सुधि न थी। उनकी चैतन्य-शक्ति नष्ट हो गई थी; केवल अपने दुष्कर्म का ज्ञान जीवित था। ऐसी शंका होती थी कि प्रभावती मेरे पीछे दौड़ी चली आती है, कभी भ्रम होता कि लखनदास भागता हुआ आ रहा है, कभी पड़ोसियों के धर-पकड़ की आवाज कानों में आती थी, उनकी कल्पना प्रति क्षण उत्तेजित होती जाती थी, यहां तक कि वह प्राण भय से मात्र के बोरों के बीच में जा छिपे। एक

एक मिनट पर चौंक पड़ते थे, और संशक नेत्रों से इधर उधर देख कर फिर छिप जाते थे। उन्हें अब यह भी स्मरण न रहा कि मैं यहां क्या करने आया हूं, केवल अपनी प्राण रक्षा का ज्ञान शेष था। धंटियां बर्जीं, मुसाफिरों के झुएड़ के झुएड़ आने लगे, कुलियों की बक बक, मुसाफिरों की चीख और पुकार, आने जाने वाले एजिनों की धकधक से हाहा-कार मचा हुआ था, किन्तु जीवनदास उन जड़ बोरों के बीच में इस तरह पैतरें बदल रहे थे मानो वे चैतन्य होकर उन्हें घेरना चाहते हैं।

निदान गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। जीवनदास संभल गए। स्मृति जागृत हो गई। लपक कर बोरों में से निकले और एक कमरे में जा बैठे।

इतने में गाड़ी के द्वार पर खट खट की ध्वनि सुनाई दी। जीवनदास ने चौंक कर देखा, टिकट का निरीक्षक खड़ा था। उनकी अचेतनावस्था भंग हो गई। वह कौनसा नशा है जो मार के आग भाग न जाय। व्याधि की शंका संद्वा को जागृत कर देता है। उन्होंने शीघ्रता से जलगृह खोला और उस में घुस गए। निरीक्षक ने पूछा—‘और कोई नहीं’ मुसाफिरों ने एक स्वर से कहा—‘अब कोई नहीं है।’ जनता को अधिकारिवर्ग से एक नैसर्गिक द्वेष होता है। गाड़ी चली तो जीवनदास बाहर निकले। यात्रियों ने एक प्रचण्ड हास्यध्वनि से उनका स्वागत किया। यह देहरादून मेल था।

(३)

रास्तेभर जीवनदास कल्पनाओं में मग्न रहे । हरिद्वार पहुंचे तो उन की मानसिक अशांति बहुत कुछ कम हे गई थी । एक क्षेत्र से कम्बल लाए, भोजन किया और वहाँ पड़ रहे । अनुग्रह के कचे धागे को वह लोहे की बेड़ी समझते थे पर दुरवस्था ने आत्म-गौरव का नाश कर दिया था ।

इस भाँति कई दिन बीत गए, किन्तु मौत का तो कहना ही क्या, वह व्याधि भी शांत होने लगी जिस ने उन्हें जीवन से निराश कर दिया था । उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी मुख की कान्ति प्रदीप होने लगी । वायु का प्रकोप शांत हो गया, मानो दो प्रिय प्राणियों के बलिदान ने मृत्यु को तृप्त कर दिया था ।

जीवनदास को यह रोग-निवृत्ति उस दारुण रोग से भी अधिक दुखदाई प्रतीत होती थी । वे अब मृत्यु का आह्वान करते, ईश्वर से प्रार्थना करते कि फिर उसी जीर्णवस्था का दुरागमन हो, नाना प्रकार के कुपथ्य के ते, किन्तु कोई प्रयत्न सफल न होता था । उन बलिदानों ने वास्तव में यमराज को संतुष्ट कर दिया था ।

अब उन्हें चिन्ता होने लगी, क्या मैं वास्तव में जीता रहूँगा । लक्षण ऐसे ही दीख पड़ते थे । नित्यप्रति यह शंका प्रबल होती जाती थी । उन्होंने प्रारब्ध को अपने पैरों पर मुकाना चाहा था, पर अब स्वयं उस के पैरों की रज चाट

रहे थे। उन्हें बारंबार अपने ऊपर कोध आता, कभी व्यग्र होकर उठते कि जीवन का अन्त कर दूँ, तकदीर को दिखा दूँ कि मैं अब भी उसे कुचल सकता हूँ, किन्तु उस के हाथों इतनी विकट यन्त्रणा भोगने के बाद उन्हें भय होता था कि कहीं इस से भी जटिल समस्या उपस्थित न हो जाय; क्योंकि उन्हें उस की शक्ति का कुछ कुछ ज्ञान हो गया था।

इन विचारों ने उन के मन में नास्तिकता के भाव उत्पन्न किए। वर्तमान भौतिक शिक्षा ने उन्हें पहले ही अनात्मवादी बना दिया था। अब उन्हें समस्त प्रकृति अनर्थ और अर्धमें के रंग में छूटी हुई मालूम होने लगी। यह न्याय नहीं, दया नहीं, सत्य नहीं। असम्भव है कि यह सृष्टि किसी कृपालु शक्ति के आधीन हो और उस के ज्ञान में नित्य ऐसे वीभत्स, ऐसे भीषण अभिनय होते रहें। वह न दयालु है, न वत्सल है। वह सर्व-ज्ञानी और अन्तर्यामी भी नहीं, निस्सन्देह वह एक विनाशिनी, वक्र और विकारमय शक्ति है। सांसारिक ग्राहियों ने उस की अनिष्ट कीड़ा से भयभीत होकर उसे सत्य का सागर, दया और धर्म का भाण्डार, और ज्ञान का स्रोत बना दिया है। यह हमारा दीन विलाप है, अपनी दुर्बलता का करुण अश्रुपात। इसी शक्ति-हीनता को, इसी निस्सद्यता को हम उपासना और आराधना कहते हैं और उस पर गर्व करते हैं। दार्शनिकों का कथन है कि यह प्रकृति अटल नियमों के आधीन है, यह भी उन की श्रद्धा ही है।

नियम जड़, अचैतन्य होते हैं, उन में कपट के भाव कहाँ ?
इन नियमों का संचालक, इस इन्द्रजाल का मदारी अवश्य है,
यह स्पष्ट है, किन्तु वह प्राणी देवता नहीं, पिशाच है ।

इन भावों ने शनैः शनैः क्रियात्मक रूप धारण किया
सद्भाक्षि हमें ऊपर ले जाती है, असद्भाक्षि हमें नीचे गिराती
है । जीवनदास की नौका का लंगर उखड़ गया । अब उसका
न कोई लक्ष्य था और न कोई आधार; तरंगों में डांवाडोल
होती रहती थी ।

(४)

पन्द्रह वर्ष बीत गए । जीवनदास का जीवन आनन्द
और विलास में कटता था । रमणीक निवास-स्थान था,
स्वारियाँ थीं नौकर-चाकर थे । नित्य राग रंग होता रहता
था । अब इन्द्रिय-लिप्सा उन का धर्म था, वासना-त्रृति उन
का जीवन-तत्त्व । वे विचार और विवेक के बन्धनों से मुक्त हो
गए थे । नीति और अनीति का ज्ञान लुप्त हो गया था ।
साधनों की भी कमी न थी । बंधे बैल और छूटे सांड में बड़ा
अन्तर है । एक रातिब पाकर भी दुर्बल है, दूसरा धासपात
ही में मस्त हो रहा है । स्वाधीनता बड़ी पोषक वस्तु है ।

जीवनदास को अब अपनी स्त्री और बालक की याद
न सताती थी । भूत और भविष्य का उन के हृदय पर कोई
चिह्न न था । उन की दृष्टि केवल वर्तमान पर रहती थी ।

वह धर्म को अधर्म समझते थे और अधर्म को धर्म। उन्हें सृष्टि का यह मूलतत्व प्रतीत होता था। उनका जीवन स्वयं इस दुर्लभिता का उज्ज्वल प्रमाण था। आत्मबन्धन को तोड़ कर वे जितने उपस्थित हुए वहाँ तक उन बन्धनों में पड़े हुए उनकी दृष्टि भी न पहुंच सकती थी। जिधर आंख उठती अधर्म का साम्राज्य दीख पड़ता था। यही सफल जीवन का मन्त्र था। स्वेच्छाचारी हवा में उड़ते हैं, धर्म के सेवक एड़ियाँ रगड़ते हैं। वे व्यापार और राजनीति के भवन, ज्ञान और भक्ति के मन्दिर, संगीत और काव्य की रंगशाला, प्रेम और अनुराग की मंडलियाँ सब इसी दीपक से आलोकित हो रही हैं। ऐसी विराद् ज्योति की अराधना क्यों न की जाय?

गरमी के दिन थे; सन्ध्या का समय; हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। जीवनदास एक गेरुए रङ्ग की रेशमी चादर गले में डाले; सुनहरी चश्मा लगाए; दिव्य ज्ञान की मूर्ति बने हुए अपने सहचरों के साथ प्लेटफ्रार्म पर टहल रहे थे। उन की भेदक दृष्टि यात्रियों पर लगी हुई थी। अचानक उन्हें दूसरे दर्जे के कमरे में एक शिकार दिखाई दिया। वह एक रूपवान युवक था। चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। उसकी घड़ी की जंजीर सुनहरी थी; तंजेब की अचक्कन के बटन भी चोने के थे। जिस प्रकार बधिक की दृष्टि पशु के चर्म और मांस पर रहती है उसी प्रकार जीवन

दास जीवनदास में मनुष्य एक भोग्य पदार्थ था। उनके अनुमान
 विश्वार्थजनक सत्त्वता प्राप्त कर ली थी और उसमें कभी
 भूल न होती थी। यह युवक अवश्य कोई रईस है, सरल और
 गौरव शील भी है, अतएव सुगमता से जाल में फँस जायगा।
 उस पर अपनी सिद्धता का सिक्का बिठाना चाहिए। उसका
 सरल हृदयता पर निशाना मारना चाहिए। मैं गुरु बनूं, यह
 दोनों मेरे शिष्य बन जायँ, छल की घातें चलें, मेरी अपार
 विद्वत्ता, अलौकिक कीर्ति और अगाध वैराग्य का मधुर गान
 हों, शब्दाडम्बरों के दाने बिखर दिए जायँ और सुग पर फँदा
 डाल दिया जाय।

यह निश्चय करके जीवनदास कमरे में दाखिल हुए।
 युवक ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे अपने भूले हुए मित्र को
 पहचानने की चेष्टा कर रहा हो। तब अधीर होकर बोला—
 ‘महात्मा जी आपका स्थान कहां है?’

जीवनदास प्रसन्न होकर बोले—“बाबा सन्तों का स्थान
 कहां? समस्त संसार हमारा स्थान है।”

युवक ने फिर पूछा—“आप लाला जीवनदास तो नहीं।”
 जीवनदास चौंक पड़े। छाती बलियों उछलने लगी।
 चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगीं। कहीं यह खुफिया पुलिस का
 आदमी तो नहीं है; कुछ निश्चय न कर सके क्या उत्तर दूँ।
 गुम सुम हो गए।

युवक ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा—“मेरी

यह धृष्टता क्षमा कीजिये। मैंने यह बात इस लिए पूछी कि आपका श्रीमुख मेरे पिता जी से बहुत मिलता है। वे बहुत दिनों से गायब हैं। लोग कहते हैं कि संन्यासी हो गए। वरसों से उन्हीं की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ।”

जिस प्रकार क्षितिज पर मेघराशि चढ़ती है और क्षणमात्र में सम्पूर्ण वायु मण्डल को धेर लेती है, उसी प्रकार जीवनदास को अपने हृदय में पूर्व-स्मृतियों की एक लहर सी उठती हुई मालूम हुई। गला फँस गया, और आँखों के सामने प्रत्येक वस्तु तैरती हुई जान पड़ने लगी। युवक की ओर सचेष्ट नेत्रों से देखा, स्मृति सजग हो गई। उसके गले से लिपट कर बोले—‘लक्खू।’

लखनदास उनके पैरों पर गिर पड़ा।

‘मैंने बिलकुल नहीं पहचाना।’

‘एक युग हो गया।’

(५)

आधी रात गुजर चुकी थी। लखनदास सो रहा था और जीवनदास खिड़की से सिर निकाले विचारों में मग्न थे। प्रारब्ध का एक नया अभिनय उन के नेत्रों के सामने था। वह धारणा जो अतीत काल से उनकी पथ-प्रदर्शक बनी हुई थी हिल गई। मुझे अहंकार ने कितना विवेक-हीन बना दिया था। समझता था, मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। मेरे मरने पर

परिवार का अधःपतन हो जायगा, पर मेरी यह दुश्चिन्ता कितनी मिथ्या निकली। जिन्हें मैंने विष दिया, वे आज जीवित हैं, सुखी हैं और सम्पत्तिशाली हैं। असम्भव था कि मैं लकड़ी को ऐसी उच्च शिक्षा दे सकता। माता के पुत्र-प्रेम और अध्यवसाय ने कठिन मार्ग कितना सुगम कर दिया। मैं उसे इतना सच्चारित्र, इतना दड़-संकल्प, इतना कर्त्तव्य-शील कभी न बना सकता। यह स्वावलम्बन का फल है। मेरा विष उसके लिए असृत हो गया। कितना विनयशील हंसमुख, निस्पृह और चतुर युवक है! मुझे तो अब उसके साथ बैठते भी संकोच होता है। मेरा सौभाग्य कैसा उद्य हुआ है! मैं विराट् जगत् को किसी पैशाचिक शक्ति के अधीन समझता था जो दीन प्राणियों के साथ विलली और चूहे का खेल खेलती है। हा मूर्खता, हा अज्ञान! आज मुझ जैसा पापी मनुष्य इतना सुखी है। इसमें सन्देह नहीं, इस जगत् का स्वामी दया और कृपा का महासागर है। प्रातः काल मुझे उस देवी से साक्षात् होगा जिसके साथ जीवन के कई साल गुजारे हैं। मेरे पोते पोतियां मेरी गोद में खेलेंगी! मित्रगण मेरा स्वागत करेंगे। ऐसे द्यामय मण्डवान् को मैं अमंगल का मूल समझता था।

इन विचारों में पड़े हुए जीवनदास को नींद आ गई। जब आँख खुली तो लखनऊ की प्रिय चिर परिचित ध्वनि गानों में आई। वे चौंक कर उठ बैठे। लखनदास असबाब

उत्तरवा रहे थे। स्टेशन के बाहर उनकी फिटन खड़ी थी। दोनों आदमी उस पर बैठे। जीवनदास का हृदय आहाद से भर रहा था। वे मौन रूप बैठे हुए थे; मानों समाधि में हों।

फिटन चली। जीवनदास को प्रायः सभी चीज़ें नई मालूम होती थीं। न वे बाजार न वे गली-कूचे, न वे प्राणी थे। एक युगान्तर सा हो गया था। निदान उन्हें एक रमणीक बंगला सा दिखाई पड़ा, जिस के छार पर मोटे अक्षरों में अंकित था—

“जीवनदास पाठशाला”

जीवनदास ने विस्मित होकर पूछा—“यह क्या है?”

लखनदास ने कहा—“माता जी ने आप की स्मृति-रूप यह पाठशाला खोली है। कई लड़के छात्र वृत्ति पाते हैं।”

जीवनदास का दिल और भी बैठ गया। मुंह से एक ठण्डी सांस निकल गई।

थोड़ी देर के बाद फिटन रुकी, लखनदास उतर पड़े। नौकरों ने असबाब उतारना शुरू किया। जीवनदास ने देखा तो एक पक्का दो मंजिला मकान था। उनके पुराने खपरैल बाले घर का कोई चिह्न न था। केवल नाम को एक बृक्ष बाकी था। दो अबोध बालक ‘बाबू’ कहते हुए दौड़े और लखनदास के पैरों से लिपट गए। घर में एक हलचल सी मच गई। दीवानखाना खुल गया जो खूब सजा हुआ था।

दीवानखाने के पांछे एक पुष्प वाटिका थी । जीवनदास ऐसे चकित हो रहे थे मानों कोई तिलिस्म देख रहे हों !

(६)

रात्रि का समय था । बारह बज चुके थे । जीवनदास को किसी करवट नींद न आती थी । अपने जीवन का चित्र उन के सामने था । इन पन्द्रह वर्षों में उन्होंने जो काटे बोए थे वे इस समय उनके हृदय में चुभ रहे थे । जो गढ़ खोदे थे वे उन्हें निगलने के लिये मुंह खोले हुए थे । उनकी दशा में एक ही दिन में घोर परिवर्तन हो गया था । अभक्ति और अविश्वास की जगह विश्वास का अभ्युदय हो गया था, और यह विश्वास केवल मानसिक न था, वरन् प्रत्यक्ष था । ईश्वरीय न्याय का भय एक भयंकर मूर्ति के सदृश उनके सामने खड़ा था । उस से बचने की अब उन्हें कोई युक्ति नज़र न आती थी । अब तक उनकी स्थिति उस आग की चिनगारी के समान थी जो किसी मरुभूमि पर पड़ी हुई हो । उस से हानि की कोई शंका न थी । लेकिन आज वह चिन-गारी एक खलिहान के पास पड़ी हुई थी । मालूम नहीं कब वह प्रज्ज्वलित होकर खलिहान को भस्मीभूत कर दे ।

ज्यों ज्यों रात गुज़रती थी, यह भय ग्लानि का रूप धारण करता जाता था । “हा शोक ! मैं इस योग्य भी नहीं कि इस साक्षात् क्षमा और दया को अपना कलुषित मुंह दिखाऊँ ।

उसने सुभ पर सदैव करुणा और वात्सल्य की दृष्टि रखी, और यह शुभ दिन दिखाया। मेरी कालिमा उसकी उज्ज्वल कीर्ति पर एक काला दाग है। मेरी कलुषता क्या इस मंगल चित्र को भी कलुषित न कर देगी? मेरी पापाश्चि के स्पर्श से क्या यह हरा उद्यान मटियामेट न हो जायगा? मेरी अपकीर्ति कभी न कभी प्रकट होकर इस कुल की मर्यादा और सम्मान को नष्ट न कर देगी? मेरे जीवन से अब किस को सुख है? कदाचित् भगवान् ने मुझे लज्जित करने के लिये, मुझे अपनी तुच्छता से अबगत कराने के लिये, मेरे गले में अनुताप की फांसी डालने के लिये यह अद्भुत लीला दिखाई है। हा! इसी कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैंने भीषण हत्याएं की थीं। क्या अब जीवित रहकर इसकी वह दुर्दशा कर दूँ जो मर कर भी न कर सका? मेरे हाथ खून से लाल हो रहे हैं। परमात्मन्! यह खून रंग न लाए। यह हृदय पापों के कीटाणु से जर्जर हो रहा है। भगवान्, यह कुल उसके लूत से बचा रहे।"

इन विचारों ने जीवनदास में ग्लानि और भय के भावों को इतना उत्तेजित किया कि वह विकल हो गए। जैसे परती भूमि में बीज का असाधारण विकास और प्रक्षार होता है, उसी तरह विश्वासहीन हृदय में जब विश्वास का बीज पड़ता है तो उसमें सजीवता और विकास का प्रादुर्भाव होता है। उसमें विचार के बदले व्यवहार का प्राधान्य होता है। आत्म-समर्पण उसका विशेष लक्ष्य होता है। जीवनदास

को अपने चारों तरफ़ एक सर्व-व्यापी शक्ति, एक विराट् आत्मा का अनुभव हो रहा था। प्रति क्षण उन की कल्पना सजग और प्रदीप्त होती जाती थी। अपने जीवन की घटनाएं ज्वाला-शिखा बनकर उस घर की ओर, उस मंगल और आनन्द के निवास-भवन की ओर दौड़ती हुई जान पड़ती थी मानों उसे निगल जाएंगी।

पूर्व की ओर आकाश अरुण वर्ण हो रहा था। जीवन-दीसं की आंखें भी अरुण थीं। वे घर से निकले। हाथ में एक धोती थी। उन्होंने अपने अनिष्टमय अस्तित्व को मिटा देने का निश्चय कर लिया था। अपनी पापांगि की आंच से अपने परिवार को बचाने का संकल्प कर चुके थे। प्राणपण से अपने आत्म शोक और हृदय-दाह को शान्त करने पर उद्यत हो गए थे।

सूर्योदय हो रहा था। उसी समय जीवनदास गोमती की लहरों में समा गए।

बेटी का धन

(१)

बेतवा नदी दो ऊंचे करारों के बीच इस तरह मुँह छिपाए हुए थी जैसे निर्वल हृदयों में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इस के एक करार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिह्नों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिह्नों पर मर मिटने वाले लोग इस भग्न स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा केवट सुखखू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक के मिटे हुए चिह्नों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रुंधे हुए गले से कहता—“महाशय! एक वह समय था कि केवटों को मछुलियों के इनाम में अशर्फियां मिलती थीं। कहार महल में भाड़ देते हुए अशर्फियां बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज बढ़ कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परन्तु आज इस

की यह दशा है।” इन सुन्दर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के बस की बात न थी। सुनने वाले उस की सहदयता तथा अनुराग के ज़रूर कायल हो जाते थे।

सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परन्तु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा आस न था। तीन लड़के, तीन बहुएं और कई पौत्र पौत्रियाँ थीं। लड़की के बल एक गंगाजली थी, जिस का अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सब से पिछली सन्तान थी। खी के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला-पिलाकर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। ज्याँ त्याँकर निर्वाह होता था, परन्तु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर भरण्ड साहु भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांववालों के समक्ष, हाकिमों से हाथ फेंक फेंककर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता था तो भरण्ड साहु—जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे—तड़प-तड़प कर रह जाते थे। अतः वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सकें।

(२)

इस गांव के ज़र्मीदार ठाकुर जीतनसिंह थे, जिन की

बेगार के भारे गांववालों का नाकों दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह बहाँ के पुरातन चिह्नों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी ज़वान से अपने गांववालों की दुख गाथा उन्हें सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था, कि जीतनसिंह से राय मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है। किन्तु जब गांववाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से मिताई है और हम लोगों को रात दिन रोते कटता है तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आवेगी। “परोपकाराय सताम् विभूतयः।” तब सुक्खू का मिज़ाज़ आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतनसिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतनसिंह से इस का उत्तर मांगा। उधर भरड़ साहु ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामीविद्रोह की रिपोर्ट जीतनसिंह को दी। ठाकुर साहब जल कर आग हो गए। अपने कारिन्दे से बकाया लगान की बही मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगाजली का व्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खबरों ने हाथ बिलकुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिन्ता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ

था कि जिस ज़वान में हाकिमों के प्रसन्न करने की शक्ति है क्या वह ठाकुर साहब को अपना लद्य न बना सकेगी ? इधर तो बूढ़े चौधरी अपने गर्व में निश्चिन्त थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ढुक गई, सम्मन आ पहुंचा, दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई, चौधरी को अपना जादू बलाने का अवसर न मिला ।

जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुकबू ने ठाकुर से छेड़ छाड़ की थी उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया । ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे । उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था । कचहरी यहाँ से तीन मील पर थी । बरसात के दिन, रास्ते में ठौर ठौर पानी और उमड़ी हुई नदियाँ, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निवाह नहीं, पैरों में बल नहीं, अतः अदम पैरवी में मुकदमे का एक तरफ़ा फैसला हो गया ।

(३)

कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए । सारी चतुराई भूल गई । चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते ही जी घर मिट्टी में मिल जायगा । मेरे इन बैलों की सुन्दर जोड़ी के गले में आह ! क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा ? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आतीं । वह

बैलों से लिपट कर रोने लगता, परन्तु बैलों की आँखों से क्यों आंसू जारी थे ? वे नांद में मुँह क्यों नहीं डालते थे ? क्या उन के हृदय पर भी अपने स्वामी के दुःख की चोट पहुंच रही थी ?

फिर वह अपने झोंपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता। और मन में सोचता, क्या हम को इस घर से निकलना पड़ेगा ? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे ज्ञाते जी छिन जायगी ?

कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी आंच भी नहीं सह सकते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े पड़े घण्टों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाता और उनका गुण गाया करता। उस की चिन्तादग्ध आत्मा को और कोई सहारा न था।

इसमें कोई सन्देह न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है, जो पेरने ही से निकलता है। चौधरी जाति का ओङ्का पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते सङ्कोच होता था, कदाचित् यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था, किन्तु तीनों बेटे यदि ज़रा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। परन्तु यहां तो बात ही निराली थी। बूढ़े लड़के को घाट के काम से फुरसत न थी। बाकी दो

लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे।

मंभले भींगुर ने सुंह बना कर कहा—“उंह ! इस गांव में क्या धरा है। जहाँ ही कमाऊंगा वहाँ खाऊंगा। पर जीतन सिंह की मूँछें एक एक करके चुन लूंगा।”

छोटे फक्कड़ ऐंठकर बोले—“मूँछें तुम चुन लेना। नाक मैं उड़ा दूंगा। नककटा बना घूमेगा।”

इस पर दोनों खूब हँसे और मछुली मारने चल दिये।

इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मन्दिर में पूजा करते, नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जर्मीदार के गुपचरों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आप और सहानुभूति के स्वर मैं बोले—“चौधरी ! कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज़ वस्तु ढूँढ़ ढांढ़ कर किसी और जगह भेज देते ? न हो समझियाने भेज दो। जो कुछ बच रहे वही सही। घर की मिट्टी खोदकर थोड़े ही कोई ले जायगा।

चौधरी लेटा था, उठ बैठा, और आकाश की ओर निहार कर बोला—“जो कुछ उसकी इच्छा है वह होगा। मुझ से यह जाल न होगा।”

इधर कई दिन की निरन्तर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे

छुल प्रपञ्च से वृणा उत्पन्न हो गयी थी । परिडतजी जो इस काम में सिद्धहस्त थे, लज्जित हो गए ।

परन्तु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वरेच्छा पर इतना भरोसा न था । धीरे-धीरे घर के बरतन भाँड़े खिस-काये जाते थे । अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया । रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी । तीन दिन तक घर में चूलहा न जला । लड़े चौधरी के मुंह में अच्छ की कौन कहे, पानी का एक बूँद भी न पड़ा । खियां भाड़े से चने भुना कर चबातीं और लड़े के मछलियां भून भून कर उड़ाते । परन्तु बूँदे की इस एकादशी में यदि कोई शरीक थी तो वह उसकी बेटी गंगाजली थी । वह बेचारी आपने बूँदे बाप को चारपाई पर निर्जल छुटप-टाते देख बिलख बिलख रोती थी ।

लड़े को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है । गंगाजली इस सोच विचार में मग्न रहती कि दादा की किस भाँति सहायता करूँ । यदि इम सब भाई बहन मिलकर जीतनासिंह के पास जाकर दया-भिन्ना की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जायेंगे । परन्तु दादा को कब यह स्वीकार होगा । वह यदि एक दिन बड़े साहब के पास चले जायें तो सब कुछ बात की बात में बन जाय । किन्तु उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है । इसी

उद्देह-तुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा, कुम्हलाया हुआ
मुखारविन्द खिल उठा ।

पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से उठ कर चले गए
थे और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए हुए देवताओं को
पुकार पुकार कर बुला रहे थे । निदान गंगाजली उन के
पास जाकर खड़ी हो गई । चौधरी ने उसे देखकर विस्मित
स्वर में पूछा-क्यों बेटी ? इतनी रात गए क्यों बाहर आई ?

गंगाजली ने कहा-बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है
घर में कैसे रहूँ ?

सुक्खू ने ज़ोर से हाँक लगाई-कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी !
मेरे दुःख हरो ।

गंगाजली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली-भजन
गाते तो आज तीन दिन हो गये । घर बचाने का भी कुछ
उपाय सोचा कि इसे यों ही मिट्टी में मिला दोगे ? हम लोगों
को क्या पेड़ तले रक्खोगे ?

चौधरी ने व्यथित स्वर से कहा-बेटी, मुझे तो कोई
उपाय नहीं सूझता । भगवान जो चाहेंगे होगा । वेग चलो
गिरधर गोपाल ! काहे विलम्ब करो ।

गंगाजली ने कहा-मैंने एक उपाय सोचा है । कहो तो कहूँ ।
चौधरी उठ कर बैठ गए और पूछा-कौन उपाय है बेटी ?
गंगाजली ने कहा-मेरे गहने झरङ्ग साढ़ु के यहाँ गिरो रख
दो । मैंने जोड़ लिया है । देने भर के रूपये हो जायंगे ।

चौधरी ने ठणड़ी सांस लेकर कहा—बेटी ! तुमको मुझ से यह बात कहते लाज नहीं आती । वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के क्षुण का पानी पीना भी मना है । तुम्हारी डयोढ़ी में भी पैर रखने का निषेध है । क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो ?

गंगाजली उत्तर के लिए पहिले ही से तैयार थी । बोली— मैं अपने गहने तुम्हें दिये थोड़े ही देती हूँ । इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा देना ।

चौधरी ने कड़कर कहा—यह मुझ से न होगा ।

गंगाजली उत्तेजित होकर बोली—तुम से यह न होगा तो मैं आप ही जाऊँगी । मुझ से घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती ।

चौधरी ने झुंझला कर कहा—विरादरी में कौन सुंह दिखाऊँगा ?

गंगाजली ने चिढ़ कर कहा—विरादरी में कौन ढिढ़ोरा पीटने जाता है ।

चौधरी ने फैसला सुनाया—जग हंसाई के लिये मैं अपना धर्म न विगड़ूँगा ।

गंगाजली विगड़ कर बोली—मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी । मैं आज ही बेतवा नदी मैं कूद पड़ूँगी । तुम से चाहे घर में आग लगते देखा जाय, पर मुझ से तो न देखा जाएगा ।

चौधरी ने ठहड़ी सांस लेकर कातर स्वर में कहा—बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ।

गंगाजली ने गम्भीर भाव से कहा—भावजों से कौन अपना मुंह नोचवाने जायगा। उन को फिकर होता तो क्या मुंह में दही जमा था। कहती नहीं?

—चौधरी निरुत्तर हो गए। गङ्गाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी ले आई और एक एक कर के सब गहने चौधरी को अंगोले में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भर कर कहा—हाय राम! इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कह कर उठे। बहुत रोकने पर भी आंखों में आंसू न छिपे।

(४)

रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खु चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए हुए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे, मानों पाप की गठरी लिए जाते हों। जब वह झरण साहु के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए, आंखें खूब साफ कीं, जिसमें किसी को यह न बोध हो कि चौधरी रोता था।

झरण साहु धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बढ़ीखाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे, जिन

मैं स्थाही की बहुत किफायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आँख मलते पर चिराग की बत्ती उसकाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इस लिए उचित नहीं समझते कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा—जय राम जी।

भरण्ड साहु ने देखा। पहचान कर बोले—जय राम चौधरी! कहो, मुकदमे मैं क्या हुआ। यह लेन देन बड़े भंडट का काम है। दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती।

चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपा कर लापरवाही के साथ कहा—अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल इजराय डिगरी होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का बैर निकाला है। हम को दो तीन दिन की भी मुहलत होती तो डिगरी न जारी होने पाती। छोटे साहब, बड़े साहब दोनों हम को अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उन से घरटों बातें कीं, किन्तु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मुहलत नहीं मिली, क्या करता! इस समय रूपयों की चिन्ता है।

भरण्ड साहु ने चिस्मित होकर पूछा—तुम को रूपयों की चिन्ता! घरभर भरा है वह किस दिन काम आयगा? भरण्ड साहु ने यह व्यंगबाण नहीं छोड़ा था, वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लद्दमी

महारानी का अखण्ड राज्य है।

चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले—साहु जी ! रुपया होता तो किस बात की चिन्ता थी ? तुम से कौन छिपाव है ? आज तीन दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

भरहू साहु जीतनसिंह को खुश रखना ज़रूर चाहते थे, पर साथ ही उन्हें चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। यदि सूद दरसूद जोड़कर मूल तथा व्याज सहज में बसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति न थी। यदि चौधरी के अफ़सरों की जान पहचान के कारण साहुजी का टैक्स से गला छुट जाए, जो अनेकों उपाय करने-अहलकारों की मुट्ठी गरम करने-पर भी नित्य प्रति उन के तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था तो क्या पूछना ! बोले:-

क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लहने बसूल नहीं होते। टैक्स का रुपया देना पड़ा। हाथ बिलकुल खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए ?

चौधरी ने कहा—सौ रुपये की डिगरी है, खर्च वर्च मिला कर दो सौ के लगभग समझो।

भरहू साहु अब अपने दांव खेलने लगे। पूछा—तुम्हारे लड़कों

ने तुम्हारी कुछ भी मदद न की ? वे सब भी तो कुछ न कुछ करते ही हैं ?

साहुजी का यह निशाना ठीक पड़ा—लड़कों की लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले—भाई, लड़के किसी काम के होते तो यह दिन ही क्यों देखना पड़ता। उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं। उन से कुछ सरोकार नहीं। मरते दम भी गला नहीं छूटता; मरुंगा तो सब खाल में भूसा भरा कर रख ढोड़े गे। “गृह कारज नाना जंजालाः ।”

भरहू ने दूसरा तीर मारा—क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा ?

चौधरी ने उत्तर दिया—वहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। तीन दिन तक द्वार पर बिना अन्ध जल के पड़ा था, किसी ने बात भी न पूछी। कहां की सलाह, कहां की बात चीत। बहुओं के पास रूपये न हों, पर गहने तो हैं और वे भी मेरे बनाए हुए। इस दुर्दिन के समय यदि दो दो गहने उतार देतीं तो क्या मैं छुड़ा न देता ? सदा यहीं दिन थोड़े ही रहेंगे।

भरहू समझ गए कि केवल ज़बान का सौदा है और वह ज़बान का सौदा भूलकर भी न करते थे। बोले—तुम्हारे घर के लोग भा अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा

रुपये कहाँ से लावेगा ? अब समय बदल गया । या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरों रखो तब जाकर कहाँ रुपया मिलें । इस के बिना रुपये कहाँ । इस में भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़ते हैं । सुभीता गिरों रखने में ही है । हाँ, जब घर बालों को कोई इस की फ़िक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो । यहीं न होगा कि लोग हँसेंगे । सो यह लाज कहाँ तक निवाहोगे ?

चौधरी ने अत्यन्त चिनीत होकर कहा—साहूजी यह लाज तो मारे डालती है । तुम से क्या छिपा है ? एक वह दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे और अब एक दिन यह है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है । कहाँ सुन्दर दिखाने को जी नहीं चाहता । यह लो गहनों की पोटली । यदि लोक लाज न होती तो इसे लेकर भी यहाँ न आता । परन्तु यह अर्धम इसी लाज निवाहने के कारण करना पड़ा है ।

झरडू साहु ने आश्र्य में होकर पूछा—यह गहने किसके हैं ? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा—मेरी बेटी गंगाजली के । झरडू साहु स्तम्भित हो गए । बोले—अरे ! राम राम !!

चौधरी ने कातर स्वर में कहा—झूब मरने को जी चाहता है । झरडू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थित हो कर कहा—शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना भी मना है ।

चौधरी ने दीर्घ निःश्वास छोड़कर करण स्वर में कहा—न जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की तीन लड़कियां ब्याहीं। कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निवाही है, पर अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है।

झण्डू साहु “लेखा जौ जौ बस्त्रीश सौ सौ” के सिद्धान्त पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उन के लिए हराम था। यदि महीने में एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद बसूल कर लेते। परन्तु नवरात्रि में नित्य दुर्गा-पाठ करवाते थे। पितृ-पक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। झण्डू साहु के द्वार पर साल में एक बार भागवंत् पाठ अवश्य होता। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो खाली हाथ न लौटता, भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को, चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हीं उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उन के धर्म शास्त्र में कन्या के गांव के कूप का पानी पीने से प्यासों मर जाना अच्छा था। वह स्वयं इस सिद्धान्त के भक्त थे और इस सिद्धान्त के अन्य पक्षपाती उन के लिए महामान्य देवता थे। वे पिघल गए। मन में सोचा, वह मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया। निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो उस के धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है।

यह विचार मन में आते ही भरण्ड साहु गही से मसनद के सहारे उठ बैठे और दड़ स्वर से कहा—वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निवाही है अब भी निवाहेंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है, वैसी ही मेरी भी है। यह लो रूपये। आज काम चलाओ। जब हाथ में आ जाएं दे देना।

चौधरी पर इस सदानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्हें अपने भावों की धुनि में कृष्ण भगवान् की मोहिनी मूर्त्ति सामने विराजमान दिखाई दी। वह भरण्ड जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की थी आज साक्षात् देवता जान पड़ता था। रुधे हुए करण से गद्दद होकर बोले—

भरण्ड ! तुम ने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म कहां तक कहूं, मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी झुबती नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊंगा, गाता रहूंगा।

गृह-दाह

(१)

सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देवप्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ-संस्कार भी खूब धूम-धाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता, दिन भर वहाँ बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता था। कितना सुशील होन-हार बालक था! गोरा मुखड़ा, बड़ी-बड़ी आँखें, ऊँचा मस्तक, पतले-पतले लाल अधर, भरे हुए हाथ-पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था—भगवान् इसे उमर दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उस की बुद्धि की प्रसरता पर लोगों को आश्र्य होता था। नित्य उसके मुख-चन्द्र पर हँसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हठ करते या रोते नहीं देखा।

वर्षी के दिन थे। देवप्रकाश बहन को लेकर मंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आँखें हों। उस की पत्नी निर्मला जल में बैठकर कीड़ा करने लगी।

कभी आगे जाती, कभी पछे आती, कभी हुबकी मारती,
कभी अंजुलियाँ से छीटे उड़ाती। देवप्रकाश ने कहा—अच्छा
अब निकलो नहीं तो सरदी हो जायगी। निर्मला ने कहा—
कहो, तो मैं छाती तक पानी में चली जाऊँ?

देवप्रकाश—और, जो कहीं पैर फिसल जाए।

निर्मला—पैर क्या फिसलेगा!

यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने
कहा—अच्छा, अब आगे पैर न रखना। किन्तु निर्मला के सिर
पर मौत खेल रही थी। यह जल-क्रीड़ा नहीं—मृत्यु-क्रीड़ा
थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह
से एक चीख निकली दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे
और फिर जल-मग्न हो गई। एक पल में व्यासी नदी उसे पी
गई। देवप्रकाश खड़े तौलिए से देह पौछ रहे थे। तुरन्त पानी
में कूदे; साथ का कहार भी कूदा। दो मझाह भी कूद पड़े।
सबने हुबकियाँ मारीं, टटोला पर निर्मला का पता न चला।
तब डॉंगी मंगवाई गई। मल्लाहों ने बार-बार गोते मारे; पर
लाश हाथ न आई। देवप्रकाश शोक में हूचे हुए घर आए।
सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा में दौड़ा। पिता ने गोद
में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी न
रोक सके। सत्यप्रकाश ने पूछा—अम्मा कहां है?

देव—बेटा! गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक
लिया।

सत्यप्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा-भाव से देखा और आशय समझ गया। 'अम्मा, अम्मा' कहकर रोने लगा।

(२)

मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन-से-दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को संभालता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से भी वंचित होता है। माता ही उस के जीवन का एक-मात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंख-हीन पक्षी है।

सत्यप्रकाश को एकान्त से प्रेम हो गया। अकेले बैठा रहता। बृक्षों में उसे सहानुभूति का कुछ-कुछ अक्षात् अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों में उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था, तो सभी प्रेम करते थे, माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आँखों में भी वह प्रेम-ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिज्जा देता है?

छः महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा दौड़ा पिता के पास गया और पूछा-क्या मेरी नई माता आवेगी? पिता ने कहा-हाँ; बेटा! वह आकर तुम्हें प्यार करेगी।

सत्य०—क्या मेरी मां स्वर्ग से आ जायेगी?

देव०—हाँ! वही आ जायेगी।

सत्य०—मुझे उसी तरह प्यार करेंगी?

देवप्रकाश इसका क्या उत्तर देते । मगर सत्यप्रकाश उस दिन से प्रसन्न-मन रहने लगा । अम्मा आवेंगी ! मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी अब मैं उन्हें कभी दिक्क न करूँगा, कभी ज़िद न करूँगा, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करूँगा ।

विवाह के दिन आए । घर में तैयारियां होने लगीं । सत्य-प्रकाश खुशी से फूला न समाता । मेरी नई अम्मा आवेंगी । बरात में वह भी गया । नए नए कपड़े मिले । पालकी पर बैठा । नानी ने अन्दर बुलाया, और उसे गोद में लेकर एक अशरफी दी । वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए । नानी ने नई माता से कहा—बेटी ! कैसा सुन्दर बालक है ! इसे प्यार करना ।

सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया । वच्चे भी रूप के उपासक होते हैं । एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषणों से लदी सामने खड़ी थी । उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़ कर कहा—अम्मा !

कितना असुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय ! वह ललना, जो ‘देवप्रिया’ नाम से सम्बोधित होती थी, उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी । वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी; यौवन-काल की मदमय वायु-तरंगों में आनंदोलित हो रही थी । इस शब्द

ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया । कुछ रुष्ट होकर बोली—
मुझे अम्मा मत कहो ।

सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा । उसका बाल-स्वप्न
भंग हो गया । आँखें डबडबा गईं । नानी ने कहा—बेटी !
देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया । वह क्या जाने, क्या
कहना चाहिए । अम्मा कह दिया, तो तुम्हें कौन सी चोट
लग गई ?

देवप्रिया ने कहा—मुझे अम्मा न कहे ।

(३)

सौत का पुत्र विमाता की आँखों में क्यों इतना खटकता
है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोविज्ञान के पंडित ने
नहीं किया । हम किस गिनती में हैं । देवप्रिया के जब तक
पुत्र न हुआ, वह सत्यप्रकाश से कभी-कभी बातें करती,
कहानियां सुनाती; किन्तु बाद में उसका व्यवहार
कठोर हो गया । प्रसव-काल ज्यों-ज्यों निकट आता था, उस
की कठोरता बढ़ती ही जाती थी । जिस दिन उसकी गोद में
एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला
कूदा और सौर-गृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने गया । बच्चा
देवप्रिया की गोद में सो रहा था । सत्यप्रकाश ने बड़ी
उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि
सहसा देवप्रिया ने सरोष स्वर में कहा—खबरदार ! इसे मत
छूना, नहीं तो कान पकड़ कर उखाड़ लूँगी ।

बालक उलटे पांव लौट आया, और कोठे को छुत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है! मैं उसे गोद में ले कर बैठता, तो कैसा मज़ा आता! मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर इन्होंने ने मुझे भिड़क क्यों दिया? भोला बालक क्या जानता था कि इस भिड़की का कारण माता की स वधानी नहीं, कुछ और है।

शिशु का नाम ज्ञानप्रकाश रखा गया था। एक दिन वह सो रहा था। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया, और बच्चे का ओढ़ना हटा कर उसे अनुराग-मय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूँ; पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने मैं देव-प्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर ही से डांटा--हट जा वहां से!

सत्यप्रकाश दीन नेत्रों से माता को देखता हुआ बाहर निकल आया।

सन्ध्या समय उसके पिता ने पूछा--तुम लह्जा को क्यों रुलाया करते हो?

सत्य०--मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता। अम्मा खेलाने को नहीं देती।

देव०--भूठ बोलते हो। आज तुमने बच्चे की चुटकी काटी।

सत्य०--जी नहीं। मैं तो उसकी मुचिङ्गियां ले रहा था।

देव०—भूठ बोलता है ।

सत्य०—मैं भूठ नहीं बोलता ।

देवप्रकाश को क्रोध आ गया । लड़के को दो तीन तमाचे लगाए । यह ताड़ना पहली बार मिली, और निरपराध ! इस ने उसके जीवन की काया-पलट कर दी ।

(४)

उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा । वह घर में बहुत कम आता; पिता आते, तो उनसे सुँह छिपाता फिरता । कोई खाना खाने को बुलाने आता, तो चोरों की भाँति दबता हुआ जाकर खा लेता । न कुछ मांगता, न कुछ बोलता । पहिले अत्यन्त कुशाग्र-बुद्धि था । उसकी सफाई, सलीके और फुरती पर लोग मुग्ध हो जाते थे । अब वह पढ़ने से जी चुराता, मैले-कुचैले कपड़े पहने रहता । घर में कोई प्रेम करने वाला न था ! बाज़ार के लड़कों के साथ गली-गली घूमता, कनकौवे लूटता । गालियां बकना भी सीख गया । शरीर दुर्बल हो गया । चेहरे की कांति गायब हो गई । देवप्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उल्हने मिलने लगे, और सत्यप्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा । यहां तक कि अगर वह कभी किसी घर में किसी कामसे चला जाता, तो सब लोग दुर-दुर कहकर दौड़ाते ।

शानप्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था । देव

प्रकाश उसे रोज़ा सैर कराने साथ ले जाते। हंस-मुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश के साथ से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अन्तर था! एक साफ़-सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला; देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंह फट, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा-भरा पौधा, प्रेम से मावित, द्वेष से सिंचित; दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, बल्लवहीन नववृक्ष, जिसकी जड़ों को एक मुहत से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती; दूसरे को देख देह में आग लग जाती।

आश्र्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई स लेशमात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था, तो वह ज्ञानप्रकाश के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्यभाव की द्योतक है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता। उस में ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था।

घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञानप्रकाश भी बड़े भाई को चाहता था। कभी-कभी उस का पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद-विवाद कर बैठता। कहता—मैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा

देती ? मां उत्तर देती—उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या, अभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञानप्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेव-खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्यप्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता, उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता। उतनी देर के लिए वह सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक नृण के लिये उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती।

एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे न गया।

पिता ने पूछा—तुम आज कल पढ़ने क्यों नहीं जाते ? क्या सोच रखता है कि मैंने तुम्हारी ज़िन्दगी भर का ठेका ले रखता है ?

सत्य०—मेरे ऊपर जुर्माने और फ़ीस के कई रूपए हो गए हैं। जाता हूँ, तो दरजे से निकाल दिया जाता हूँ।

देव०—फ़ीस क्यों बाकी है ? तुम तो फ़ीस महीने-महीने ले लिया करते हो न ?

सत्य०—आए दिन चन्दे लगा करते हैं। फ़ीस के रूपे चन्दे में दे दिय।

देव०—और जुर्माना क्यों हुआ ?

सत्य०—फ़ीस न देने के कारण।

देव०—तुमने चन्दा क्यों दिया ?

सत्य०—ज्ञानू ने चन्दा दिया, तो मैंने भी दिया ।

देव०—तुम ज्ञानू से जलते हो ?

सत्य०—मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा । यहां हम और वह दो हैं, बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं । मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है ।

देव०—क्यों, यह कहते शर्म आती है ?

सत्य०—जी हाँ ! आप की बदनामी होगी ।

देव०—अच्छा ! तो आप मेरी मान-रक्षा करते हैं ! यह क्यों नहीं चाहते कि अब पढ़ना मंजूर नहीं ! मेरे पास इतना रूपया नहीं है कि तुम्हें एक एक क्लास में तीन तीन साल पढ़ाऊँ; ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिप प्रतिमास कुछ दूँ। ज्ञान बाबू तुम से कितना छोटा है, लेकिन तुम से एक ही दरजा नीचे है । तुम इस साल ज़रूर ही फ़ेल होओगे, वह ज़रूर पास होगा । अगले साल तुम्हारे साथ हो जायगा । तब तो तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी न ?

सत्य०—विद्या मेरे भाग्य में नहीं है ।

देव०—तुम्हारे भाग्य में क्या है ?

सत्य०—भीख मांगना ।

देव०—तो फिर भीख ही मांगो । मेरे घर से निकल जाओ ।

देवप्रिया भी आ गई । बोली—शरमाता तो नहीं, और बातों का जवाब देता है ।

सत्य—जिन के भाग्य में भीख मांगना होता है, वे ही बचपन में अनाथ हो जाते हैं।

देवप्रिया—ये जली कटी बातें अब मुझ से न सही जायँगी, मैं खून का धूंट पी-पीकर रह जाती हूँ।

देवप्रकाश—बेदया है। कल से इस का नाम कटवा दूँगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे।

(५)

दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर ली। उस की उम्र अब १६ साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद उसे उस घर में रहना असह्य हो गया था। जब तक हाथपांव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निनुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता रहा। अब हाथ-पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता। आत्माभिमान, आशा की भाँति चिरंजीवी होता है।

गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई; एक छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे जाने को तैयार देखकर बोला—कहाँ जाते हो, भैया ?

सत्य—जाता हूँ, कहाँ नौकरी करूँगा।

ज्ञान०—मैं जाकर अम्मा से कहे देता हूँ।

सत्य०—तो फिर मैं तुम से भी छिपाकर चला जाऊँगा।

ज्ञान०—क्यों चले जाओगे ? क्या तुम्हें मुझ से ज़रा भी मुहब्बत नहीं ?

सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा—तुम्हें छोड़ कर जाने को जी नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पढ़े रहना बेहयाई है। कहीं दस-पांच की नौकरी कर लूँगा, और पेट पालता रहूँगा, और किस योग्य हूँ ?

ज्ञान०—तुम से अम्मा क्यों इतनी चिढ़ती हैं ? मुझे तुम से मिलने को मना किया करती हैं।

सत्य०—मेरे नसीब खोटे हैं, और क्या ?

ज्ञान०—तुम लिखने पढ़ने मैं जी नहीं लगाते ?

सत्य०—लगता ही नहीं, कैसे लगाऊँ ? जब कोई परवा नहीं करता, तो मैं भी सोचता हूँ-ऊँह, यही न होगा, ठोकरें खाऊँगा। बला से !

ज्ञान०—मुझे भूल तो न जाओगे ? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा। मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना।

सत्य०—तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूँगा।

ज्ञान०—(रोते रोते) मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मुहब्बत लगती है।

सत्य०—मैं तुम्हें सदैव याद रखूँगा।

यह कह कर उस ने फिर भाई को गले से लगाया, और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी, और वह कलकत्ते जा रहा था।

(६)

सत्यप्रकाश कलकत्ते क्योंकर पहुंचा, इस का वृत्तान्त लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाईयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट-साध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहिले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा? उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहरों में जीविका का प्रश्न कठिन भी है, और सरल भी। सरल है उनके लिए, जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उन के लिए, जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मज़दूरी करना नीच समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य मुख्य स्थानों का निरीक्षण कर एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया, और अपढ़ मज़दूरों की चिट्ठियाँ, मनीआर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहिले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भर-पेट भोजन करता,

लेकिन धीरे-धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मज़दूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस ! वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को दो-दो, तीन-तीन बार लिखते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है, जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृत्तान्त कहते नहीं थकते। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मज़दूरों को मुख्य कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता, तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे १) रोज़ मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकल कर शहर से बाहर ५) महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। एक बड़ बनाता, दोनों बक्क खाता। बर्तन अपने हाथों से धोता। ज़मीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर ज़रा भी खेद और दुःख न था। घर के लोगों की कभी याद न आती। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञानप्रकाश की प्रेम-युक्त बातें न भूलतीं। अन्धकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अनितम दृश्य आँखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिन्त होकर उसने ज्ञानप्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया, उस के आनन्द की सीमा न रही। ज्ञान् मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो दूसरे होती है, वही दृष्टि इस पत्र से सत्यप्रकाश को हुई। मैं

अकेला नहीं हूं, कोई मुझे भी चाहता है, मुझे भी याद करता है।

उस दिन से सत्यप्रकाश को यह चिन्ता हुई कि ज्ञानू के लिए कोई उपहार भेजूँ। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश की भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया। कई बार बूटी-भंग, शराब-कवाब की भी ठहरी। आइना, तेल, कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता, उड़ा देता, बड़े बेग से वह नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम-पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चसका छूटा। मित्रों को हीले-हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रुखा-सुखा करने लगा। धन-संचय की चिन्ता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि एक अच्छी सी घड़ी भेजूँ। उसका मूल्य कम से कम ४० रुपया। अगर तीन महीने तक एक कौड़ी का अपव्यय न करूँ, तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी को देखकर कैसा रुश होगा। अम्मा और बाबू जी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जायगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। किफ़ायत की धुन में वह बहुधा दिया बच्ची भी न जलाता। बड़े सबेरे काम करने चला जाता और सारा दिन दो चार-पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन-दूनी होती जाती थी।

चिट्ठी-पत्री के अतिरिक्त अब उस ने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। दो ही महीनों में उस के पास ५०) एकत्र हो गए, और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार-सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया, तो उस का चित्त इतना उत्साहित था, मानों किसी निस्सन्तान के बालक हुआ हो।

(७)

‘घर’ कितनी ही कोमल, पवित्र और मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास-स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या कर के यह वरदान पाया है।

किशोरावस्था में ‘घर’ माता पिता, भाई-बहन, सखी-सहेली के प्रेम की याद दिलाता है और प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल-बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है, जो मानव-जीवन-मात्र को स्थिर रखती है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाती है। यही वह मंडप है, जो जीवन को समस्त विघ्न-बाधाओं से सुरक्षित रखता है।

सत्यप्रकाश का ‘घर’ कहां था? वह कौन सी शक्ति थी, जो कलकत्ते के विराट् प्रलोभनों से उस की रक्षा करती थी? माता का प्रेम? पिता का स्नेह? बाल-बच्चों की चिन्ता? नहीं, उसका रक्षक, उद्धारक, परिपोषक केवल ज्ञानप्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत

करता, उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता-धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता। उसे ज्ञानप्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देवप्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। वह एक घर बनवा रहे हैं, जिस में व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है, इस लिए ज्ञानप्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्यप्रकाश प्रति मास ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र-लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी उस ने खोल ली थी। इस से अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह पांच वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हृथ्ये नहीं चढ़ता, तो उस के पास आना जाना छोड़ दिया।

(८)

सन्ध्या का समय था। देवप्रकाश अपने मकान में बैठे देव-प्रिया से ज्ञानप्रकाश के विवाह के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब १७ वर्ष का सुन्दर युवक था। बाल-विवाह के विरोधी होने पर भी देवप्रकाश अब इस शुभ-सुहृत्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय ५,०००) दायज देने को प्रस्तुत हों।

देवप्रकाश—मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो।

देवप्रिया--तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले 'नहीं' करते हैं।

देवप्रकाश--ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धान्त का इनकार है। वह साफ-साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा, मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँ।

देवप्रिया--उसकी कौन चलाए। वहाँ कोई रखैल रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा?

देवप्रकाश--(फुंभला कर) रखैल रख ली होती, तो तुम्हारे लड़के को ४०) महीने न भेजता, और न चीज़ें ही देता। पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उस की ओर से इतना मैला हो गया है? चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पस्सीजोगी।

देवप्रिया नाराज़ हो कर चली गई थी। देवप्रकाश उससे यही कहलाया चाहते थे कि पहले सत्यप्रकाश का विवाह करना उचित है, किन्तु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देवप्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए ज़मा मांगी।

और उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया । लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ । मेरी अभिलाषा है, तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ । मुझे बहुत दुःख होगा, यदि तुम यह विनय स्वीकार न करोगे । ज्ञानप्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी । अंत में इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी और विचार से नहीं, तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा ।

सत्यप्रकाश को यह पत्र मिला, तो उसे बहुत खेद हुआ । मेरे भ्रातृज्ञेह का यह परिणाम होगा, मुझे न मालूम था । इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनन्द हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी । मेरी उन्हें क्या चिन्ता थी ? मैं भर भी जाऊँ, तो भी उन की आँखों में आँसू न आवे । ७ वर्ष हो गए, कभी भूलकर भी पत्र न लिखा कि मरा है, या जीता है । अब कुछ चेतावनी मिलेगी । ज्ञान-प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो ही जाएगा, लेकिन सहज में नहीं । कुछ न हो, मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला । ज्ञानू को मुझ से प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूँगा । हमारा पारिवारिक जीवन सम्पूर्णतः अन्यायमय है । यह कुमति और वैमनस्य पैदा करता और नृशंसता का बीजारोपण करता है । इसी माया में फँस कर मनुष्य अपनी प्यारी संतान का शत्रु हो जाता है । ना, मैं

आंखों देखकर यह मक्खी न निगलूँगा । मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य । मेरे पास जो कुछ जमा है, वह सब उसके विवाह के निमित्त अपूरण भी कर दूँगा । बल, इस से ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता । अगर ज्ञानू भी अविवाहित ही रहे, तो संसार कौन सूना हो जायगा ? ऐसे पिता का पुत्र क्या बंशपरम्परा का पालन न करेगा ? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दुहराया जाएगा, जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया ?

(दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने ५००) पिता के पास भेजे, और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य, जो आपने मुझे याद किया । ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई ! इन रूपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा । रही मेरे विवाह की बात । सो मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा और मेरे सिर पर जो कुछ बीती है, उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुदुम्ब-पाश में फँसूँ, तो मुझ से बड़ा उल्लं संसार में न होगा । आशा है, आप मुझे क्षमा करेंगे । विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को अधात पहुँचता है ।

दूसरा पत्र ज्ञानप्रकाश को लिखा कि माता-पिता की आङ्गी को शिरोधार्य करो । मैं अपढ़, मूर्ख, बुद्धि हीन आदमी हूँ । मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है । खेद है, मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूँगा,

लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनन्द और संतोष का विषय नहीं हो सकता ।

(६)

देवप्रकाश यह पढ़कर अवाह रह गए । फिर आग्रह करने का साहस न हुआ । देवप्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा—यह लौंडा देखने ही को सीधा है, है ज़हर का बुझाया हुआ ! सौ कोस पर बैठा हुआ बरछियों से कैसा छेद रहा है ?

किन्तु ज्ञानप्रकाश ने यह पत्र पढ़ा, तो उसे मर्माघात पहुंचा । दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण बत धारण करने पर बाध्य किया है । इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है, और शायद सदा के लिए । न जाने अम्मा को उन से क्यों इतनी जलन हुई । मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से यह बड़े आश्वाकारी, विनयशील और गंभीर थे । उन्हें अम्मा की बातों का जवाब देते नहीं सुना । मैं अच्छे-से-अच्छा खाता था, फिर भी उनके तेवर मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिये था । ऐसी दशा में अगर उन्हें गाईस्य जीवन से घृणा हो गई, तो आश्वर्य ही क्या ? फिर मैं क्यों इस विपर्ति में फँसूँ ? कौन जाने, मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े । भैया ने बहुत सोच-समझ कर यह धारणा की है ।

संध्या समय जब उनके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या

पर विचार कर रहे थे, ज्ञानप्रकाश ने आकर कहा—मैं कत्त
मैया से मिलने जाऊँगा।

देवप्रिया—क्या कलकत्ते जाओगे?

ज्ञान०—जी हाँ।

देवप्रिया—उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते!

ज्ञान०—उन्हें कौन सुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने तो
बहले ही मेरे सुंह मैं कालिख लगा दी है। पेसा देव-पुरुष
आप लोगों के कारण विदेश में ठोकरें खा रहा है, और मैं
इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि.....

देवप्रिया—अच्छा चुप रह, नहीं ब्याह करना, न कर!
जले पर नमक मत छिड़क! माता-पिता का धर्म है, इसलिए
कहती हूँ, नहीं तो यहां टैगे की परवा नहीं है। तू चाहे ब्याह
कर, चाहे कांरा रह; पर मेरी आँखों से दूर हो जा।

ज्ञान०—क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई?

देवप्रिया—जब तू हमारे कहने ही मैं नहीं, तो जहां चाहे
रह। हम भी समझ लेंगे कि भगवान् ने लड़का ही नहीं दिया।

देव०—क्यों व्यर्थ ऐसे कदु वचन बोलती हो?

ज्ञान०—अगर आप लोगों की यही इच्छा है, तो यही
होगा। देवप्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता
है, तो ज्ञानप्रकाश को इशारे से टाल दिया, और पक्षी के
क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया
फूट-फूट कर रो रही थी, बार-बार कहती थी—मैं इसकी

सूरत न देखूँगी । अंत मैं देवप्रकाश ने चिढ़कर कहा—तो तुम्हीं ने तो कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया ।

देवप्रिया—यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है, जो यहां से समुद्र-पार बैठा हुआ मुझे मिट्ठी मैं मिलाने का उपाय कर रहा है । मेरे बेटे को मुझ से छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भरा है । मैं उसकी नस-नस पहचानती हूँ । उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा; नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिस ने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यों मुझे न जलाता ।

देव०—अरे, तो क्या वह विवाह ही न करेगा ! अभी गुस्से मैं अनाप-शनाप बक गया है । ज़रा शांत हो जाएगा, तो मैं समझा कर राज़ी कर दूँगा ।

देवप्रिया—मेरे हाथ से निकल गया ।

देवप्रिया की आशंका सत्य निकली । देवप्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया । कहा—तुम्हारी माता इस शोक मैं मर जाएगी, किन्तु कुछ असर न हुआ । उसने कई बार ‘नहीं’ कहकर ‘हाँ’ न की । निदान वह भी निराश होकर बैठ रहे ।

तीन साल तक प्रति वर्ष विवाह के दिनों मैं यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञानप्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा । माता का रोना-धोना निष्फल हुआ । हाँ, उसने माता की एक बात मान ली । वह भाई से मिलने कलकत्ते न गया ।

तीन साल मैं घर मैं बड़ा परिवर्तन हो गया । देवप्रिया

की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया । अब घर में उसके सिवा कोई खींची न थी । सूना घर उसे खाए लेता था । जब वह नैराश्य और क्रोध से व्याकुल हो जाती तो सत्यप्रकाश का खूब जी भर कर कोसती । मगर दोनों भाइयों में प्रेम-पत्र-व्यवहार बराबर होता रहता था ।

देवप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी । उन्होंने पेंशन ले ली थी, और प्रायः धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया करते थे । ज्ञानप्रकाश ने भी 'आचार्य' की उपाधि प्राप्त कर ली थी, और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे । देवप्रिया अब संसार में अकेली थी ।

देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती । विरादरी में कौन-सी कन्या सुन्दरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है—इस का बखान किया करती, पर ज्ञानप्रकाश को इन बातों के सुनने की फुरसत न थी ।

मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे । बहुं आती थीं, उन की गोद में बच्चे खेलने लगते थे; घर गुलज़ार हो जाता था । कहीं विदाई होती थी; कहीं बधाइयां आती थीं; कहीं गाना-बजाना होता था; कहीं बाजे बजते थे । यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता । उसे मालूम होता, मैं ही संसार में सब से बढ़ कर अभागिनी हूँ । मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बदा है । भगवान्,

ऐसा भी कोई दिन आवेगा कि मैं अपनी बहू का सुख-चन्द्र देखूँगी; बालकों को गोद में खिलाऊँगी। वह भी कोई दिन होगा जब मेरे घर में भी आनन्दोत्सव के मधुर गान की ताँतें उठेंगी! रात-दिन ये ही बातें सोचते-सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप ही आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती—वही मेरे प्राणों का धातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यन्त रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज़ हो गया, तो यह शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में आ गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञानप्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उस ने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उस में जितना कोसते बना, कोसा—तू मेरे प्राणों का वैरी है। मेरे कुल का धातक है—हत्यारा है। वह कौन दिन आवेगा कि तेरी मिट्ठी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण-मन्त्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा। यहां तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिढ़ी मैं सत्यप्रकाश को गालियां न दे लेती, उसे चैन ही न आता। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी।

(१०)

ज्ञानप्रकाश का अध्यापक होना सत्यप्रकाश के लिए बातक हो गया । परदेश में उसे यहीं संतोष था कि मैं संसार मैं निराधार नहीं हूँ । अब यह अवलम्ब भी जाता रहा । ज्ञान-प्रकाश ने जोर देकर लिखा—अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठावें । मुझे अपनी गुज़र करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है ।

यद्यपि सत्यप्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता । ६०) ७०) की मासिक आमदनी होती ही क्या है? अब तक वह जो कुछ बचाता था, वह वास्तव में बचत न थी, बल्कि त्याग था । एक बड़ा रुखा-सूखा खाकर, एक तंग, आर्द्ध कोठरी में रह कर २५) ३०) रूपये बचते थे । अब दोनों बड़ा भोजन मिलने लगा । कपड़े भी ज़रा साफ़ पहनने लगा । मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई । फिर वही पहले की सी दशा हो गई । बरसों तक शुद्ध-प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से चंचित रह कर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है । सत्यप्रकाश को अरुचि, मन्दाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा । कभी कभी ज्वर भी आ जाता । युवावस्था में आत्मविश्वास होता है । किसी अवलम्ब की परवा नहीं होती । वयोवृद्धि दूसरों का मुंह

ताकती है, कोई आश्रय ढूँढ़ती है। सत्यप्रकाश पहले सोता, तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाज़ार से पूरियाँ लेकर खा लेता, कभी मिठाई पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती, बाज़ार भोजन से घृणा होती, रात को घर आता, तो थक कर चूर-चूर हो जाता। उस वक्ष चूलह। जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती, तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होने लगता। पर वहाँ घोर अन्धकार के सिवा और कौन था? दीवालों के कान चाहे हूँ, मुंह नहीं होता। इधर ज्ञानप्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे, और वे भी रुखे। उन में अब हृदय के सरल उद्घारों का लेश भी न रहता। सत्यप्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिये भावुकता कब शोभा देती है? शनैः शनैः सत्यप्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञानप्रकाश भी मुझ से निष्ठुरता करने लगा है, नहीं तो क्या मेरे पास दो-चार दिन के लिए आना असम्भव था! मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है; पर उसे कौन-सी बाधा है। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञानप्रकाश ने माता से कलकचे न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया।

शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता विरलों ही में

होती है। सत्यप्रकाश उस बहु-संख्यक स्थान में भी अकेला था। उस के मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूँ? विवाह ही क्यों न कर लूँ? वह सुख और शान्ति और कहां मिल सकती है? मेरे जीवन के निराशारूपी अन्धकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है? वह इस आवेश को अपनी सम्पूर्ण विचार-शक्ति से रोकता, पर जिस भाँति किसी बालक को घर में रक्खी हुई मिठाइयों की याद बार-बार खेल से घर में खींच लाती है, उसी तरह उसका चित्त भी बारम्बार उन्हीं मधुर चिन्ताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता—मुझे विधाता ने सब सुखों से वंचित कर दिया है, नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती? मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या? क्या मैं श्रम से जी चुराता था? अगर बालपन ही में मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता—मेरी बुद्धि-शक्तियों का गला न घोंट दिया गया होता—तो मैं भी आज आदमी होता, पेट पालने के लिए इस विदेश में न पड़ा रहता। नहीं, मैं अपने ऊपर यह अत्याचार न करूँगा।

महीनों तक सत्यप्रकाश के मन और बुद्धि में यह संघर्ष होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था, कि डाकिए ने पुकारा। ज्ञानप्रकाश के सिवा उसके पास किसी के पत्र न आते थे। आज ही उनका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट

की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा, और वह सिर थामकर बैठ गया, कि ज़मीन पर न गिर पड़े। यह देवप्रिया की विष-युक्त लेखनी से निकला हुआ ज़हर का तीर था, जिसने एक पल में उसे संज्ञाहीन कर दिया। उस की सारी मर्मांतक-व्यथा—क्रोध, नैराश्य, कृतभ्रता, ग्लानि—केवल एक ढंडी सांस में समाप्त हो गई।

वह जाकर चारपाई पर लेट रहा। मानसिक व्यथा आप से आप पानी हो गई। हा ! सारा जीवन नष्ट हो गया ! मैं ज्ञानप्रकाश का शत्रु हूँ ? मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिये ही प्रेम का स्वांग भर रहा हूँ ? भगवान् ! तुम्हीं इस के साक्षी हो ।

तीसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुँचा। सत्यप्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न पड़ी।

एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुँचा। उसका भी वही अन्त हुआ। फिर तो यह नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता। किन्तु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्यप्रकाश के मर्म-स्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी।

एक महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्यप्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बन्द कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया। सारा दिन खाट पर पड़ा रहता। वे

दिन याद आते, जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और बेटा कहती। पिता सन्ध्या-समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और भैया कहते। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती, ठीक वैसे ही जब वह गंगा-स्नान करने गई थी। उस की प्यार भरी बातें कानों में गूँजने लगतीं। फिर वह दश्य सामने आता, बब उसने नव वधू माता को 'अम्मा' कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते, उसके क्रोध से भरे विकराल नेत्र आँखों के सामने आ जाते। उसे अपना सिसक-सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौरगृह का दश्य सामने आता। उस ने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा था। तब माता के बज्र के से शब्द कानों में गूँजने लगते। हाय ! उसी बज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया ! ऐसी कितनी ही घटनाएं याद आतीं। कभी बिना अपराध के मां का डांट बताना और कभी पिता का निर्दय, निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। उन का बात-बात पर त्योरियां बदलना, माता के मिथ्या पवादों पर विश्वास करना—हाय ! मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया ! तब वह करबट बदल लेता, और फिर वही दश्य आँखों में फिरने लगते। फिर करबट बदलता और चिज्जा उठता—इस जीवन का अन्त क्यों नहीं हो जाता ?

इस भाँति पड़े-पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकास्ने की आवाज़

सुनाई पड़ी । उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा । कोई परिचित आवाज थी । दौड़ा, द्वार पर आया तो देखा, ज्ञानप्रकाश खड़ा है । कितना रूपवान पुरुष था ! वह उसके गले से लिपट गया । ज्ञानप्रकाश ने उस के पैरों को स्पर्श किया । दोनों भाई घर में आए । अन्धकार छाया हुआ था । घर की यह दशा देखकर ज्ञानप्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा । सत्यप्रकाश ने जलदी से बत्ती जलाई । घर क्या था, भूत का डेरा था । सत्यप्रकाश ने जलदी से एक कुरता गले में डाल लिया । ज्ञानप्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आँखें देखता और रोता था ।

सत्यप्रकाश—मैं आजकल बीमार हूँ ।

ज्ञानप्रकाश—यह तो देख ही रहा हूँ ।

सत्य०—तुमने अपने आने की सूचना भी न दी; मकान का पता कैसे चला ?

ज्ञान०—सूचना तो दी थी; आप को पत्र न मिला होगा ।

सत्य०—अच्छा, हाँ दी होगी, पत्र दुकान में पड़ा होगा । मैं इधर कई दिन से दुकान नहीं गया । घर पर सब कुशल है ?

ज्ञान०—माता जी का देहान्त हो गया ।

सत्य०—ओर ! क्या बीमार थीं ?

ज्ञान०—जी नहीं । मालूम नहीं, क्या खा लिया । इधर उन्हें उन्माद-सा हो गया था । पिता जी ने कुछ कढ़ वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया ।

सत्य०—पिता जी तो कुशल से हैं ?

ज्ञान०—हाँ, अभी मरे नहीं हैं !

सत्य०—अरे ! क्या बहुत बीमार हैं ?

ज्ञान०—माता ने विष खा लिया, तो वह उनका मुंह खोल कर दवा पिला रहे थे। माता जी ने जोर से उनकी दो उंच-लियां काट लीं। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज आया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं, किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है।

सत्य०—तब तो घर ही चौपट हो गया !

ज्ञान०—ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था।

तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से बिदा हो कर चल दिए।

श्री सुदर्शन

श्री सुदर्शन जी सन् १८६६ में स्यालकोट में उत्पन्न हुए। उनके पिता पं० गुरांदित्तामल शिमला के गवर्नरमेट ब्रेस में काम करते थे। सुदर्शन जी बाल्यावस्था में कहा करते थे, मैं भी किताबें लिखूंगा। उन्होंने पहली कहानी उस समय लिखी, जब छठवीं श्रेणी में पढ़ते थे। उस ज़माने से बराबर लिख रहे हैं। १९१३ में आपने कालिज छोड़कर उस समय के सुप्रसिद्ध उर्दू-सासाहिक पत्र हिन्दोस्तान लाहौर के सम्पादक विभाग में नौकरी कर ली। इसके बाद आप क्रम से भारत, चन्द्र, आर्य-पत्रिका और आर्य-गजट का सम्पादन करते रहे। यह सब पत्र उर्दू भाषा में थे। इसके साथ साथ किताबें भी लिखते रहे। हिन्दी में सब से पहली कहानी आपने १९२० में सरस्वती में लिखी। अब तक उर्दू में ४० और हिन्दी में १२ पुस्तकें लिख चुके हैं। पंजाब सरकार आपकी कई पुस्तकों पर इनाम भी दे चुकी है। आपने एक दो नाटक भी लिखे हैं, और सच तो वह है कि खूब लिखे हैं।

आपकी कहानियां सरल, स्वाभाविक और मनोरंजक होती हैं। शैली

ऐसी सुन्दर काव्यमय और लालित्य-पूर्ण है, कि उन्हें पढ़ते समय जी ज़रा नहीं ऊबता। ऐसा मालूम होता है, जैसे हम बहे चले जाते हैं, तबीयत पर झोर देने की ज़रा ज़रूरत नहीं पड़ती। और यह एक ऐसा गुण है जो दूसरे लेखकों में बहुत कम पाया जाता है। आपकी कहानियों का दूसरा गुण यह है, कि उनमें ज़रा ज़रा सी बात बयान करते हैं। क्या मजाल जो कोई बात छोड़ जाएं। ऐसा मालूम होता है, जैसे हमारे सामने सिनेमा हो रहा है। प्रत्येक पात्र की एक एक चेष्टा नज़र आती है। कच्चे लेखकों का इधर ध्यान ही नहीं आता। आप समाज के पापमय सुन्दर (?) दर्श कभी नहीं दिखाते, सदा ऐसी चीज़ें लिखते हैं, जो मानव-जीवन को ऊपर उठाने वाली हों।

आपके कई एक गल्प-संग्रह भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में भी अनुवादित हो चुके हैं।

दुर्गादास भानुभास्कर एम० ए०, एल० एल० बी०

(गत दो वर्षों से श्री सुदर्शन जी कलकत्ते चले गये हैं। वहां सिनेमा सम्बन्धी कथा आदि के लिखने का काम करते हैं) पकाशक

न्याय-मन्त्री

(१)

यह घटना आज से २५०० वर्ष पहले की है ।

एक दिन सन्ध्या-समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बुद्धगया नामक गांव में एक परदेसी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला—क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जायगा ?

शिशुपाल अपने गांव में सब से निर्धन थे । घोर दारिद्र्य ने भूखे बैल की नाई उन की हड्डियों का पिञ्चरनिकाल रक्खा था । उन की आजीविका थोड़ी सी भूमि पर चलती थी । परन्तु फिर भी परदेसी को द्वार पर देखकर उनका मुख खिल उठा, जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर खिल उठता है । उन्होंने मुस्कराते हुए कहा—“यह मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए । अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जायगा ।”

परदेसी और ब्राह्मण दोनों अन्दर गए । भारतवर्ष में

अतिथि-सत्कार की रीति बहुत प्रचलित थी। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का सत्कार किया। परदेसी मुग्ध हो गया। उस ने ब्राह्मण से कहा—आपका पुत्र बड़े काम का आदमी है, उस का सेवा-भाव देखकर जी खुश हो गया।

शिशुपाल ने इस प्रकार सिर उठाया, जैसे किसी ने सर्प को छेड़ दिया हो और नाक-भौं चढ़ा कर उत्तर दिया—आप हमारे अतिथि हैं, अन्यथा ब्राह्मण ऐसे शब्द नहीं सुन सकते।

परदेसी ने अपनी भूल पर लज्जित होकर कहा—ज्ञामा कीजिए, मेरा यह अभिप्राय न था। परन्तु आजकल वे ब्राह्मण कहाँ हैं? अब तो आँखें उनके लिए तरसती हैं।

शिशुपाल ने उत्तर दिया—ब्राह्मण तो अब भी हैं, कभी केवल ज्ञात्रियों की है।

“मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा?”

शिशुपाल ने एक लम्बी-चौड़ी वक्तुता आरम्भ कर दी, जिस को सुन कर परदेसी दंग रह गया। उसकी बातें ऐसी युक्ति-युक्ति और प्रभावशाली थीं कि परदेसी उन पर मुग्ध हो गया। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान्, ऐसा तत्त्वदर्शी परिणित हो सकता है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। उसने शिशुपाल का युक्ति-युक्ति तर्क और शासन-पद्धति का इतना विश्वाल ज्ञान देखकर कहा—मुझे ज्ञाल न था कि यहाँ गोबर में फूल खिला हुआ है। महाराज अशोक को पता

लग जाए तो आप को किसी ऊंचे पद पर नियुक्त कर दें।

शिशुपाल के शुष्क होठों पर मुस्कराहट आ गई। जिस का अन्तःकरण कुढ़ रहा हो, जिस के नेत्र आंसू बरसा रहे हौं, जिस का मस्तिष्क अपेने आपे में न हो, उस के होठों पर हँसी ऐसी भयानक प्रतीत होती है जैसे इमशान में चांदनी, वरन उस से भी अधिक। शिशुपाल की आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने थोड़ी देर बाद सिर ऊपर उठाया और कहा—आज कल बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय देख कर मेरा रक्ष उबलने लगता है।

परदेसी ने पैंतरा बदल कर उत्तर दिया—शेर-बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं।

“रहने दो, मैं सब जानता हूँ।”

“दोष निकालना सुगम है, परन्तु कुछ कर के दिखाना कठिन है।”

शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की नाई झुलस कर उत्तर दिया—

“अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं?”

“तो आप चाहते हैं?”

“हाँ, अवसर चाहता हूँ।”

“फिर कोई अन्याय न होगा?”

“सर्वथा न होगा।”

“कोई अपराधी न बचेगा?”

“कदापि नहीं।”

परदेसी ने सहज भाव से कहा—यह बहुत कठिन है।

“ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं। मैं न्याय का डङ्का बजा कर दिखा दूँगा।”

परदेसी के मुख पर मुस्कराहट थी, नेत्रों में ज्योति। उस ने हँसकर उत्तर दिया—यदि मैं अशोक होता तो आप की मनोकामना पूर्ण कर देता।

सहसा ब्राह्मण के हृदय में एक सन्देह उठा, परन्तु दूसरे ही क्षण में दूर हो गया। उसी तरह जिस तरह वायु के प्रबल झोंके अभ्रखराड को उड़ा ले जाते हैं।

(२)

दूसरे दिन शिशुपाल को महाराज अशोक के दरवार में बुलाया गया। इस समाचार से गांव भर में आग सी लग गई। यह वह समय था, जब महाराज अशोक का राज्य आरम्भ हुआ था और दमन-नीति का दौर-दौरा था। उस समय महाराज ऐसे निर्दयी और निष्ठुर थे कि ब्राह्मणों और स्त्रियों को भी फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। उन की निष्ठुर दृष्टि से बड़े बड़े बीरों के भी प्राण सूख जाते थे। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए यह बुलावा मृत्यु का बुलावा है। सब को विश्वास हो गया कि अब शिशुपाल जीवित न लौटेंगे। परिणाम यह हुआ कि शिशुपाल के सम्बीन्धियों पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा, और वे फूट फूट कर

तोने लगे । लोग धीरज बंधाते थे, परन्तु शिशुपाल के माथे पर बल था । वे कहते थे--जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, राज्य के किसी नियम का प्रतिरोध नहीं किया, तब कोई मुझे क्यों फांसी देने लगा । निससन्देह राजा ऐसा अन्यायी और अन्धा नहीं हो सकता कि निर्दोष व्राह्मणों को दुःख देने लगे । भय और आशंका की लहरों के मध्य मैं वे इस प्रकार मौन खड़े थे जैसे समुद्री चट्टान पानी के प्रहार में खड़ी रहती है । उन्होंने अपने पुत्र और स्त्री को समझाया, और पाटलिपुत्र की ओर चले ।

सांभ हो गई थी, जब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुंचे, और जब तक राज-महल में न पहुंच गए उस समय तक उनको किसी वात का भय न था, परन्तु राज-महल की चमक-दमक देखकर उन पर भय छा गया, जिस प्रकार मनुष्य थोड़े जल में निर्भय रहता है, परन्तु गहराई में पहुंचकर घबरा जाता है । उनके हृदय में कई प्रकार के विचार उठने लगे । कभी सोचते, किसी ने कोई शिकायत न कर दी हो । जो जी मैं आता हूँ, बेघड़क कह देता हूँ । कहीं इसका फल न भुगताना पड़े । कई शत्रु हैं । कभी सोचते, वह परदेसी पता नहीं कौन था ? हो सकता है, कोई गुप्तचर ही हो । और यह आग उसी की लगाई हो । तब तो उसने सब कुछ कह दिया होगा । कैसी मूर्खता की, जो एक अपरिचित से शुल मिलकर बातें करता रहा, अब पछता रहा हूँ । कभी सोचते, कदाचित्

मेरी दरिद्रता की दुःख-कथा यहां तक पहुंच गई हो, और महाराज ने मुझे कुछ देने को बुला भेजा हो, यह भी तो हो सकता है। इसी विचार से हृदय-कमल खिल जाता, परन्तु फिर दूसरे विचार में सुरक्षा जाता। इतने में प्रतीहार ने कहा—महाराज आ रहे हैं।

शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। उनको ऐसा प्रतीत हुआ, मानों प्राण होठों तक आ गए हैं। राजा का कितना प्रताप होता है, इसका पहली बार अनुभव हुआ। दृष्टि द्वार की ओर जम गई। महाराज अशोक राजकीय ठाठ से कमरे में दाखिल हुए और मुस्कराते हुए बोले—ब्राह्मण देवता! आपने मुझे पहचाना?

शिशुपाल घबरा कर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था—ये वही परदेशी थे।

(३)

हां, ये वही परदेशी थे। शिशुपाल कांप कर रह गये। कौन जानता था कि शीतकाल की रात को एक ब्राह्मण के यहां आश्रय लेने वाला परदेशी भारत का सम्राट् हो सकता है। शिशुपाल ने तुरन्त ही अपने हृदय को स्थिर कर लिया और कहा—मुझे पता न था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा इतनी स्वतन्त्रता से बात चीत न करता।

महाराज अशोक बोले—हाँ!

“ परन्तु मैंने कोई बात गलत नहीं कही थी । ”

“ हूँ ! ”

“ मैं प्रमाण दे सकता हूँ । ”

महाराज ने कहा — “ मैं नहीं चाहता । ”

“ तो मेरे लिए क्या आशा है ? ”

“ मैं आप की परीक्षा करना चाहता हूँ । ”

शिशुपाल के हृदय में सहसा एक विचार उठा—क्या वह सच हो जाएगा ?

महाराज ने कहा—आप ने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूँगा । मैं आपके इस कथन की परीक्षा करना चाहता हूँ । आप तैयार हैं ?

शिशुपाल ने हँस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा—हाँ, यदि महाराज की यहीं इच्छा है तो मैं तैयार हूँ ।

“ कल प्रातःकाल से तुम न्याय-मन्त्री नियत किए जाते हो । सारे नगर पर तुम्हारा अधिकार होगा । ”

“ बहुत अच्छा ! ”

“ पाटलिपुत्र की पुलीस का प्रत्येक अधिकारी तुम्हारे आधीन होगा, और शान्ति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम्हीं पर होगा । ”

“ बहुत अच्छा ? ”

“ यदि कोई दुर्घटना होगई अथवा कोई हत्या हो गई तो इसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा । ”

“वहुत अच्छा !

महाराज थोड़ी देर चुप रहे और हाथ से अंगूठी उतार कर बोले—यह राजमुद्रा है; तुम कल प्रातःकाल सूर्य की पहिली किरण के साथ न्याय-मन्त्री समझे जाओगे। मैं देखूँगा, तुम अपने आपको किस प्रकार सफल-शासक सिद्ध कर सकते हो ?

(४)

एक मास व्यतीत हो गया। न्याय-मन्त्री के न्याय और सुप्रबन्ध की चारों ओर धूम मच गई। ऐसा प्रतीत होता था, जैसे शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया है। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था, जैसे सर्प को बीन बजा कर संपेरा वश में कर लेता है। उन दिनों यह अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, परन्तु किसी को अंदर भाँकने का साहस न होता था। शिशु पाल का न्याय अन्धा और बहरा था, जो न सूरत देखता था, न सिफारिश सुनता था। वह केवल दण्ड देना जानता था, और दण्ड भी शिक्षा-प्रद। नगर की दशा में आकाश-पाताल का अन्तर पड़ गया।

रात्रि का समय था। आकाश में तारे खेल रहे थे। एक पुरुष ने एक विशाल भवन के द्वार पर आवाज़ दी। भरोखे से किसी रुक्षी ने सिर निकाल कर पूछा—कौन है ?

“ मैं हूँ, दरवाज़ा खोल दो । ”

“ परन्तु वे यहां नहीं हैं । ”

“ परवा नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो । ”

खी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया—मैं नहीं खोलूँगी,
तुम इस समय जाओ ।

उस व्यक्ति ने क्रोध से कहा—दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो
मैं तोड़ डालूँगा ।

खी ने उत्तर दिया—जानते नहीं हो, नगर में शिशुपाल
का राज्य है। अब कोई इस प्रकार बलात्कार नहीं कर
सकता ।

उस ने तलवार निकाल कर दरवाज़े पर आक्रमण
किया। सहसा एक पहरेदार ने आकर उसका हाथ थाम
लिया, और कहा—यह तुम क्या कर रहे हो ?

धनी ने उस की ओर इस तरह देखा, जैसे भेड़िया भेड़
को देखता है, और क्रोध से बोला—तुम कौन हो ?

“ मैं पहरेदार हूँ । ”

“ तुम को इस पद पर किसने नियत किया है ? ”

“ न्याय-मन्त्री ने । ”

“ मूर्खता न करो। मैं उसे भी मिट्ठी में मिला सकता हूँ । ”

पहरेदार ने साहस से उत्तर दिया—परन्तु इस समय
महाराज अशोक आ जाएं तो भी न टलूँगा ।

“ क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो ? ”

“ मैंने जो प्रण किया है उसे पूरा करूँगा । ”

“ किस से प्रण किया है ? ”

“ न्याय-मन्त्री से । ”

“ क्या ? ”

“ यहीं कि जब तक तन में प्राण हैं और जब तक रुधिर का अन्तिम बिन्दु भी मेरे शरीर में शेष है, मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे न हटूँगा । ”

उस व्यक्ति ने तलवार खींच ली। पहरेदार ने पीछे हट कर कहा—आप गलती कर रहे हैं। मैं नौकरी पर हूँ।

परन्तु उस पुरुष ने सुना अनसुना कर दिया, और तलवार लेकर झपटा। पहरेदार ने भी तलवार खींच ली। परन्तु वह अभी नया था, पहले ही बार मैं गिर गया, और मार गया। उस पुरुष का लहू सूख गया। उसके हाथों के तोते उड़ गए। उस की यह इच्छा न थी कि पहरेदार को मार दिया जाए। वह उसे केवल डराना चाहता था। परन्तु घाव मर्म स्थान पर लगा। उस ने पहरेदार की लाश को एक ओर कर दिया और आप भाग निकला।

(५)

ग्रातःकाल इस घटना की घर घर में चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया कि पुलीस के कर्मचारी को मार डाले और फिर शिशुपाल के शासन में? राजधानी में आतङ्क छा गया। पुलीस के आदमी चारों ओर

दौड़ते फिरते थे; मानों यह उनके जीवन और मरण का प्रश्न हो। और न्याय-मन्त्री ने तो इस मामले की खोज में दिन रात एक कर दिया। यह घटना उनके शासन काल में पहली थी। उनको खाना पीना भूल गया, आंखों से नींद उड़ गई। घातक की खोज में उन्होंने कोई कसर न उठा रक्खी, परन्तु कुछ पता न लगा।

असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की कोधाशि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। वे कहते, तुमने कितने ज़ोर से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया? न्याय-मन्त्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज पूछते, घातक कब तक पकड़ा जाएगा। न्याय-मन्त्री उत्तर देते, यत्न कर रहा हूँ जल्दी ही पकड़ लूँगा। महाराज कुछ दिन ठहर कर फिर पूछते, हत्यारा पकड़ा गया। न्याय-मन्त्री कहते, अभी नहीं। महाराज का कोध भड़क उठता। उनकी आंखों से आग की चिन्गारियां निकलने लगतीं, बादल के समान गर्ज कर बोलते-मैं यह 'नहीं' सुनते सुनते तङ्ग आगया हूँ।

इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, परन्तु हत्यारे का पता न लगा। अन्त में महाराज ने शिशुपाल को बुला कर कहा—तुम्हें तीन दिन की और अवधि दी जाती है। यदि इस बीच में भी घातक न पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी।

इस समाचार से नगर में हलचल-सी मच गई। एक ही

मास के अन्दर अन्दर शिशुपाल लोक-प्रिय हो चुके थे । उन की न्यायशीलता की चारों ओर धाक बंध गई थी । लोग महाराज को गालियां देने लगे । जहां चार मनुष्य इकट्ठे होते, इसी विषय पर बात चीत करने लगते । वे चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परन्तु शिशुपाल का बाल बांका न हो । शिशुपाल स्वयं बड़ी उत्सुकता के साथ धातक की खोज में लीन थे, परन्तु व्यर्थ । यहां तक कि तीसरा दिन आगया—अब कुछ ही घण्टे बाकी थे ।

रात्रि का समय था, शिशुपाल की आँखों में नींद न थी । वे नगर के एक घने बाज़ार के अन्दर धूम रहे थे । सदस्या एक मकान की खिड़की खुली, और एक लड़ी ने भाँक कर बाहर देखा । चारों ओर निस्तव्यता छाई हुई थी । लड़ी ने धीरे से कहा—तुम कौन हो ? पढ़ेदार ?

निराशा के अन्धकार में आशा की एक किरण चमक गई । शिशुपाल ने उत्तर दिया—नहीं, मैं न्याय-मन्त्री हूँ ।

“ज़रा यहीं ठहरो ।”

लड़ी खिड़की से पीछे हट गई, और दीपक लेकर दरवाज़े पर आई । न्याय-मन्त्री को साथ लेकर वह अपने कमरे में गई, और बोली—आज अन्तिम रात्रि है ?

न्याय-मन्त्री ने चुभती हुई दृष्टि से लड़ी की ओर देखा और शांति से उत्तर दिया—हां, अन्तिम ।

शब्द साधारण थे, परन्तु इनका अर्थ साधारण न था ।

खी तिलमिला कर खड़ी हो गई और बोली—मैं इस घटना को अच्छी तरह जानती हूँ।

शिशुपाल की मृतप्राय देह में प्राण आगए, धैर्य धरकर बोले—तो सब कुछ बता दो।

खी ने उनके कान में कुछ कहा और सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों ओर देखा।

(६)

दूसरे दिन दरवार में तिल रखने को स्थान न था। आज न्याय-मन्त्री का भाग्य-निर्णय होने को था। अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही पुकारा—“न्याय-मन्त्री !”

शिशुपाल सामने आए। इस समय उन के मुख पर कोई चिन्ता, कोई घबराहट न थी।

महाराज ने पूछा—हत्यारे का पता चला ?

न्याय-मन्त्री ने साहसपूर्वक उत्तर दिया—हाँ, चल गया। “पेश करो।”

न्याय-मन्त्री ने सिर झुकाकर कुछ सोचा। इस समय उन के हृदय में दो विरोधी शक्तियों का संग्राम हो रहा था। यह उनके मुख से स्पष्ट प्रतीत होता था। सहसा उन्होंने दड़ सङ्कल्प से सिर उठाया और अपने एक उच्च अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा—धनवीर !

“श्रीमान् !”

“गिरफ्तार कर लो, मैं आशा देता हूँ।”

संकेत महाराज की ओर था, दरवार में निस्तब्धता छा गई। अशोक का चेहरा लाल हो गया। मानो वह तपा हुआ तांबा हो। नेत्रों से अग्नि कण निकलने लगे। वे तिलमिला कर खड़े हो गए और बोले—“अरे ब्राह्मण! अब तुझे यहाँ तक साहस हो गया!”

न्याय-मन्त्री ने ऐसा प्रकट किया, मानो कुछ सुना ही नहीं, और अपने शब्दों को फिर दोहराया—मैं आशा देता हूँ, गिरफ्तार कर लो। हत्यारा यही है।

धनवीर पुतली की तरह आगे बढ़ा। दरवारियों का दम रुक गया। महाराज सिंहासन से नीचे उतर आए। न्याय-मन्त्री ने कहा—यह हत्यारा है। मेरी अदालत में पेश करो।

धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा ली और शिशुपाल की कच्छहरी की ओर ले चला। वहाँ सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आशा दी—अपराधी राजकुल से है, अतएव अकेला पेश किया जाए।

महाराज अशोक ने सङ्केत किया, मन्त्री-गण पीछे हट गए। महाराज उस जंगले में खड़े हो गए, जो अपराधियों के लिए नियत था। किसी छन्नपति नरेश के अपने राज्य में स्वयं उस के नौकर के हाथों यह सम्मान हो सकता है, यह किसी को आशंका न थी। परन्तु शिशुपाल दृढ़ सङ्कल्प के साथ न्यायासन पर विराजमान थे। उन्होंने आंख

से महाराज को प्रणाम किया । हाथों को न्याय-रज्जु ने बांध रखा था । वे धीरे से बोले—तुम पर पहरेदार की हत्या का अभियोग है । तुम इसका क्या उत्तर देते हो ?

महाराज अशोक ने हौंठ काट कर उत्तर दिया—वह उद्धरण था ।

“तो तुम अपराध स्वीकार करते हो ।”

“हाँ, मैंने उस को मारा है । परन्तु मैंने जान-बूझकर नहीं मारा ।”

“वह उद्धरण नहीं था । मैं उसे चिरकाल से जानता हूँ ।”

“वह उद्धरण था ।”

“तुम भूठ बोलते हो । मैं तुम्हें मृत्यु-दंड देता हूँ ।”

अशोक के नेत्र लाल हो गए । मन्त्रियों ने तलचारेनिकाल लीं । कई आदमी शिशुपाल को गालियां देने लगे । कई एक ने यहां तक कह दिया, न्याय-मन्त्री पागल हो गया है । एक आवाज़ आई, तुम अपना सिर बचाओ । अशोक ने हाथ उठाकर मौन रहने का सङ्केत किया । चारों ओर फिर वही निस्तब्धता छा गई । न्याय मन्त्री ने कड़क कर कहा—आप का क्रोध करना सर्वथा अनुचित है । मैं इस समय न्याय-मन्त्री के आसन पर हूँ, और न्याय करने बैठा हूँ । महाराज अशोक की दी हुई मुद्रा मेरे हाथ में है । यदि किसी ने शोर-शार किया तो मैं उस को अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लूँगा ।”

“आशोक ! तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है । मैं तुम्हारे वध की आशा देता हूँ ।”

महाराज ने सिर झुका दिया । इस समय उनके हृदय में ब्रह्मानन्द का समुद्र लहरें मार रहा था । सोचते थे, यह मनुष्य सोना है, जो अग्नि में पड़कर कुन्दन हो गया है । कहता था, मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा, वह वचन भूठा न था । इसने अपने कहने की लाज रख ली । ऐसे ही मनुष्य होते हैं, जिन पर जातियां अभिमान करती हैं, जिन पर लोग अपना तन-मन निछावर करने को उद्यत हो जाते हैं । उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा किया और उपेक्षापूर्वक कहा—मैं इस निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता ।

न्याय-मन्त्री ने एक कर्मचारी को हुक्म दिया । वह एक स्वर्ण-मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ । न्याय-मन्त्री ने खड़े होकर कहा—महाशयो ! यह सच है कि मैं न्यायमन्त्री हूँ । यह भी सच है कि मेरा काम न्याय करना है । यह भी सच है कि एक राजकर्मचारी की हत्या की गई है । उस का दण्ड अवश्यम्भावी है । परन्तु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है । उसे ईश्वर ही दण्ड दे सकता है । यह काम न्यायमन्त्री की शक्ति से बाहर है । अतएव मैं आशा देता हूँ कि महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, और उनकी यह मूर्ति फांसी पर लटकाई जाए, जिस से लोगों को शिक्षा मिले ।

न्याय-मन्त्री का जय-जयकार दुआ, लोग इस न्याय पर मुग्ध हो गए। वे कहते थे, यह मनुष्य नहीं, देवता है, जो न किसी व्यक्ति से डरता है, न किसी शक्ति के आगे सिर झुकाता है। अन्तःकरण की आवाज़ सुनता है और उस पर निर्भयता से बढ़ा चला जाता है। और कोई होता तो महाराज के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता। परन्तु इसने उन्हें 'तुम' कह कर सम्बोधन किया है, मानों कोई साधारण अपराधी हो। उनके शरीर में रोमाञ्च हो आया। सहस्रों नेत्रों ने आनन्द के आँसू बहाए और सहस्रों जिह्वाओं ने ज़ोर से कहा—“न्याय-मन्त्री की जय!”

रात हो गई थी, न्याय मन्त्री राजमहल में पहुंचे और अशोक के सम्मुख अंगूठी और मुद्रा रख कर बोले—
महाराज ! यह अपनी वस्तुएं संभालें। मैं अपने गांव वापस जाऊँगा।

अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उन की ओर देख कर कहा—आज आपने मेरी आँखें खोल दी हैं। अब यह कैसे हो सकता है ?

“परन्तु श्रीमन्.....”

अशोक ने बात काट कर कहा—आपका साहस और न्याय मैं कभी न भूलूंगा। यह बोझ आप ही उठा सकते हैं। मुझे अपने राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति इस पद के योग्य नज़र नहीं आता।

न्याय-मन्त्री निरुत्तर हो गये।

पाप परिणाम

(१)

रात के दो बजे साधु अपने गर्म विस्तरे से उठा और नदी के तट पर जाकर खड़ा हो गया ।

चारों ओर अन्धकार था । आकाश में तारे आँखें मिँचते थे । किसी ओर से कोई हल्का सा भी शब्द न सुनाई देता था । संसार और उसका कोलाहल इस शून्य अन्धकार में इस प्रकार छवि चुके थे, जिस प्रकार कोई नौका अपने यात्रियों समेत समुद्र की गरजती हुई लहरों में समा जाए । साधु के पांव की चाप दूर दूर तक सुनाई दे रही थी । ऐसा जान पड़ता था, मानों प्रकृति की निस्तब्धता उस साधु के कुसमय के हस्ताक्षेप के विरुद्ध विद्रोह कर रही है । परन्तु जिस प्रकार साधु ने मनोहर स्वर्णों से भरे हुए गर्म विस्तर और उसके शोभामय सुख तथा विश्राम का विचार न किया था, उसी प्रकार प्रकृति की इस मौन-भज्जक चीख-पुकार की परवा न की, और अपनी कुटिया से निकल कर नदी-तीर पर पहुंच गया ।

पानी बहुत ठगड़ा था, जैसे किसी वेपरवा नौकर ने अपने शराबी मालिक के बार बार के तगादों से तंग आकर थोड़े से पानी में बहुत सी बर्फ डाल दी हो। साधुने उस की ओर देखा और उसका हृदय कांप गया। उसने बैठ कर पानी में हाथ डाला और डर कर पंछे हटा लिया। मालूम होता था, नदी भी इस दृस्तानेप को सहन न करती थी। उसने अपने सम्पूर्ण बर्फानी प्रभाव की परीक्षा साधु के हाथ पर की, और परिणाम देखने के लिए ठहर गई। परन्तु साधु पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसने तत्काल अपनी काली कमली शरीर से अलग की और आँखें बन्द कर के जल में कूद पड़ा।

साधु पर मूर्छा की सी दशा छा गई। वह जल के साथ साथ इस प्रकार बहने लगा जैसे कोई अपराधी सिपाहियों से घिरा हुआ थाने को जा रहा हो। एकाएक वह अपने पांव नदी के जल से भी अधिक ठगड़ी रेत पर जमा कर खड़ा हो गया, और अपने शरीर तथा आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति से तट पर जा चढ़ा। इस समय उसके मुख पर आनन्द बरसता था। अपराधी सिपाहियों के घेरे से बाहर निकल आया था।

थोड़ी देर के बाद वह अपनी कुटिया में वापस आ गया, और अपने बिस्तर के पास खड़ा हो कर उस को बेबसी की दृष्टि से देखने लगा, जैसे कोई भूख का मारा

शरीब धनवान् मनुष्य को अच्छे अच्छे खाने खाते दख कर व्याकुल हो जाता है। परन्तु इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता कि अपनी बेबसी पर सन्तोष करे। यहां उसने अपनी कमली फिर उतार दी और कोने से एक कोड़ा उठा कर उसे अपनी देह पर पूरे बल से मारने लगा।

बायु मण्डल उस के करुण-कन्दन से गूंज रहा था। परन्तु वह अपनी देह पर उसी जोर से कोड़े बरसा रहा था। मानो उसका हाथ उसके शरीर का एक अंग न रहा हो, और वह किसी मनुष्य नहीं अपितु निर्जीव मांस-पिण्ड पर अपने बल की परीक्षा कर रहा हो।

जब प्रभात का प्रकाश हुआ तब लोगों ने देखा कि साधु अपनी कुटिया के ठरडे फर्श पर अचेत है और उस के अंगों से रक्त बह रहा है। उन्होंने आग जलाई और उस के ठरडे शरीर को कम्बल में लपेट कर उस के निकट रख दिया। जब दो तीन घण्टे बीत गए तब उसने आंखें खोलीं, और ठरडी सांस लेकर उठ बैठा।

परन्तु अब उस में वह धैर्य न था। उसका स्थान सिस-कियों और हिचकियों ने ले लिया था। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे, तो उसने अपने हाथ आग पर गर्म करते हुए कहना आरम्भ किया—

(२)

पचास वर्ष बीते, मैंने निर्धनता की दशा में संसार के

संग्राम-क्षेत्र में पांच रक्खा। उस समय न हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक थीं, न जीवन-सामग्री इतनी महंगी। पचास साठ रुपए कमाने वाला मनुष्य राजा समझा जाता था। मैंने अपनी आंखों से ऐसे मनुष्यों को देखा है जो पंद्रह-वीस रुपए कमाते थे और दस बारह मनुष्यों के कुटुम्ब का पालन करते थे, और बड़े राजसी ठाठ से। अब ये बातें स्वप्न हो गई हैं। लोग इन पर विश्वास नहीं करते। रुपए का मूल्य चबनी भी नहीं रहा। उस समय लोग निर्धन न हों, सो नहीं है। मैं स्वयं निर्धन था, ऐसा निर्धन कि कई कई दिन अन्न के बिना बीत जाते थे। मैंने कई जगह नौकरी का यत्न किया परन्तु कहाँ सफलता न हुई। छोटा काम करने को जी न चाहता था। लोक-लाज पांखों की जङ्गीर बन जाती थी। मगर जब कई महीने खाली बैठे बीत गए तब लज्जा दूर हो गई। मैंने मिटाई का खोन्चा लगा लिया। थोड़े ही दिनों में हालत बदल गई। सुख से दिन कटने लगे, यद्यां तक कि मेरे पास डेढ़ सौ रुपया नगद जमा था।

इतने रुपए आज-कल के समय में 'कुछ नहीं' के बराबर हैं। परन्तु उस समय लोग इस रुपये को एक भारी रक्कम समझते थे। मेरी खुशी का ठिकाना न था। ऐसा प्रसन्न फिरता था, जैसे किसी को पटवारगिरी मिल गई हो। हँसने की बात नहीं, पटवारी का पद उस समय ऐसा भारी

पद था जैसे आज़-कल डिप्टी कमिशनरी भी नहीं। मेरे दिन अच्छे थे, दो परिश्रमी मनुष्यों से भेट हो गई। उन्होंने कहा; क्या मज़दूरी कर रहे हो, हमारे साथ मिलकर व्यापार करो तो थोड़े दिनों में सोना हो जाओ।

वात साधारण थी, परन्तु मेरे दिल में शौक पैदा हो गया। मैंने खोचे का काम छोड़ दिया, और उनके साथ मिलकर व्यापार करने लगा। हम एक स्थान से सस्ता माल खरीदते दूसरे स्थान पर मंहगे भाव बेच देते थे। थोड़े ही दिनों में रुपया कंकरों की तरह आने लगा। पता नहीं, भाग अच्छे थे अथवा हमारी बुद्धि का चमत्कार था। मिट्टी को हाथ लगाते तो वह भी सोना हो जाती थी। व्यापार में लाभ भी होता है, हानि भी। परन्तु परमात्मा जिसे देने पर आता है उसे हानि नहीं होती। मालूम होता है, परमेश्वर उन दिनों हमको देने पर तुला हुआ था। हमें किसी सौदे में हानि न होती थी। इसी प्रकार तीन वर्ष बीत गए। उस समय हमारे पास बहुत सा रुपया था। हमने छोटे-मोटे सौदे करने छोड़ दिए और जेहलम में लकड़ी का काम करने लगे। यह काम धीरे धीरे इतना बढ़ा कि हमको इस पर स्वयं आश्रय होता था। रुपया पानी की तरह आने लगा। दस वर्ष के बाद जब हिसाब किया गया तो हमारे हिसाब में दो लाख से ऊपर रुपया जमा था। अब हमारे दिलों में मैल आने लगा। जब तक निर्धन थे तब तक एक दूसरे पर विश्वास था,

अब धनवान हुए तो वह विश्वास जाता रहा । एक दूसरे पर आंख रखने लगे । कभी कभी जोश में भी आ जाते थे । दौलत ने आंखों पर परदे डाल दिए थे । हम में से प्रत्येक यही चाहता कि दूसरे भाईचाल मर जाएं तो सारा धन उसी का हो जाए । कुछ दिन तक यह भाव दबे रहे, जैसे राख तले अंगारे दबे रहते हैं । परन्तु कब तक? अन्त में यह निश्चय हुआ कि हिस्सेदारी तोड़ दी जाए और सब अलग अलग हो जाएं । अब अग्नि के चिंगारे राख से बाहर निकल आए ।

(३)

मेरे भाईचाल लाला प्रभुदास और लाला हिकमतराय थे । प्रभुदास समझदार मनुष्य था और बुरा न था । जो कुछ जी मैं आता, मुंह से कह देता । वह कोई बात छिपाता न था, न छिपाना चाहता था । उसकी यह दुष्ट प्रकृति (?) हमें एक आंख न सुहाती थी । इसके विपरीत हिकमतराय बड़ा चतुर था । वह अपने भावों को मुख पर न आने देता था हृदय में क्रोध होता तो हँस हँस कर बातें करता, जैसे उसे कोई दुःख ही नहीं । मैं उसके इस गुण (?) पर मुग्ध हो गया । पीतल पर सोने का घोखा हो रहा था । जब किसी बात पर झगड़ा हो जाता तब मैं और हिकमतराय एक ओर होते, अकेला प्रभुदास दूसरी ओर ! हम दोनों के सामने उसकी एक न चलती थी । दो भेड़ियों के सामने एक गरीब

कुत्ता कभी नहीं ठहर सकता ।

जब अलग अलग होने का निश्चय हो गया तो हिकमत-राय मेरे पास आया, और बोला—तो अलग अलग होने की नौबत आ गई ?

मैंने उसके मुँह की ओर देखते हुए कहा,—और क्या हो सकता है ?

“यदि यह न होता तो अच्छा था ।”

“परन्तु अब तो इकट्ठे न निभेगी ।”

“लोग क्या कहेंगे ?”

“कहने दो । हम कर ही क्या सकते हैं ?”

हिकमतराय ने ठरडी सांस भर कर कहा—इस प्रभु-दास ने काम बिगाड़ दिया । नहीं तो हम कभी अलग न होते ।

“मेरे सामने उसका नाम न लो ।”

“मुझे यह कल्पना भी न थी कि वह ऐसा मायावी पुरुष होगा ।”

“जी चाहता है; उसे गोली से उड़ा दूँ ?”

“उसे अपनी नेकादिली का बड़ा घमंड है ।”

“दूसरों को तुच्छ समझता है । अब उस के साथ काम करने को जी नहीं चाहता ।”

हिकमतराय ने मेरे पास सरक कर रहस्य-पूर्ण दृष्टि से

कहा—अस्सी हज़ार रुपए के लगभग ले जाएगा ।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे किसी ने कूप में धकेल दिया हो । कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा । कहा, बिल-कुल नासमझ है, सारा काम हम दोनों करते रहे हैं । भाग वह भी बराबर का ले जाएगा ।

“इस में क्या सन्देह है ।”

“मेरा बस चले तो उसे कौड़ी न ढूँ ।”

“दुहाई मचा देगा । पानी पीना मुश्किल कर देगा ।”

“क्या कोई उपाय नहीं ।”

हिकमतराय ने आकाश की ओर देखकर कहा, परमात्मा उसे मौत दे, तो हमारा काम बन जाए ।

जिस प्रकार सर्प का विष देखते देखते मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, उसी प्रकार ये शब्द मेरे मस्तिष्क में समागए । सोचने लगा, क्या उसे मौत नहीं आ सकती? दो दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गए । तीसरे दिन पता लगा कि प्रभुदास बीमार है । मैं ज़मीन से उछल पड़ा । आशा-लता लहलहाती दिखाई देने लगी । हिकमतराय से सलाह करके भाग भागा डाक्टर के पास गया । देर तक एकान्त में बाँते होती रहीं, परन्तु डाक्टर सहमत न होता था । मैं हारे हुए जुआरियों की तरह रुपए बढ़ाते जाता था, यहां तक कि पांच हज़ार पर बात तय हो गई, और उस ने प्रभुदास की औषधि में एक विशेष प्रकार का चूर्ण मिला दिया । उस

समय मैं ऐसा प्रसन्न था, जैसे किसी को रियासत मिल गई हो। प्रभुदास रात को मर गया। उसने अभी तक व्याह न किया था, न उसका कोई निकट-सम्बन्धी था। एक दूर के सम्बन्धी ने दावा करके हिस्सा लेने की घमकी दी। परन्तु हमने कह दिया कि वह हमारा नौकर था, हिस्सेदार न था। सहानुभूति के रूप में हमने उसे कुछ रूपए भी दे दिए। इन रूपयों ने उसका मुंह बन्द कर दिया। प्रभुदास का रूपया आधा मैंने ले लिया, आधा हिकमतराय ने। उस समय मुझे तनिक विचार न आया कि यह पाप है। परन्तु आज उस की स्मृति से भी प्राण निकलते हैं।

(४)

उन दिनों मेरा व्याह हो चुका था, परन्तु सन्तान कोई न थी। हम दोनों पति-पत्नी पुत्र का सुख देखने को तरसते थे। कभी साधुओं के यहां जाते, कभी वैद्यों की औषधियां खाते, परन्तु इनसे कुछ न बनता था। जब रूपया बट चुका, तो मैंने खीं को लेकर हरिद्वार की यात्रा की और दो तीन महीने वहाँ टिका रहा। उस समय मुझे विचार आता था कि मैंने पाप किया है, मुझे सुख न मिलेगा। इस विचार से मेरा हृदय व्याकुल हो जाता था, जैसे किसी ने मछली को गरम रेत पर रख दिया हो, आँखों में आंसू भर आते थे। यही चाहता था, यदि सम्भव हो तो ता, हुआ समय

लौटा लूं। परन्तु यह असम्भव था। तब मैं इस विचार को मन से भुला देने का यत्न करता था, और साधु-सन्तों की सेवा करके अपने विचार के अनुसार पाप के कलंक को धो देता था। यदि मुझे उस समय ज्ञान होता कि यह काम इतना सुगम नहीं, जितना मैं समझ रहा हूँ तो मैं कभी बेपरवाई न करता।

मगर मुझे अपने पाप का दण्ड न मिला, प्रत्युत् उसी वर्ष मेरे यहां एक पुत्र उत्पन्न हो गया। मेरे आनन्द का पारावार न था। मेरे पांच भूमि पर न पड़ते थे। सोचता था; मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा? धन और सुन्दर स्त्री पहले ही से प्राप्त थे, अब सन्तान भी हो गई। संसार इन्हीं तीन वस्तुओं पर मरता है, मेरे पास तीनों थीं। कारोबार आरम्भ किया, उसमें भी सफलता हुई। अब पाप की स्मृति भी न रही। संसार की ज्ञानिक सफलताओं और थोड़े दिन के सुखों ने उसे आंख से ओफल कर दिया। पुरेय कर्म संसार का प्रकाश है, यह विचार मिथ्या सिद्ध हुआ। संसार में पाप फलता है, यह बात सिद्ध हो गई। ज्यों ज्यों बेटा बड़ा होता गया, आशा अपनी चादर फैलाती गई। पहले उसकी शिक्षा का प्रबन्ध घर पर किया गया, पश्चात् स्कूल भेज दिया। तुमसे क्या कहूँ, वह कैसा प्यारा और सरल-हृदय था। उसके चेहरे पर भोलापन खेलता था। जो देखता, कहता, बड़ा भाग्यवान लड़का है। माता-पिता का नाम

रौशन करेगा। मैं यह सुनता, तो आनन्द से भूमने लगता। परन्तु कभी कभी किसी अङ्गात भय से हृदय पर बोझ सा आ पड़ता, जैसे कोई कलेजे पर पथर सा रख देता हो।

इसी प्रकार बीस वर्ष बीत गए। बंशीलाल ने बी० ए० की परीक्षा पास कर ली और लॉ कालेज में पढ़ने लगा। मैं यह देखता था, और प्रसन्न होता था। सोचता था, एक दो वर्ष की बात है, बंशीलाल बकील हो जाएगा। उसके पश्चात् जजी मिलना कुछ कठिन नहीं। इस विचार से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता था। उन दिनों को आज भी सरण करता हूँ तो नेत्रों से लहू के आंसू बहने लगते हैं। मेरा जीवन चांदनी रात के समान था, जिस में नाच और रङ्ग-रेलियां हो रही हों। सहसा यह मधुर सङ्गीत करुणा-विलाप में बदल गया—मेरी खी को ज्वर आने लगा। यह ज्वर कोई साधारण ज्वर न था। सावधानी से इलाज होने लगा। परन्तु एक महीना बीत गया। ज्वर न उतरा। दूसरा और तीसरा महीना भी इसी प्रकार व्यतीत हो गया और आराम न हुआ। अब मुझे भी चिन्ता हुई। लाहौर ले जाकर इलाज कराने का विचार किया। उन दिनों पञ्चाब में डाक्टर हैनरी-बुड के ढंके बजते थे, उसे दिखाया। उसने बड़े ध्यान से देखा, और मुझ से एकान्त में कहा, “तपेदिक्क है; अब न बचेगी।”

यह सुनकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। ऐसा मालूम

हुआ, जैसे आकाश सिर पर गिर पड़ेगा । डाक्टर की बात का विश्वास न हुआ । आश्चर्य से बोला—तपेदिक्र है क्या ?

‘हां तपेदिक्र । शायद बच जाए, नुसखा लिखे देता हूं । मगर कोई आशा नहीं ?’

मैंने पूछा—किसी पहाड़ पर ले जाऊं तो कैसा रहे ?

“ज़िन्दगी ज़रा लम्बी हो सकती है, मगर बीमारी न जाएगी ।”

‘डाक्टर साहब ! आपसे जो कुछ हो सकता है, कीजिये ।’

मेरी आंखों में आंसू थे, शब्दों में हृदय की व्यथा । डाक्टर साहब ने करुणापूर्वक कहा—मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर आप यह बात मरीज़ा पर ज़ाहिर न होने दें ।

परन्तु यह बात उस पर प्रकट हो गई । पता नहीं किस तरह ? एक दिन उसने मुझ से रोते रोते कहा, ‘मेरे मरने में अब अधिक दिन नहीं । अब बंसी का ब्याह कर दो यह तो अपनी आंखों से देख लूँ ।’

और मैंने उसकी यह मनोकामना पूरी कर दी । उसी महीने बंसी का ब्याह हो गया । इसके बाद हम सब सोलन चले गये । आशा अन्तिम श्वास तक साथ नहीं छोड़ती ।

(५)

परन्तु वह न बची । छुः मास के पश्चात् उसका जीवन-

प्रदीप निर्दयी मृत्यु के निष्ठुर भोक्तों ने बुझा दिया। मुझ पर विपत्ति फूट पड़ी। और बंशी की दशा तो देखी न जाती थी। किसी व्याहे हुए लड़के को अपनी माता से इतना प्रेम हो सकता है, यह मेरे लिए नया अनुभव था वह फूट फूट कर रोता था। मैं उसे समझाता था, धीरज देता था, परन्तु उसका रोना कम न होता था। उसका उदास मुख देख कर मुझे अपना दुःख भूल जाता था। मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं, जब बंसी माँ को याद कर के न रोया हूँ। कभी वह पुस्तकों का कीड़ा था, परन्तु अब पुस्तक देखने को उसका जी न चाहता था। हारमोनियम का शौक था, वह भी न रहा। दिन-रात उदास रहने लगा। मेरे हृदय में नई चिन्ता उत्पन्न हुई। मैंने उसका जी बहलाने का प्रयत्न किया, परन्तु मुझे इसमें भी सफलता न हुई। लोग अपने पुत्रों के विषय में शिकायत करते हैं कि उन्हें माता-पिता से स्नेह नहीं। मैं चाहता था कि कदाचित् बंसीलाल मैं यह दोष होता तो ये दिन न देखना पड़ता। परन्तु जो ललाट में लिखा हो उसे कौन मिटाए। बंसीलाल भी बीमार रहने लगा।

इतने में मालूम हुआ, मेरा कारोबार नष्ट हो गया है। जिस कारिन्दे के हाथ मैंने काम-काज सौंप रक्खा था उसने मुझे धोखा दिया और दो-अद्वाई लाख रुपया उड़ा कर भाग निकला। यह देख कर मेरे पांच-तले की मिट्टी निकल गई। बंसीलाल और उसकी स्त्री को सोलन छोड़ कर जेहलम

पहुंचा। परन्तु वहाँ कारिन्दा कहाँ था? समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये, पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन वह न पकड़ा जा सका, न छबा हुआ रुपया बचा। मैंने कारोबार के संभालने का असीम प्रयत्न किया, मगर वह न संभला। दिन पर दिन दशा बिगड़ती गई। जिस काम में हाथ डालता था उसी में हानि हो जाती थी।

इस प्रकार चार महीने बीत गए, और बंसीलाल और उसकी स्त्री सोलन से लौट आए। उसका मुख देख कर मेरे प्राण होठों तक आ गए। मैं डाक्टर नहीं हूँ, न मैंने चिकित्सा का कोई ग्रन्थ देखा है। परन्तु मैंने अपनी स्त्री की बीमारी देखी थी। मुझे बंसीलाल के मुख पर वही रंग दिखाई दिए, जो मेरी मृत-पत्नी के मुख पर थे। मेरे कलेजे पर जैसे किसी ने अङ्गारे रख दिए। मैंने बंसीलाल से कुछ न कहा, परन्तु अपने कमरे में जाकर रात भर रोता रहा। दूसरे दिन डाक्टर को दिखाया। मेरी आंख फड़कने लगी—माँ के बाद पुत्र की बारी थी। फिर तपेदिक्क। मेरा मस्तक चकराने लगा। मैंने निश्चय कर लिया कि अपनी बच्ची खुच्ची सम्पत्ति लुटा दूंगा, डाक्टर की सम्मति पर अक्षरशः चलूंगा, सावधानी में कोई कसर न उठा रखेंगा, और इस प्रकार पुत्र को मृत्यु के पञ्जे से छुड़ा लूंगा। मैं बंसी और उसकी स्त्री को लेकर सोलन चला गया। परन्तु रोग कम न हुआ। डाक्टरों ने सम्मति दी कि उसे स्विद्जरलैण्ड के सैनिटोरि-

यम मैं भेज दो, वहां जाकर बच सकता है। मेरे पास पन्द्रह हज़ार के लगभग रुपया बच रहा था। यह रुपया मुझे बहुत प्यारा था, परन्तु बंसीलाल के समुख उस रुपये की क्या तुलना थी? मैंने उसे स्विद्ज़रलैण्ड भेज दिया।

वह वहां दो वर्ष रहा। वहां उसका स्वास्थ्य बहुत कुछ अच्छा हो गया। यद्यां तक कि मेडिकल-बोर्ड ने फैसला दे दिया कि उसे अब कोई विमारी नहीं है। इस सूचना से मेरे आनन्द का पारावार न रहा। सारा दिन नाचता फिरता था। बंसीलाल ने अपना फ्लोटो भी भेजा था। उससे देख पड़ता था कि पहले की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। चेहरा भी भर गया था। अब मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा कि वह कब वापस आएं और मैं उसे प्रेम से गले लगाऊं। परन्तु जब वह दिन आया तब मेरी आशाओं पर ओस पड़ गई। बंसीलाल हिन्दुस्तान आ गया, परन्तु अपना स्वास्थ्य वहीं छोड़ आया। यदि मेरे पास और रुपया आता तो मैं रुपये का मुंह न देखता। मगर मेरी अवस्था दिन पर दिन गिर रही थी। मैंने अपनी ओर से पूरा यत्न किया कि कहीं से रुपया मिल जाए तो बंसी को फिर स्विद्ज़रलैण्ड भेज दूं, परन्तु रुपये का प्रबन्ध न हो सका।

(६)

छः महीने बीत गए।

प्रातःकाल था। मैं बंसीलाल के पास बैठा उसके मुंह

की ओर देख रहा था। आज उसकी त्रावस्था बहुत बिगड़ रही थी। न सुंह पर लाली थी, न आंखों में चमक। उनके स्थान पर लाश की सी ज़रदी छा गई थी। मैं यह देखता था और रोता था। उस समय मेरा सारा जीवन मेरी आंखों के सामने था। वे दिन याद आ गए जब मैंने मिठाई का खोन्चा छोड़ कर व्यापार आरम्भ किया था। पास धन न था, परन्तु हृदय में शान्ति का वास था। अब वे दिन कहाँ थे? मैंने जेव में हाथ डाल कर देखा तो उस समय मेरे पास केवल डेढ़ सौ रुपये थे। मैं चौंक पड़ा। भूली हुई घटनाएं आंखों-तले फिर गईं। इतने ही रुपयों से मैंने व्यापार आरम्भ किया था। उस समय न स्त्री थी, न पुत्र। क्या परमात्मा मुझे आज फिर उसी दशा में फेंकने का प्रबन्ध कर रहा है। स्त्री पहले जा चुकी थी, बेटा अब जा रहा था।

एकाएक बंसीलाल ने ज़ोर से अंगड़ाई ली और चारपाई पर तड़पने लगा। मैंने हृदय को अन्तिम चोट के लिए तैयार किया, और उठ कर मरने वाले के ऊपर झुक गया। वह जान तोड़ रहा था। मैंने भर्ताई हुई आवाज़ से कहा—बंसी!

बंसी ने बेहोशी में उत्तर दिया—हाँ।

“होश करो।”

“हाँ होश में हूँ।”

“मैं कौन हूँ?”

बंसीलाल ने मेरी ओर बड़े ध्यान से देखा और तब कहा,
मेरा भाईबाल ।

यदि मेरे गले में सांप लिपट जाता तो भी मुझे ऐसा
आश्चर्य न होता जैसा इस उत्तर से हुआ । हृदय पर घोर
आतङ्क-सा छा गया, मानो किसी ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा
दिया हो । परन्तु मुझे फिर विचार आया, बंसी बेसुध है, यों
ही बड़बड़ा रहा है, इस लिए मैंने फिर पूछा—

“बंसी !”

“हाँ ।”

अब स्वर अधिक स्पष्ट था ।

“यह कौन है ?”

इशारा उसकी स्त्री की ओर था ।

बंसी ने अपनी पथराई हुई आंखें अपनी स्त्री की ओर
उठाईं और कहा—डाक्टर ।

“तुम कौन हो ?”

“प्रभुदास ।”

सन्देह निश्चय बन गया । मैं खड़ा न रह सका । मेरे
शरीर की शक्ति जैसे पृथ्वी ने खींच ली । पाप का परिणाम
ऐसा दुःखदायक होगा, यह ख्याल भी न था ।

मैंने पुनर्जन्म की कथाएं सुनी थीं, परन्तु उन पर विश्वास
न आता था । इस समय प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया ।

बंसी मर गया, मेरी आंखों में आंसू न थे । उन्हें पापों

की अग्नि ने सुखा दिया था। मैंने उसका दाह-संस्कार किया और जेहलम से निकल आया। उस के पश्चात् मैंने आज तक वहां पांच नदीं रक्खा।

अब मैं प्रति दिन अपने शरीर को कष्ट देता हूँ, कोड़े मारता हूँ और प्रत्येक मनुष्य को यह कहानी सुनाता हूँ, और फिर लोगों के सामने सिर झुकाकर ग्राधना करता हूँ कि मेरे सिर पर पांच पांच जूते लगा दो। कदाचित् इसी से मेरा पाप धुल जाए।

यह कहते कहते साधु ने अपना सिर नीचे झुका दिया।

कमल की बेटी

(१)

रात्रि का समय था, चन्द्रमा की धवल किरणें पृथ्वी को अपनी शीतल चांदनी में स्नान करा रही थीं। श्रीकृष्ण ने ठंडी सांस भरी और कहा,—मेरा विचार भूठा निकला। मनुष्य संसार का सर्वोत्तम पदार्थ नहीं। कमल का यह फूल जो वायु के खोकों के साथ कीड़ा कर रहा है, उससे कहीं अधिक मनोहर और दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है। उसकी पंखड़ियाँ कैसी सुन्दर हैं उसका रङ्ग कैसा मनोहारी है, उसका रूप कैसा अनुपम और नयनाभिराम है। सौन्दर्य के बाज़ार में यह निर्जीव पुष्प सकल संसार की सब से अधिक रूपवती कामिनी को भी परास्त कर सकता है। प्रत्युत् यदि जगत का सम्पूर्ण सौन्दर्य एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाप, तब भी उस में यह मोहिनी नहीं आ सकती जो इस अकेले फूल के अन्दर समाई दुई है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक लड़की उत्पन्न करूँ, जो मनुष्यों में ऐसी हो,

जैसे फूलों में कमल। जिस से संसार के अंधेरे कोण जग-
मगा उठें, और जिस के सम्मुख श्यामा का सज्जीत भी मन्द
पड़ जाए।”

यह सोच कर श्रीकृष्ण कुछ लग चुप रहे, और फिर
एकाएक अपनी सांवरी अंगुली उठा कर बोले—हे कमल
के निर्जीव पुष्प ! एक सजीव सुन्दरी के रूप में बदल जा,
और मेरे सामने खड़ा हो ।

जल की लहरों ने अपने आप को सरोबर के तटों के
साथ टकराया। रात्रि अधिक सुन्दर हो गई। चन्द्रमा की
किरणें अधिक प्रकाशमान हो गईं। सरोबर का जल मोतियों
के समान चमकने लगा, मानो चन्द्रमा की चांदनी उस में
हल हो गई। सोती हुई चिड़ियां अपने प्राणों की समूर्ख शक्ति
से गाने लगीं और कुछ देर के बाद सहसा चुप हो गईं।
कमल के फूल ने जल में छवकी लगाई और एक लावण्यवती
सुन्दरी अपने पंखड़ियों के सदृश कोमल वस्त्र निचोड़ती हुई
वाहर निकली।

श्रीकृष्ण का हृदय प्रसन्नता से धड़क रहा था। उन्होंने
कमल की बेटी को देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा—
पहले तुम कमल का निर्जीव फूल थीं, अब तुम कमल की
सजीव बेटी हो। बातें करो।”

कमलकुमारी ने सिर झुका कर बोलना आरम्भ किया,
वायु में सुगन्ध भर गई—महाराज ! मैं आप के आदेश से

उत्पन्न हुई हूँ, आपकी आशा का पालन करूँगी। कृपया कहिए मैं कहाँ निवास करूँ ?”

श्रीकृष्ण ने चन्द्रमा की ओर टकटकी लगा कर देखा और उत्तर दिया—‘पुष्पवाटिका मैं ।’

‘महाराज ! वहाँ वायु फूलों को थेपेड़े मारती है ।’

“क्या तुम पर्वतों की ऊँची चोटियाँ पसन्द करोगी ?”

“वहाँ बर्फ है। शीत से मेरा हृदय कांपने लगेगा ।”

“अच्छा ! तो समुद्रतल मैं। वहाँ मैं तुम्हारे लिए मूले का महल बना दूँगा ।”

“परन्तु वह बहुत गहरा है ।”

श्रीकृष्ण ने मुस्कराकर पूछा—“तो फिर तुम्हें कहाँ रखें, क्या हिमालय की कन्दराओं मैं ?”

कमल की बेटी का अङ्ग अङ्ग थर्हा गया। उसने कांपते हुए कहा—वहाँ अन्धेरा है।

“कमल के फूलों के पास, जल के ऊपर ?”

“वहाँ काई है ।”

“निर्जन बनाँ मैं ?”

“वहाँ एकान्त है। इससे मेरा रक्त नाड़ियों मैं जम जाएगा ।”

श्रीकृष्ण ने माथे पर हाथ फेरा। इस समय उनका चित्त बहुत उदास था। उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली, और उसे बजाने लगे।

(२)

रात्रि बीत गई । सूरज की किरणें जल पर नाचने लगीं । सरोवर का जल ताड़ के पत्ते, वृक्षों पर रहने वाले पक्षी, निद्रा से जागे । प्रकृति में नए सिरे से जान आ गई ।

श्रीकृष्ण ने कहा, यह कवि है ।

सरोवर के निर्मल जल पर एक लम्बी छाया दिखाई दी । वायु में किसी की मदभरी तान गूँजी । हरी हरी धास पर किसी के पांव की हल्की सी चाप सुनाई दी । और थोड़ी दूरी पर एक नवयुवक हाथ में बीणा लिए आता दिखाई दिया । श्रीकृष्ण ने उसे देखा, और फिर दुबारा कहा, “यह कवि है ।”

कवि सर्वीप आया—एक दूसरा सूरज उदय हो गया । उसने कमल की बेटी को देखा तो बीणा उसके हाथ से गिर गई और पांव भूमि में गड़ गए, जैसे किसी ने उनमें बेड़ियां डाल दी हों । श्रीकृष्ण ने कमल के फूल को जीती-जागती लड़की बनाया था; लड़की के अनुपम लावण्य ने कवि को आश्वर्य की मूर्ति बना दिया ।

श्रीकृष्ण ने पूछा—कवि ! क्या हाल है ?

कवि ने चौंककर बीणा संभाली और सिर मुका कर उत्तर दिया—मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम के पद बनाता हूँ, और प्रेम का संगीत गाता हूँ । मेरे जीवन का एक एक ज्ञान प्रेम के लिए अर्पण हो चुका है ।

यह कहते कहते कवि ने कमल की बेटी की ओर प्यासे नेत्रों से देखा ।

श्रीकृष्ण बैठे थे, खड़े हो गए और बोले, सुन्दरी ! मुझे तुम्हारे लिए स्थान मिल गया ।

“कहां ?”

कवि का कलेजा धड़कने लगा, श्रीकृष्ण ने कहा—इस कवि के हृदय में जाकर रहो ।

कवि ने सिर झुका दिया । उस की वीणा के तारों से भङ्गार का शब्द निकला । कमल की बेटी सौन्दर्य के कटाक्ष से आगे बढ़ी और कवि के हृदय में प्रविष्ट होने लगी । परन्तु एकाएक पीछे हट गई । इस समय मुखमण्डल भय से हिम की तरह सफ़ेद था । श्रीकृष्ण को आश्चर्य हुआ—क्या तुम वहां भी डरती हो ?

(३)

कमल की बेटी की आंखों में आंसू लहराने लगे । उसने गदगद होकर कहा—महाराज ! आप ने मेरे लिए कैसा स्थान चुना है ! वहां तो गगनभेदी पर्वतों की हिम से पटी हुई ऊँची नीची चोटियां, भयानक तरङ्ग वाले समुद्र की गहराइयां, शून्य बनों का सञ्चाटा और हिमालय की अंधेरी गुफाएं, सब कुछ विद्यमान हैं । मैं वहां कैसे रहूँगी ?

श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया—न डरो ! सुन्दरी न डरो ।

डरने का कोई कारण नहीं। तुम सुन्दरी हो, तुम्हारा आसन कवि का हृदय है। यदि वहां हिम है, तो तुम सूरज बनकर उसे पिघला दो। यदि वहां समुद्र की गहराई है तो तुम मोती बनकर उसे चमका दो। यदि वहां एकान्त है, तो तुम सुमधुर सङ्कीर्त आरम्भ कर दो, सज्जाटा दूट जाएगा। यदि वहां अंधेरा है, तो तुम दीपक बन जाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा।

कमल की बेटी इनकार न कर सकी। वह अब तक वहाँ रहती है।

आशीर्वाद

(१)

लाजवन्ती के हाँ कई पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु सब के सब बचपन ही में मर गये। अन्तिम पुत्र हेमराज उसकी आशाओं का केन्द्र था। उसका मुख देखकर वह पहले बच्चों की मृत्यु का शोक भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण देहाती बालकों ही का सा था, तथापि लाजवन्ती उसे सबसे सुन्दर समझती थी। मातृ-वात्सल्य ने आँखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवन्ती को उसकी इतनी चिन्ता थी कि प्रति क्षण उसे छाती से लगाए रहती थी, मानो वह कोई दीपक हो, जिसे बुझाने के लिए शिशिर के तीक्ष्ण झाँके बारबार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा-छिपा कर रखती थी। कहीं उसे किसी की कुटौष्ठि न लग जाए। गांव के लड़के खेतों में स्वच्छुन्दता से खेलते फिरते हैं, परन्तु लाजवन्ती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी। अगर कभी निकल भी जाता, तो घबरा कर ढूँढ़ने लग जाती थी।

गांव की स्थियाँ कहतीं—हमारे भी तो लड़के हैं, तू यों पागल क्यों हो जाती है? लाजवन्ती यह सुनती, तो उस की आँखों में आँसू लहराने लगते। भर्ये हुए स्वर में उत्तर देती—क्या कहूं? मेरा जी डरता रहता है।

इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे।

परन्तु इतना सावधान रहने पर भी हेमराज कुदृष्टि से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवन्ती दूध दुह रही थी। इतने में हेमराज जागा, और मुंह फुलाकर बोला—मां!

आवाज़ में उदासी थी। लाजवन्ती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची, और प्यार से उस के सिर पर हाथ फेर कर बोली—क्यों हेम! क्या है बेटा?

हेमराज की आँखों में आँसू डबडबा आए, रुक-रुक कर बोला—सिर में दर्द होती है।

बात साधारण थी, परन्तु लाजवन्ती का हृदय कांप गया। यहीं दिन थे, यहीं ऋतु, जब उस का पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी प्रकार बीमार हुआ था। उस समय भी लाजवन्ती ने उसकी सेवा-शृणा में दिन-रात एक कर दिया था। परन्तु जो होना होता है, उसे कौन मेट सकता है। निर्दयी काल ने लाजवन्ती का सर्वस्व छीन लिया। लाजवन्ती उस समय इस दुःख से अधमरी सी हो गई थी। वहीं

घटना इस समय उस की आंखों के सामने फिर गई। क्या अब फिर—

लाजवन्ती के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसकती सी प्रतीत होने लगी। जिस प्रकार विद्यार्थी एक बार फ़्लेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर-दर्द से लाजवन्ती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी थे। लोग उन्हें धन्वन्तरि समझते थे। सैंकड़ों रोगी उनके हाथों से आरोग्य होते थे। आस-पास के गांवों में उनका बड़ा नाम था। लाजवन्ती उड़ती हुई उन के पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार-पत्र पढ़ रहे थे। लाजवन्ती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया, और आंखों से ऐनक उतार कर बोले—क्यों बेटी! क्या बात है?

वैद्य जी इस गांव के रहने वाले न थे। आयु भी पवास वर्ष से ऊपर थी। अतएव गांव की बहू-बेटियाँ उन से परदा न करती थीं। लाजवन्ती ने चिन्तित-सी होकर उत्तर दिया—हेम बीमार है।

वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा—कब से।

“आज ही तो कहता है, सिर में दर्द है।”

“बुखार तो नहीं?”

“मालूम तो नहीं होता। आप चलकर देख लेते, तो अच्छा था।”

वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने, और लाजवन्ती के साथ हो लिए। हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा, और फिर कहा—कोई चिन्ता नहीं। दवा देता हूं, बुखार उतर जायगा।

लाजवन्ती के इबते हुए हृदय को सहारा मिल गया। उस ने दुपट्टे के आंचल से अठन्डी खोली, और वैद्य जी की भेट कर दी। वैद्य जी ने मुख से तो “नहीं-नहीं” कहा, परन्तु हाथों ने मुख का समर्थन न किया।

(२)

कई दिन बीत गए, हेम का ज्वर नहीं घटा। वैद्य जी ने कई औषधियां बदलीं, परन्तु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवन्ती की चिन्ता बढ़ने लगी। वह रात-रात भर उस के सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते, परन्तु लाजवन्ती का मन उनकी बातों की ओर न था। वह अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की शुश्रूषा में लग रही थी।

एक दिन वैद्य से पूछा—क्या कारण है, जो बुखार नहीं उतरता?

वैद्य जी ने एक कटाक्ष-विशेष से, जो प्रायः वैद्य लोग ही किया करते हैं, उत्तर दिया—मियादी बुखार है।

लाजवन्ती ने तड़प कर पूछा-मियादी बुखार क्या ?
 “अपनी मियाद (अवधि) पूरी करके उतरेगा ।”
 “पर कब तक ?”
 “इक्कीसवें दिन उतरेगा । इससे पहले नहीं उतर सकता ।”
 “आज ग्यारह दिन हो गए हैं ।”
 “बस दस दिन और हैं ।”

लाजवन्ती का माथा ठनका; हिचकिचाते हुए बोली--
 कोई अंदेसा तो नहीं है ?

बैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे । इस समय वह सोच रहे थे
 कि उसे सच बताएं, या न बताएं । आखिर बोले—“देखो
 रोग डुस्साध्य-सा है, हानिकारक भी हो सकता है । मेरी
 सम्मति में हेम के पिता को बुलवा लो ।”

लाजवन्ती सहम गई । रेत के स्थलों को मीठे जल की
 नदी समझ कर जब मृग पास पहुंच कर देखता है कि नदी
 अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की
 होती है, वही दशा इस समय लाजवन्ती की हुई । उसे आशा
 नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक-आध दिन में स्वस्थ
 हो जाएगा; परन्तु बैद्य की बात सुनकर उस का हृदय बैठ
 गया । उसका पति रामलाल सचदेव मुलतान में नौकर था ।
 उसने उसे पत्र लिखा, वह तीसरे दिन पहुंच गया । चिकित्सा
 दुगनी सावधानी से होने लगी । यहां तक कि दस दिन
 और भी व्यतीत हो गए । अब इक्कीसवां दिन सिर पर था ।

लाजवन्ती और रामलाल दोनों घबरा गए। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। क्या बुखार एकाएक उतरेगा?

वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी, तो आतुर-से होकर बोले—
आज की रात बड़ी भयानक है। सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा।

[३]

लाजवन्ती और रामलाल, दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी होने वाली दुर्घटना के पूर्व-सूचक थे। रामलाल औषधियां संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठे थे। परन्तु लाजवन्ती के हृदय को कल न थी। उस ने संघ्या-समय थाल में धी के दीपक जलाए, और मन्दिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन-सामग्री के साथ सामने नृत्य करती हुई दिखाई दी। लाजवन्ती अनन्यभाव से मन्दिर में पहुंची, और देवी के सामने गिर कर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया, तो उसका मुखमण्डल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा ग्रतीत हुआ, मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है कि तूने आंसू बहा कर देवी के पाषाण-हृदय को मोम कर दिया है। परन्तु उसने इतने पर संतोष न किया, माटू-बोहे ने भय को चरम-सीमा पर पहुंचा दिया था।

लाजवन्ती ने देवी की आरती उतारी, पूल चढ़ाए, मन्दिर की परिकमा की और प्रेम के बोझ से कम्पित स्वर से मानता मानी कि “देवी माता ! मेरा हेम स्वस्थ हो जाए, तो मैं तीर्थ-यात्रा करूँगी ।”

यह मानता मानने के बाद लाजवन्ती को ऐसा जान पड़ा, जैसे उसके हृदय पर से किसी ने बोझ हटा लिया है। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। लौटी, तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसके हृदय-समुद्र में आनन्द की तरंगें उठ रही थीं। उड़ती हुई घर पहुँची। उसके पति ने कहा—लो वधाई हो ! तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है बुखार धीरे धीरे उत्तर रहा है।

लाजवन्ती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की सुखमयी झलक। झूमती हुई बोली—अब हेम को कोई डर नहीं है। मैं तीर्थ-यात्रा की मानता मान आई हूँ।

रामलाल ने तीर्थ-यात्रा के खर्च का अनुमान किया, तो हृदय बैठ गया, परन्तु पुत्र-स्नेह ने इस चिन्ता को देर तक न ठहरने दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चन्द्रमा के समान मुस्करा कर उत्तर दिया—अच्छा किया, रुपण का क्या है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे।

लाजवन्ती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात-भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानन्द की मस्ती छा रही

थी। प्रभात हुआ, तो हेम का ज्वर उत्तर गया था। लाजवन्ती के मुख-मण्डल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बुँदें टपकने लगती हैं।

बैद्यजी ने आकर देखा। उन का मुख-मण्डल चमक उठा। अभिमान से सिर उठा कर बोले—अब कोई चिंता नहीं।

लाजवन्ती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा—
बच्चा क्या से क्या हो गया है।

बैद्य ने लाजवन्ती की ओर देखा, और रामलाल से बोले,
यह सब इसी के परिश्रम का फल है।

लाजवन्ती ने उत्तर दिया—देवी माता की कृपा है,
अथवा आपकी औषध के प्रभाव का फल है। मैंने क्या
किया है?

“मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए
पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला
है। तुम यदि दिन-रात एक न कर देती, तो हेम का बचना
सर्वथा असम्भव था।”

रामलाल के ढोंठों पर मुस्कराहट थी। इसके सातवें
दिन वह अपनी नौकरी पर चले गए।

(४)

तीन मास व्यर्ति त हो गये; लाजवन्ती तीर्थ-यात्रा के लिए

तैयार हुई। अब उस के मुख पर फिर वही आभा थी; आंखों में फिर वही चमक। हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था, जैसे फूलों पर बुलबुल। लाजवन्ती उसे देखती और फूली न समाती थी। तीर्थयात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। भाँझे और करताले बज रही थीं। ढोलक की थाप गूँज रही थी। कहाँ पूरियां बन रही थीं, कहाँ हलुआ। उनकी सुगन्धि से दिमाग तर हुप जाते थे। लाजवन्ती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। एक ओर निचिन्ते साधु सुलफे के दम लगा कर गांव की हवा को शुद्ध (?) कर रहे थे। उनकी ओर गांव के लोग इस तरह देखते थे, जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं। आंखों में अद्भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं अधिक थी। लाजवन्ती से कोई मैदा मांगता था, कोई थी। कोई कहता था, हलवाई गुड़ के लिप चिल्ला रहा है। कोई पूछता था, अमचूर का वर्तन कहाँ है? कोई और समय होता, तो लाजवन्ती घबरा जाती। पर इस समय उसके मुख पर घबराहट न थी। सोचती थी, कैसा सौभाग्य है, जो यह दिन मिला।

मगर सारा गांव प्रसन्न हो, यह बात न थी। वहीं खियों में बैठी हुई एक वृद्धा ली असीम दुःख में झब्बी हुई थी। यह लाजवन्ती की बूढ़ी पड़ोसिन हरो थी। अत्यन्त दुःख के

कारण उसके कंठ से आवाज़ न निकलती थी। शहर होता, तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिलित न होती, परन्तु गांधी की बात थी। न आती, तो उंगलियां उठने लगतीं। आनन्द-मय हास-परिहास के मध्य में उसका मस्तिष्क ढुःख और शोक के कारण खौल रहा था। ठंडे समुद्र में गरम जल का स्रोत उबल रहा था। वह स्रोत शेष समुद्र से कितना पेर—कितना अलग था?

रात के चार बज गए। लोग खा-पीकर विश्राम करने लगे। जो बच रहा, वह गरीबों को बांट दिया गया। लाजवन्ती ने लोगों को बिदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टीन के बक्स में आवश्यक कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, कण्ठ में लाल रंग की सूती माला पढ़नी, मस्तक पर चन्दन का लेप किया। गऊ पढ़ोसिन को सौंपी और बार बार कहा—इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ, मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवन्ती के कान खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख-स्वप्न में अचेत पड़ा था। यह सिसकी भरनेवाला कौन है? यह सोच कर लाजवन्ती चकित रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी।

लाजवन्ती छुत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में
झुककर ज़ोर से बोली—मां हरो !

कुछ देर तक सन्नाटा रहा । फिर एक चारपाई पर से
उत्तर मिला—कौन है, लाजवन्ती ?

आवाज़ में आंसू मिले हुए थे ।

लाजवन्ती जलदी से नीचे उतर गई और हरो के पास
पहुंच कर बोली—मां ! क्या बात है ?

हरो सचमुच रो रही थी । परन्तु अपना दुःख लाजवन्ती
के सामने कहते हुए उसके नारी-दर्प को बढ़ा लगता था,
इसलिए अपनी वास्तविक दशा को छिपाती हुई बोली—
कुछ नहीं ।

‘रो क्यों रही हो ?’

हरो के रुके हुए आंसुओं की बाढ़ टूट गई, उसका
दुःखी हृदय सहानुभूति की चोट को भी सहन न कर सका ।
वह सिसकियां भर भर कर रोने लगीं ।

लाजवन्ती ने फिर पूछा—मां ! बात क्या है ?

हरो ने कुछ उत्तर न दिया । वह सोच रही थी कि इस
समय कहुं या न कहुं ? प्रभात हो चला था; कुछ-कुछ
प्रकाश निकल आया था । लाजवन्ती चलने के लिए आतुर
हो रही थी । परन्तु हरो को क्या दुःख है, यह जाने बिना
चले जाना उसके लिए कठिन था । उसने तीसरी बार फिर
पूछा—मां, बता दो ना, तुम्हें क्या दुःख है ?

हरो ने दुःखी हो कर कहा—क्या तुम उसे दूर कर दोगी ?

“हो सका, तो दूर कर दूँगी ।”

“यह असम्भव है ।”

“परन्तु बतलाने में क्या हानि है ?”

हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली—बेटी का दुःख खा रहा है ।

“यह क्यों ? उसके व्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना स्वीकार कर लिया है ।”

“ऐसे भाग होते, तो रोना काहे का था ?”

लाजवन्ती ने अकुलाकर पूछा—तो क्या यह भूठ है ?

“बिलकुल भूठ भी नहीं । उसने दो सौ रुपये के आभूषण बनवा दिए हैं, परन्तु मिठाई आदि का प्रबन्ध नहीं किया । अब चिन्ता यह है कि वारात आएगी, तो उसके सामने क्या घरंगी ?”

लाजवन्ती ने कुछ सोच कर उत्तर दिया—क्या गवां के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का व्याह नहीं कर सकते ?

हरो की आँखें भू आईं । वह इस समय निर्धन थी, परन्तु उसने कभी अच्छे दिन भी देखे थे । लाजवन्ती के प्रस्ताव से उसके आत्म-सम्मान को घक्का लगा । नया भिखारी

गल्प-मंजरी

गालियाँ सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा—बेटी! यह अपमान न देखा जायगा।

“परन्तु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जायगी।”

हरो ने बात काट कर कहा—मैं इसे सहन नहीं कर सकूँगी।

तो क्या करोगी? कन्या कुंचारी रकखोगी?”

“भगवान् की यही इच्छा है, तो मेरा क्या बस है? कहीं निकल जाऊँगी।”

लाजवन्ती ब्राह्मणी की करुणा-जनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो कोई कह रहा है कि यदि यह हो गया, तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर भस्म कर देगा। लाजवन्ती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुःख से पानी पानी हो गया। उसने जोश से कहा-चिन्ता न करो। तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूँगी।

हरो ने वह सुना, जिसकी उसे इच्छा थी, परन्तु आशा न थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू भलकने लगी। लाजवन्ती तीर्थ-यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी—हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन के मन्दिरों को देख कर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। परन्तु जो आनन्द उसे इस समय प्राप्त हुआ, वह उस कलिपत आनन्द की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर भई, और सन्दुक्क से दो सौ रुपये लाकर हरो के

सामने ढेर कर दिए। यह रूपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उस से भी अधिक प्रसन्न हुई।

[५]

लाजवन्ती के तीर्थ-यात्रा का विचार स्थगित करने पर गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे, लाजवन्ती ने बहुत बुरा किया। देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। ख्रियां कहती थीं—किस शेषी पर रात को रतजमा किया था ? साठ-सच्चर रूपये खर्च हो गए, अब घर में बैठ गई है। नहीं जाना था, तो इस दिखावे की क्या आवश्यकता थी ? कोई कहती थी—देवी-देवताओं के साथ यह हंसी अच्छी नहीं, ले-देकर एक पुत्र है उस की खैर मनाए। जो बूढ़ी थीं, वे माला की गुरियां फेरते-फेरते बोलीं—कलयुग का पहरा है, जो न हो जाए, सो थोड़ा ! ऐसा तो आज तक नहीं सुना था ! पर असली रहस्य किसी को भी पता न था। धीरे धीरे यह बातें लाजवन्ती के कानों तक भी जा पहुंची। पहले तो उसने उनकी कुछ परवा नहीं की, परन्तु जब सब और यहीं चर्चा और यहीं बात सुनी, तो उसका चित्त भी डांवाडोल होने लगा। बायु ने झक्कड़ का रूप धारण कर लिया था; अब यात्री घबराने लगा।

लाजवन्ती सोचती थी—मैंने बुरा किया ? एक

निर्धन ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसन्द नहीं। और, मैंने तीर्थ-यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस पर देवी-देवता कुपित क्यों होने लगे? परन्तु दूसरा विचार उठता कि मैंने सचमुच भूल की। देवी-देवताओं की भैट किसी मनुष्य को देना अपराध नहीं, तो और क्या है? यह विचार आते ही उस का कलेजा कांप जाता, और हेम के विषय में भयानक संशय उत्पन्न होने लग जाते। संसार बुराइयों पर पछताता है, लाजवन्ती भलाई पर पछता रही थी। दिन का चैन उड़ गया; रात की नींद हराम हो गई! उसे वहम हो गया कि अब हेम का कुशल नहीं। उसे खेलती देखती तो उसके हृदय पर कटारियां चल जातीं थीं।

इसी प्रकार कई दिन बीत गए। गांव में चहल-पहल दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाईयां तैयार हो रही थीं। गांव की कुंचारी कन्याओं के हाथों में मेहदी रची हुई थी। रात के बारह-बारह बजे तक हरो की छुत पर ढोलक बजती रहती, और स्त्रियों के देहाती गीतों से गांव गूंजता रहता। एक वह दिन था जब लाजवन्ती प्रसन्न थी और हरो दुःखी। आज हरो के यहां चहल-पहल थी; परन्तु लाजवन्ती के यहां

उदासी बरस रही थी । समय के फेर ने काया-पलट कर दी थी ।

रात्रि का समय था, मन्दिर में घण्टे बज रहे थे । लाजवन्ती ने आरती का थाल उठाया, और पूजा के लिए चली । परन्तु द्वार पर पहुंच कर पांव रुक गए । उसे पेसा प्रतीत हुआ, मानों देवी की मूर्ति उसे दण्ड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी है । लाजवन्ती का कलेजा धड़कने लगा । वह डर कर दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी । जिस प्रकार निकम्मे विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता ।

सहसा उसने सुना कोई प्रार्थना कर रहा है । लाजवन्ती का रोम-रोम कान बन गया । उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही मेरे साथ कुछ सम्बन्ध है और घटना ने बतला दिया कि यह उस की भूल न थी । कोई कह रहा था—

“देवी माता ! उसे सदा सुहागिन बनाओ । उस के बेटे को चिरञ्जीव रखो । उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो ! उसके बेटे और पति का बाल भी बांका न हो ! यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो । जिस प्रकार उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी प्रकार उसका कलेजा ठंडा रखो ।

यह ब्राह्मणी हरो थी। लाजवन्ती के रोम-रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे सन्देह धुएं के बादलों की तरह तितर-वितर हो गए। वह रोते हुए आगे बढ़ी, और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई।

रात्रि को स्वप्न में वह फिर देवी के सम्मुख थी। सहसा देवी की मूर्ति ने अपने सिंहासन से नीचे उतर कर लाजवन्ती को गले से लगा लिया, और कहा—तूने जो कुछ किया है, वह लाख तीर्थ-यात्रा से भी बढ़कर है।

लाजवन्ती की आंख खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई, जैसी आज तक कभी न हुई थी।

पं० विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक

आप कानपुर के निवासी हैं। आयु ४६ साल के लगभग होगी। पहले 'मनोरञ्जन' नामी गल्प-पत्रिका निकालते थे, पर अब उसे बंद कर चुके हैं। साहित्य-सेवा आपके जीवन का लक्ष्य है। हिन्दी की कोई ही अभागी पत्रिका होगी, जो आपकी कहानियों से कभी न कभी सुशोभित न हुई हो। आपके रियासत भी है। खाने पीने को काफी मिल जाता है। आजीविका की समस्या ने आपकी साहित्य-सेवा में कभी बाधा नहीं डाली। सारा समय लिखने पढ़ने की भेट हो जाता है।

कौशिक जी की लेखन-शैली बड़ी ओजमयी और हृदयस्पर्शी है। निम्न श्रेणी के चरित्रों का चित्रण करने में आप निपुण हैं। उनकी कहानियों की विशेषतः सम्भाषण (Dialogue) है। ग्रायः सम्भाषण ही से कहानी को उठाते हैं, सम्भाषण ही से उसका विकास करते हैं, और सम्भाषण ही पर समाप्त कर देते हैं। श्रीप्रेमचंद्र और सुदर्शन की कहानियों में उपसाएं और अलंकार बहुत रहते हैं। कौशिक जी के हां आपको यह दोनों चीज़ें शायद ही कहीं नज़र आएं। आपकी

कहानियाँ सादा मगर इसके साथ ही मनोरञ्जक और शिक्षाप्रद होती हैं।

इस समय तक आपकी कहानियों के दो संग्रह और दो उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ नाटक भी आपने लिखे हैं। आपके एक गद्य-संग्रह का अनुवाद उर्दू में भी हो चुका है।

—:-:-

उद्धार

[१]

“बेटी सुशीला अब रहने दे। बारह तो बज गए, सबेरे
देखा जाएगा। आज दिन-भर और इतनी रात काम करते
ही बीती।”

रात के बारह बज चुके हैं। संसार का अधिकांश भाग
निद्रा की गोद में खर्चाए ले रहा है। जाग केवल वे लोग रहे
हैं, जिन्हें जागने में सोने की अपेक्षा विशेष आनन्द और सुख
मिलता है, अथवा वे लोग, जो दिन को रात तथा रात को
दिन समझते हैं, और या फिर वे लोग, जो रात के अंधकार
और लोगों की निद्रावस्था से अनुचित लाभ उठाने को उत्सुक
रहते हैं। परन्तु इन के अतिरिक्त कुछ और प्रकार के लोग भी
जाग रहे हैं। ये लोग वे हैं, जिन के उदर-पोषण के लिए दिन
के बारह घंटे यथेष्ट नहीं, जिन के लिए, सोने और आराम
करने का अर्थ दूसरे दिन फाज़ा करना है, जो निद्रादेवी के
प्रेमालिंगन का तिरस्कार केवल इसलिए कर रहे हैं कि उस

के बदले में दूसरे दिन उन्हें जुधा-राज्ञीसी की मार सहनी पड़ेगी।

उनकी आंखें झुकी पड़ती हैं, सिर चकरा रहा है, परन्तु पेट को जुधा की यंत्रणा से बचाने के लिए वे अपनी शक्ति के बचे-खुचे परमाणुओं से काम ले रहे हैं।

एक छोटे से घर में रेडी के तेल का दीपक टिमटिमा रहा है। उसी दीपक के पास एक फटी-टूटी चटाई पर दो खियां झुकी हुई बैठी हैं। उनके सामने एक नीली मखमल का लहंगा है, और वे दोनों उस पर सलमे-सितारे का काम बना रही हैं। एक की उम्र ५० साल के लगभग है, और दूसरी की २५ के लगभग। उनकी रुक-रुक कर चलने वाली उंगलियां काम करने से मुंह मोड़ रही हैं, और मौन-भाषा में यह कह रही हैं कि वे इतनी थकी हुई हैं कि उन से अधिक काम लेना उन पर अत्याचार करना है।

काम करते करते सहसा वृद्धा ने सुई छोड़ दी। कुछ सैकिंडों तक आंखों पर हाथ रखे रहने के पश्चात् वह बोली—बेटी सुशीला, अब रहने दे। बारह तो बज गए। सवेरे देखा जाएगा। आज दिनभर और इतनी रात काम करते ही बीती। सुशीला उसी प्रकार काम करती हुई बोली—नहीं, सवेरे नहीं, अभी तो लगे हाथों हो भी जाएगा। इसे सवेरे भिजवा देना चाहिए। इस की बनवाई मिले तो कुछ काम चले। घर में एक पैसा तक नहीं है। कल का खर्च कैसे चलेगा? और

कल राधे की फ़ीस भी देनी है। कई दिन से टाल रहे हैं।
कल दे ही देनी चाहिए। अम्मां तुम्हें नींद आती हो तो तुम
सो रहो, मैं कर लूँगी। घंटे-भर का तो काम ही रह गया है।

वृद्धा बोली—बेटी ! मेरी तो अब उंगलियां नहीं चलतीं।
आंखों के आगे अंधेरा-सा हो रहा है। नींद के मारे बुरा हाल
है। मेरी समझ में तो अब तू भी सो जा, सबेरे हम दोनों
मिल कर जल्दी बना डालेंगी।

सुशीला बोली—नहीं अम्मां ! सबेरे नहीं। सबेरे और
बहुत काम करने हैं। राधे के लिए कुरता सीना है, कई दिन
से मैला पहने घूम रहा है। तुम सो रहो, मैं अभी इसे पूरा
किए देती हूँ।

वृद्धा ने पुत्री की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह
कुछ देर तक स्थिर-दृष्टि से सुशीला के मुख की ओर ताकती
रही, तत्पश्चात् एक दीर्घ निःश्वास लेकर उठ खड़ी हुई। खड़े
होकर उस ने एक ज़ोर की अंगड़ाई लेकर जकड़े हुए शरीर
को सीधा किया। इस के पश्चात् वह एक चारपाई के पास
पहुँची। चारपाई पर एक मैला बिछौना बिछा हुआ था और
उस धर पर एक ओर एक आठ दस वर्ष का बालक सो रहा था।
वृद्धा भी उसी चारपाई पर लेट गई और कुछ ही मिनटों में
सो गई। माता के सो जाने पर सुशीला उठी और उसने भी
एक ज़ोर की अंगड़ाई ली, थोड़ा पानी पिया और आंखों पर
पानी के दो-चार छींटे मारे। फिर वह अपने स्थान पर बैठ

कर काम करने लगी। पंद्रह मिनट तक तो उसके काम करने की चाल कुछ तेज़ रही, मगर उसके बाद फिर उंगलियों ने जवाब देना शुरू किया और आंखें नींद को आत्म-समर्पण कर देने के लिए हठ करने लगीं। परन्तु सुशीला यह कह कर कि थोड़ा-सा काम और है उनसे ज्वरदस्ती काम लेने की चेष्टा करती रही। बीच में उसने एक बार फिर पानी पिया और आंखें धोईं। अंत को डेढ़ बजे के निकट सुशीला ने अन्तिम टांका लगाया; परन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उठकर अपनी चारपाई पर जाती। काम समाप्त होते ही उसने सुई हाथ से छोड़ दी, दीपक को मुंह की फूंक मारकर बुझा दिया और फिर उसी चटाई पर सो गई।

(२)

इतनी रात गए सोने पर भी दोनों लियों के चिन्ता-पूर्ण हृदयों ने उन्हें पूरी नींद न लेने दी। सबेरे छु: बजे ही दोनों की नींद टूट गई। यद्यपि थका हुआ शरीर अभी और आराम करना चाहता था, आंखों पर भी नींद का पूरा अधिकार बना हुआ था, किन्तु तो भी, वे दोनों उठ बैठीं।

निय-कर्मों से छुट्टी पाकर, आठ बजने के कुछ पहले, सुशीला ने अपनी माता से कहा—अम्मां अब तुम भैया को साथ ले जाकर लहंगा दे आओ, फिर यह स्कूल चला जाएगा।

यह कहकर सुशीला ने लंदगे को एक कपड़े से लपेट दिया।

बृद्धा लंदगा लेकर राधे के साथ बाज़ार में एक दुकान पर पहुंची। यह दुकान एक बहुत बड़ी दुकान थी और इस में सलमेसितारे तथा चिकन के काम के कपड़े और टोपियाँ इत्यादि बेची जाया करती थीं।

दुकान पर पहुंचकर बृद्धा ने दुकानदार को लंदगा दिया।

दुकानदार ने लंदगा खोला और उसे उलट पुलट कर देखने के बाद बोला—कुछ अधिक अच्छा तो बना नहीं। कुछ सलमा बचा है?

बृद्धा—हाँ, कुछ थोड़ा-सा बचा है।

दुकानदार—अच्छा उसे अभी अपने पास रहने दो, एक टोपी बनवानी है, उसी में लगा देना। हाँ, तो यह काम तुमने कुछ जी लगाकर नहीं किया।

बृद्धा—बेटा! पंद्रह दिन से हम दोनों इसी में लगी रहीं, तब जाकर यह आज बन पाया। अच्छा नहीं बना तो बुरा भी नहीं है। कोई बेल-बूटा टेढ़ा-तिरछा नहीं हुआ, जैसा तुमने कहा था, वैसा ही बनाया है।

दुकान—टेढ़ा-तिरछा न सही, फिर भी अधिक अच्छा नहीं बना। खैर, इसकी बनवाई दो-तीन दिन में ले जाना। एक टोपी भी लेती जाओ, उसे भी जल्दी ही बनाकर दे जाना।

बृद्धा—लाओ, टोपी दे दो, और इस की बनवाई भी

अभी दे दो तो बड़ा काम करो । घर में खाने-पाने को नहीं रहा, राधे की फीस भी देनी है ।

दुकानदार कुछ क्षण तक सोचता रहा । तत्पश्चात् बोला अच्छा तो इस की बनवाई सात रूपए हुए, क्यों न ?

वृद्धा नम्रतापूर्वक बोली—अब तुम्हीं समझ लो, बेटा ! मैं क्या कहूँ । पंद्रह दिन काम किया है ।

दुकानदार—सात रूपये भी तो थोड़े नहीं हैं । तुम्हें तो हम एक आध रूपया अधिक ही दे दिया करते हैं ।

वृद्धा—“बेटा ! सात रूपये मैं तो पेट नहीं भरता, कुछ और दो । हम बड़े गरीब हैं । घर में कोई मर्द-मानस नहीं । जो आज इस लड्डके का बाप या जीजा होता तो हमें ये दिन काहे को देखने पड़ते ।”

यह कहकर वृद्धा आँखों में आँसू भर लाई ।

दुकानदार बोला—अच्छा आठ रूपए देंगे-बस अब तो प्रसन्न हो ?

वृद्धा—बेटा ! भगवान् तुम्हें दूध-पूत से सुखी रखें । तुम्हारी बदौलत हमारा भी पेट भरता है ।

दुकानदार ने वृद्धा को आठ रूपए दिए । टोपी का पल्ला भी दे दिया, और उस के सम्बन्ध में आवश्यक बातें समझा दीं ।

वृद्धा के चले जाने पर दुकानदार अपने मुनीम से बोला—“यह लहंगा तैयार हो गया है । इसे आज ही रायसाहब के

यहां भिजवा देना। साथ ही इसकी बनवाई का परचा भी भेज देना।”

मुनीम ने पूछा—कितने का परचा बनाऊं?

दुकानदार कुछ देर सोच कर बोला—१४०) रु० का परचा बना देना। १००) रु० माल के, और चालीस रुपए बनवाई के।

(३)

राय ज्योतिस्वरूप के ज्येष्ठ पुत्र कृष्णस्वरूप जी एक अंगरेजी का समाचार-पत्र पढ़ रहे थे। पास ही उनके दो तीन मित्र बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सहसा कृष्णस्वरूप ने पत्र मेज पर रख दिया, और बोले—आजकल बड़ी हड्डतालें हो रही हैं, यह बात क्या है? आखिर ये मज़दूर चाहते क्या हैं? क्या इन लोगों की इच्छा यह है कि पूँजी लगानेवालों के बराबर मुनाफ़े में हन्दे भी हिस्सा मिला करे?

एक मित्र बोला—बराबर न सही, कम से कम इतना तो अवश्य मिले जिस में वे आराम से रह सकें।

कृष्णस्वरूप मुंह बना कर बोले—यह कैसे हो सकता है? जो रुपये लगावेगा, दिमाग खर्च करेगा, वह अपनी कमाई में से देकर हानि क्यों उठाने लगा?

दूसरा—खाली रुपए लगाने ही से उसका इतना अधिकार नहीं हो सकता कि वह मज़दूरों से कस कर काम ले

और मज़दूरी इतनी दे, जैसे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा फैक दिया जाता है। मान लीजिए, एक मज़दूर से किसी पूँजी वाले को पांच रुपए लाभ होता है और वह उन पांच रुपयों में से मज़दूर को केवल दो आने अथवा चार आने देता है, वाकी आप डकार जाता है, तो यह अन्याय नहीं तो और क्या है? खास कर ऐसी दशा में, जब उन दो चार आनों से मज़दूर का पेट नहीं भरता?

कृष्ण—अगर दो-चार आने से उनका पेट नहीं भरता तो वह ऐसी जगह मज़दूरी क्यों करें? वहां क्यों न करें जहां अधिक मिले?

तीसरा—आप भी बच्चों की सी बातें करते हैं। अधिक देता कौन है? सब का यही हाल है। यदि एक-आध ऐसे हुए भी, जो सन्तोष-जनक मज़दूरी देते हैं, तो उनसे कितने मज़दूरों का काम चल सकता है? एक-दो पूँजी वाले तो संसार भर के मज़दूरों को रख ही नहीं सकते।

कृष्ण—हां हो सकता है। परन्तु मेरी समझ में तो मज़दूर-मज़दूर ही है। उसे मज़दूरी ही दी जाएगी। इसके सिवा इतना अन्धेर तो शायद ही कहीं होता हो कि जिस मज़दूर से पांच रुपयों का लाभ हो, उसे केवल दो चार आने ही दिये जायें।

तीसरा—शायद ही कहीं नहीं, सब जगह होता है। यदि ऐसा न हो, तो यह कब सम्भव हो सकता है कि बड़ी

बड़ी कम्प नया की पूंजी तो बढ़ती ही चली जाय और बेचारे मज़दूर वही मोची के मोची बने रहे ।

कृष्ण०—रुपए लगाने वाले पूंजी बढ़ाने के लिए ही लागत लगाते हैं और मज़दूर केवल अपना पट भरने के लिए मज़दूरी करते हैं ।

चौथा—यदि पेट भर जाया करे तो भी ठीक है, परन्तु प्रश्न तो यह है कि उनका पेट भी नहीं भरता ।

दूसरा—पेट भरने के कहीं यह अर्थ न लगा लीजिएगा कि चने चबाकर भी पेट भर सकता है । अपने लिए आप पेट भरने का यह अर्थ लगाते हैं कि अनेक प्रकार के धी से चुहचुहाते हुए पकवान हों, खट्टे-मीठे पदार्थ हों, रबड़ी हो, मलाई हो, दूध हो और उनके लिए पेट भरने का यह अर्थ कि चने चबाकर भी पेट भर सकते हैं ।

कुछ सोचकर—(कुछ सोचकर)—नहीं, मैं इतना अन्याय तो पसन्द नहीं कर सकता । मगर साथ ही मैं यह भी ठीक नहीं समझता कि मज़दूरों का साहस बढ़ाया जाय कि वे पूंजी वालों के मुनाफ़े पर दांत लगावें ।

तीसरा—सैर, यदि अभी आप नहीं समझते तो क्रमशः समझने लगिएगा ।

कृष्ण०—“मेरी समझ में तो इन हड्डतालों में मज़दूरों को सफलता नहीं मिलेगी । भला पूंजी वाले उन की शतैं क्यों स्वीकार करेंगे ?”

चौथा—स्वीकार न करेंगे, तो जायेंगे कहाँ ? जब उन्हें मज़दूर ही न मिलेंगे, तो भख मार कर स्वीकार करेंगे । परन्तु इस में बात इतनी है कि मज़दूर भी अपनी बात पर डटे रहें ।

कृष्ण स्वरूप कुछ कहने ही को थे कि एक नौकर कमरे के अन्दर आया और कृष्णस्वरूप से बोला—सरकार ! गुलाबचन्द कम्पनी का आदमी आया है ।

कृष्ण०—यहाँ बुला लाओ ।

कुछ देर बाद नौकर एक चपरासी को साथ लेकर आया ।

चपरासी ने सलाम करके कृष्णस्वरूप के सामने एक काशज़ में लिपटा हुआ पैकेट-सा रख दिया और साथ ही एक लिफ्राफ़ा भी पैकेट के पास रख दिया ।

कृष्णस्वरूप ने पैकेट खोला । पैकेट के अन्दर से एक नाली मखमल का लहंगा निकला, जिस पर नीचे से ऊपर तक ज़री का काम बना हुआ था ।

कृष्णस्वरूप कुछ देर तक उसे उलट-पलटकर देखते रहे । फिर वह मित्रों से बोले—देखिए, कितना अच्छा काम है !

मित्रों ने भी देखकर काम की प्रशंसा की । इस के बाद कृष्णस्वरूप ने लिफ्राफ़ा फाड़कर अन्दर से बिल निकाला । बिल पढ़कर चपरासी से बोले—अच्छा ! रुपए शाम को या कल सवेरे भिजवा दिए जाएंगे ।

‘बहुत अच्छा’ कह कर और सलाम कर के चपरासी कमरे से चला गया ।

चपरासी के चले जाने पर कृष्णस्वरूप के मित्रों ने उनसे पूछा—यह कितने दामों का है ?

कृष्ण०—अब यह समझ लीजिए कि सौ रुपए की तो मखमल है दस गज़, सौ रुपए की ज़री लगी है और चालीस रुपए बनवाई के ।

दूसरा—चालीस रुपए बनवाई ! चालीस रुपये तो कुछ अधिक नहीं हैं ।

कृष्ण०—चालीस रुपयों में केवल ज़री का काम बना है । लहंगे की सिलाई अलग है ।

तीसरा—तब भी कुछ अधिक नहीं, काम को देखते उचित ही है ।

कृष्ण०—हमसे अधिक ले भी नहीं सकते । आईं देकर बनवाया है । मखमल हमारी, ज़री हमारी, लहंगे की सिलाई हमारी, खाली उन्होंने बनवा दिया है ।

चौथा—बना बनाया लेते तो कुछ और अधिक दाम लग जाते ।

कृष्ण०—निःसन्देह अधिक लगते; क्योंकि वे अपना मुनाफ़ा भी तो लेते । केवल ज़री के काम की बनवाई में अधिक मुनाफ़े की गुंजाइश नहीं है । दो चार रुपए बच भी गए तो क्या ।

पहला—इन के यहां कारीगर नौकर होंगे ?

कृष्ण—और नहीं तो क्या ? नौकर न हों तो काम कैसे चले ? अच्छा बड़ा फ्रम है, मामूली फ्रम नहीं है।

उपर्युक्त घटना के चार पांच दिन बाद कृष्णस्वरूप के एक मित्र, जिन्हें हमने ऊपर तीसरा नम्बर दिया है, गुलाबचन्द ऐंड कम्पनी के यहां पहुंचे। इनका नाम ब्रजविहारी था। इन्हें भी कुछ ज़री का काम बनवाना था। इसीलिए कृष्णस्वरूप से गुलाबचन्द-कम्पनी के सम्बन्ध में यह मालूम कर के कि यह कृष्णस्वरूप का काम उचित मूल्य पर कर देती है। उन्होंने भी उक्त कंपनी से कुछ काम बनवाने का निश्चय किया। डुकान पर पहुंच कर ब्रजविहारी ने पहिले उनके यहां का भिन्न-भिन्न प्रकार का काम देखा। इसके बाद उन्हें जो कुछ बनवाना था, उस के सम्बन्ध में बात-चीत की। अभी वह बात-चीत कर ही रहे थे कि सुशीला की माता राधे को साथ लिए आ पहुंची, और सीधे गुलाबचन्द के पास आकर उसने उनके हाथ में एक टोपी दे दी। गुलाबचन्द ने शीघ्रता पूर्वक टोपी को देख कर बृद्धा से कहा—अच्छा ! अब इस समय तो तुम जाओ, कल किसी समय मिलना ।

बृद्धा ने विनीत भाव से कहा—इसकी बनवाई दे दो तो अच्छा हो ।

गुलाबचन्द कुछ अप्रसन्न हो कर बोले—बनवाई मिल

जाएगी। अभी मुझे छुट्टी नहीं है। अभी तीन-चार ही दिन तो हुए रूपए ले गई थी।”

बृद्ध—हाँ बेटा ! लंदेगे की बनवाई के आठ रूपए जो तुमने दिया थे, वे सब खर्च हो गए। कुछु का खाने-पीने को आ गया, कुछु फुटकर खर्च हो गए।

गुलाबचंद कुछु होकर बोले—तुमसे हिसाब कौन पूछता है ? निरर्थक बक-बक लगाए हो। जाओ अपना काम देखो। जब छुट्टी होगी तब तुम्हारा हिसाब दे देंगे। चलो, हटो।

बृद्धा अपना सा मुँह लेकर धीरे धीरे बहाँ से चल दी।

गुलाबचंद ब्रजविहारी से बोला—हाँ तो आप आर्डर दे जाइए, आप का काम बन जाएगा। यह विश्वास रखिए कि दाम उचित लिये जाएंगे और काम समय पर दिया जाएगा।

परन्तु ब्रजविहारी किसी और ही धुन में थे। उन्होंने पूछा—यह बुढ़िया कौन है ?

गुलाबचंद-हमारे यदाँ का कुछु काम बनाती है। साहब ! कारीगरों के मारे नाक में दम रहता है। एक एक के दो-दो लेते हैं, फिर भी हर बड़ी छाती पर सचार होकर ‘लाओ रूपया, लाओ रूपया’ की धुन लगाते हैं। इनके ऊपर हमारा कुछु-न-कुछु पेशगी ही बना रहता है। पेशगी न दें तो काम न करें, क्या करें, लाचार होकर देना ही पड़ता है।

ब्रजविहारी कुछ देर सोचकर बोले—“अच्छा मैं फिर किसी समय आऊंगा ।”

यह कह कर वह शीघ्रतापूर्वक दुकान से बाहर आए और इधर उधर देखने लगे। थोड़ी दूर पर सुशीला की माता राधे को साथ लेप धीरे-धीरे चली जा रही थी। ब्रजविहारी लपक कर उसके पास पहुँचे। पास जाकर उन्होंने वृद्धा से कहा—क्यों माई जी ! तुम कहां रहती हो ?

वृद्धा ने पहले कुछ देर तक ब्रजविहारी को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोली—यहाँ चावल वाली गली में रहती हूँ।

ब्रज०—तुम ज़री का काम बनाती हो ?

वृद्धा—हाँ बेटा ! बनाती तो हूँ। क्या करौं, यह पेट सब कुछ कराता है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसी से पेट पालती हूँ।

ब्रज०—तुम्हारे और कोई नहीं है ?

वृद्धा—एक विधवा लड़की है, और यह लड़का है। और कोई नहीं है।

ब्रज०—मुझे भी कुछ काम बनवाना है। बना दोगी ?

वृद्धा—हाँ ! बना क्यों न दूंगी ? हमारा तो पेट इसी से भरता है।

ब्रज०—पर मुझे अच्छा काम बनवाना है, ऐसा-चैसा काम नहीं ।

वृद्धा—अच्छा मैं बना दूंगी। अभी तीन चार दिन

हुए, गुलाबचन्द को एक नीली मखमल के लंहगे पर ज़री का काम बनाकर दिया है। उसे तुम देखते तो जान जाते कि हम कैसा काम बनाती हैं।

ब्रजविहारी कुछ चौंककर बोले—नीली मखमल का लंहगा ?

वृद्धा—हाँ नीली मखमल का ! उस पर बड़े-बड़े बूटे और बेल बनाई गई हैं।

ब्रज०—कितने दिन हुए ?

वृद्धा—बनाकर दिए हुए अभी तीन ही चार दिन हुए हैं।

ब्रज०—रायसाहब वाला तो नहीं ?

वृद्धा—अब यह तो जानती नहीं। गुलाबचन्द ने बनवाया था, चाहे जिस का दो।

ब्रज०—उस की बनवाई तुम्हें क्या मिली थी ?

वृद्धा—आठ रुपए।

ब्रजविहारी कुछ आश्चर्यान्वित होकर बोले—आठ रुपए ! तो वह न होगा, और कोई होगा। उस की बनवाई के तो चालीस रुपए थे।

ब्रजविहारी ने अपने काम के सम्बन्ध में समझा कर कहा—इसकी बनवाई क्या ले गी ?

वृद्धा—जो गुलाबचन्द देते हैं वही तुम भी दे देना।

ब्रज०—वह क्या देते हैं ?

वृद्धा—इतने काम के पांच रुपए देते हैं।

ब्रजविहारी अत्यन्त विस्मित होकर बोले—पांच रूपए !

बृद्धा—हाँ, पांच रूपए। मैं तुम से भूठ न बोलूँगी।
पांच रूपए देते हैं, कम नहीं देते।

ब्रज—पर वह तो इस की बनवाई.....।

इतना कहकर ब्रजविहारी कुछ भिभके, परन्तु वैसे ही बात का रुख बदल कर बोले—अच्छा तुम अपना घर दिखा दो, मैं तुम्हें सब सामान भिजवा दूँगा।

सुशीला की माता ने ब्रजविहारी का प्रस्ताव स्वीकार किया और उन को साथ लेकर अपने घर पहुँची। घर के द्वार पर पहुँच कर बोली—यहाँ भिजवा देना।

ब्रजविहारी ने जेब से चार रूपए निकाल कर कहा—
गुलाबचन्द से जो कुछ तुम ने कहा था, उससे मुझे पता लगा कि इस समय तुम्हें रूपयों की आवश्यकता है। इसी लिए अपने काम की बनवाई मैं से चार रूपए तुम्हें पेशगी देता हूँ।

बृद्धा रूपए लेते हुए कुछ भिभकी, परन्तु ब्रजविहारी जबरदस्ती उसके हाथ में रूपए रखकर चल खड़े हुए।

उन् ॥

(५)

सुशीला की माता के घर से लौट कर ब्रजविहारी सीधे कृष्णस्वरूप के पास पहुँचे और बोले—कुछ देर के लिए आप मुझे लंडगा दे दीजिए जो परसों बनकर आया है।

कृष्णस्वरूप मुसकरा कर बोले—क्यों ? वैसा बनवाने की इच्छा है क्या ?

ब्रज०—हाँ, कुछ ऐसी ही इच्छा है।

कृष्णस्वरूप ने लंहगा मंगवा दिया।

ब्रजविहारी लंहगा तथा अपने काम के लिए आवश्यक सामान लेकर फिर सुशीला के घर पहुंचे। जाते ही पहले उन्होंने लंहगा दिखला कर पूछा—“यही लंहगा तुम्हारा बनाया हुआ है !”

बृद्धा तथा सुशीला एक स्वर से बोलीं—हाँ ! यही लंहगा है। यह सुनकर ब्रजविहारी के हृदय में चोट लगी। वह सोचने लगे—केवल इस के बनवाने की दलाली में गुलाबचन्द वर्तीस रूपए खा गया और जिन्होंने खुन पसीना एक कर के बनाया, उन्हें केवल आठ ही रूपये दिए।

ब्रजविहारी ने पूछा—यह लंहगा तुमने कितने दिनों में बनाया था ?

बृद्धा ने कहा—पन्द्रह दिन तक हम दोनों मां-बेटी लगी रही थीं, तब जाकर कहीं यह बन पाया था। रात के बारह-बारह, एक-एक बजे तक काम किया है।

ब्रजविहारी के अन्तस्तल से एक आह निकली। उन्होंने सोचा—यदि इनके परिश्रम का आधा लाभ भी मिल जाया करे तो इन की दरिद्रता में बहुत कुछ कमी हो सकती है।

ब्रजविहारी ने पूछा—जानती हो, इस की बनवाई गुलाबचन्द ने क्या ली है ?

बृद्धा ने कहा—हम क्या जानें बेटा ?

ब्रज०—यह एक मेरे मिलने वाले के घर का लंहगा है। गुलाबचन्द ने उन से इसकी बनवाई चालीस रुपए लिए हैं।

सुशीला और उसकी माता दोनों अवाक् द्वाकर ब्रजविहारी का मुँह ताकने लगीं। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर सुशीला एक लम्बी सांस लेकर बोली—“चाहे जो ले हम से क्या ? हमें जो देता है, हम तो उतना ही जानती हैं। इतना देता है, गनीमत है !”

ब्रज०—तो तुम उसके लिए काम क्यों करती हो ? खुद इधर-उधर से काम क्यों नहीं ले आतीं ?

बृद्धा०—हम ने पहले यही कर के देखा था, पर किसी ने हमें नहीं दिया। लोग कहने लगे—तुम्हें हम क्या जानें ? हमारा माल लेकर चल दो तो हम क्या करें ! हमने यह भी कहा कि तुम्हारे घर बैठ कर बना दिया करें, पर इस पर भी कोई राजी नहीं हुआ।

ब्रज०—गुलाबचन्द तुम्हें पेशगी भी देता रहा है ?

बृद्धा—कभी जब बहुत हाथ-पैर जोड़ती हूँ तो दो-चार रुपए दे देता है और कभी नहीं भी देता।

ब्रज०—अच्छा ! मैं अपने काम की बनवाई तुम्हें पन्द्रह रुपये दूंगा। चार रुपये दे चुका हूँ, पांच रुपये यह और लो,

बाक़ी छः रुपए काम बन जाने पर दूँगा । अब एक काम यह करना कि गुलाबचन्द का काम इतनी कम मज़दूरी पर कभी मत करना । कम से-कम इसका ढाई गुना दे, तब करना ।

पांच रुपए के काम के पन्द्रह रुपए—और उस में से नौ रुपए पेशगी मिलते देखकर मां बेटी के नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू भर आए ।

बृद्धा बोली—यह तो बेटा ! तुम ने जो कहा, सो ठीक है, पर गुलाबचन्द ऐसा क्यों करेगा ?

ब्रज०—न करे तो तुम भी उसका काम न करना ।

बृद्धा--काम न करेंगे तो खाएंगे क्या ?

ब्रजविहारी यह सुनकर चिन्ता में पड़ गए । कुछ देर तक सोच कर बोले—इस के लिए तुम मत घबराना मैं तुम्हें काम दिया करूँगा ।

यह कहकर ब्रजविहारी उनसे विदा हुए और सीधे कृष्णस्वरूप के पास पहुँचे । उनसे सारा कच्चा चिट्ठा कह कर बोले—देख ली आप ने गुलाबचन्द की भलमनसी ? आप उसे भला आदमी बताते थे !

कृष्णस्वरूप भी सुन कर चकित रह गए । बोले—मुझे स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि यह इस प्रकार गरीबों के गले काटता होगा ।

ब्रज०—यह इतना मोटा कैसे हुआ ? इसी तरह गरीबों के गले काट-काटकर ! इसी की बदौलत ये लोग इतने बड़े

धन्नासेठ बने बैठे हैं, और गाड़ियों पर चढ़े-चढ़े धूमते हैं। यह तो केवल एक की बात है—सभी ऐसा करते हैं।

कृष्ण०—क्यों जी ! यह अपने सब कारीगरों के गले ऐसे ही काटता होगा ?

ब्रज०—और नहीं तो क्या ? यह तो केवल इन्हीं स्त्रियों का उदाहरण है। उसके पास तो वीस पचास कारीगर होंगे। उस रोज़ आप इन पूंजीवालों का पक्ष ले रहे थे। देख ली इनकी करतूत ? यह तो एक छोटा-सा उदाहरण आप को मिला है। खैर, यह तो जो है, सो है, अब मैंने इस गुलाबचन्द के होश ठिकाने लाने का निश्चय किया है। आप को इस काम में मेरी सहायता करनी पड़ेगी।

कृष्ण०—कहो।

ब्रज०—मेरा विचार एक दुकान खोलने का है। उस में यह नियम रखा जाए कि जो कारीगर जितने का काम करे उसका आधा हिस्सा कारीगर को दिया जाए, और आधा फर्म ले। इसके सिवा साल-भर में जो लाभ हो, उस में से भी उनको कुछ दिया जाए।

कृष्ण०—स्कीम तो अच्छी है।

ब्रज०—अच्छी हो या बुरी, मैं इसे अवश्य करूंगा और इस में आप को मेरी सहायता करनी पड़ेगी।

कृष्ण०—मैं हाज़िर हूँ। जैसा कहोगे, वैसा करूंगा।

इस घटना को सुनकर मुझे भी इन पूंजीवालों से घृणा हो गई है।

(६)

उपर्युक्त घटना के एक महीने बाद 'कृष्ण पेंड कम्पनी पंत्रायडर्स' नाम का एक बड़ा फर्म खुल गया। इस फर्म ने एक नोटिस निकाला, जिस में कारीगरों के लिए काम करने की शत छपी हुई थीं। वे शैतै इतनी सुविधा-जनक थीं कि कृष्ण पेंड कम्पनी को घड़ाधड़ कारीगर मिलने लगे। क्रमशः इसका पता गुलाबचन्द पेंड कम्पनी के कारीगरों को लगा। गुलाबचन्द से उन्हें जो मज़दूरी मिलती थी, उससे कृष्ण पेंड कम्पनी की मज़दूरी का मिलान किया, तो तिगुने का अन्तर पाया। इस हिसाब से गुलाबचन्द के यहाँ जो एक रूपया मिलता था, तो कृष्ण पेंड कम्पनी के यहाँ तीन रुपए मिलने की बात थी। कुछ लोग ऐसे थे जो गुलाबचन्द का पेशगी रूपया खाये बैठे थे। अतएव जब तक वे रुपए अदान कर देते, तब तक गुलाबचन्द का काम करना छोड़ नहीं सकते थे। ऐसों में भी बहुतों ने ऋण लेकर गुलाबचन्द का रूपया अदा कर दिया। जिन्हें ऋण नहीं मिला, उन्होंने अपनी कठिनाई कृष्ण पेंड कम्पनी के सामने रखी। कृष्ण पेंड कम्पनी ने तुरन्त उनका ऋण चुका कर उनको गुलाब-चन्द के पंजे से छुड़ा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गुलाबचन्द के सब कारीगर कृष्ण पेंड कम्पनी के हाथ में आ

गप। गुलाबचन्द ने बड़ी चेष्टा की, कारीगरों को कृष्ण ऐंड कम्पनी के यहां की सारी सुविधाएं देने का प्रलोभन दिया, परन्तु इन लोगों को उससे इतनी घृणा होगई थी कि उन्होंने किसी तरह उसका काम करना स्वीकार नहीं किया। इस का परिणाम यह हुआ कि गुलाबचन्द का काम फ्रेल होगया इधर कृष्ण ऐंड कम्पनी का काम दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति करने लगा। उसके कारीगर चारों ओर उसका गुण-गान करते फिरते थे। इसका प्रभाव जनता पर भी अच्छा पड़ा। जनता को कृष्ण ऐंड कंपनी पर अटल विश्वास हो गया।

(७)

एक वर्ष के बाद की बात है—

‘बेटी सुशीला ! अब तो राधे के व्याह की तैयारी करनी चाहिये ।’

एक छोटे-से; परन्तु साफ़-सुथरे मकान की एक दालान में, एक मोटे गड़े पर बैठी हुई सुशीला कारचोबी का काम कर रही है। पास ही एक चारपाई पर सुशीला की माता माला लिये बैठी है। माला सटकाते-सटकाते एकाएक वृद्धा ने सुशीला से कहा—बेटी सुशीला ! अब तो राधे के व्याह की तैयारी करनी चाहिए।

सुशीला ने मुसकरा कर कहा—अभी से ? अभी तो यह बारह ही बरस का है।

वृद्धा—और क्या बुढ़ापे में व्याह होगा ? मेरी यह अभिलाख (अभिलाषा) है कि मैं राधे की बहू का मुंह देख कर मरूं । मेरे इतने भाग कहाँ जो नाती-पोतों का मुंह देखूँ ?

सुशीला हँस कर बोली—क्यों, भाग होने को क्या हुआ ?

वृद्धा—ना बेटी ! मेरे ऐसे भाग नहीं ।

ठीक उसी समय राधे पुस्तके बगल में दाढ़े स्कूल से आगया, और किताबें एक ओर रख कर बोला—जीजी ! बड़ी भूख लगी है, खाने को दो ।

सुशीला ने काम छोड़ दिया और राधे को भोजन दिया ।

राधे भोजन में जुट कर बोला—जीजी ! आज विरजू बाबू (बज्रविहारी) कहते थे कि जब तू बड़ा होजायगा, तो तुम्हे हम अपनी डुकान पर रख लेंगे ।

सुशीला—फिर क्या, जल्दी २ पढ़ ले ।

राधे—जीजी ! मैं यह दर्जा पास कर लूँगा तो फिर नई किताबें लेनी पड़ेंगी ।

सुशीला—तो फिर क्या हुआ, ले देंगे । अब हमें क्या कमी है ? विरजू बाबू की डुकान बनी रहे और हमारे हाथ पैर चलते रहें, अब हमें किसी बात की कमी नहीं है ।

यह कह कर सुशीला फिर अपने स्थान पर आकर काम करने लगी ।



(१)

नमक-हलाल नौकर

शाम के पांच बज चुके हैं। कीन्स-पार्क में खासी चहल-पहल है। लोग धास तथा बैंचों पर बैठे हुए शीतल, मन्द समीर का आनन्द ले रहे हैं। ऐसे ही समय में एक विकटो-रिया-गाड़ी, जिस में एक बलिष्ठ सुन्दर घोड़ा जुता हुआ था, पार्क के बड़े लान के पास आकर ठहरी। उस में से दो नव-युवक उतरे और पास ही पड़ी हुई एक खाली बैंच पर बैठ गए।

बैंच पर बैठ कर वे आपस में बातें करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर एक मनुष्य जिसकी उमर ५० वर्ष के लगभग होगी, उनके पास आया। उस मनुष्य की मूँछें और सिर के बाल श्वेत हो चले थे। यद्यपि उसका शरीर दुबला था, तथापि ध्यान-पूर्वक देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि अपने यौवन-काल में वह व्यक्ति खूब बलवान् होगा, क्योंकि उसी यौवन-काल के बल का बचा खुचा अंश

अबभी उसके शरीर में विद्यमान था। उस मनुष्य ने पास आकर केवल इतना ही कहा—‘भगवान् भला करे!’ और चुपचाप खड़ा हो गया।

दोनों नवयुवकों ने एक बार उस की ओर देखा, और फिर बातें करने में लीन हो गए।

बह बृद्ध उसी प्रकार मैन खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद नवयुवकों का ध्यान उस की ओर पुनः आकृष्ट हुआ। उन में से एक ने उस से पूछा—क्या चाहते हो? बृद्ध बोला—इश्वर के नाम पर जो कुछ बाबू साहबों की मर्जी हो।

नवयुवक कुछ क्षण तक उस की ओर स्थिर दृष्टि से, देखता रहा तत्पश्चात् बोला—आगे देखो।

बृद्ध—‘भगवान् भला करे’ कह कर आगे चल दिया। उस के कुछ दूर जाने पर दूसरा नवयुवक बोला—यह मनुष्य एक ही बार नाहीं करने पर चल दिया; पेशेवर भिजुकों का तो यह नियम नहीं है, वे तो कुछ लिए बिना अथवा दो-चार खरी-खोटी सुने बिना पिंड नहीं छोड़ते।

पहला नवयुवक बोला—यह बात तो तुम ने पते की कही। इसे बुला कर पूछना तो चाहिए यह कौन है।

दूसरा—मेरी भी यही राय है।

यह कह कर उस ने पुकारा—ओ बुद्धे!

बृद्ध ने धूम कर देखा। नवयुवक ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया।

बृद्ध ठिठुक कर खड़ा हो गया और उन की ओर देखने लगा नवयुवक ने फिर हाथ के इशारे से उसे बुलाया। बृद्ध दम-भर कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात् धीरे-धीरे उन के पास आया।

उसके पास आने पर दूसरे नवयुवक ने पूछा—तुम कौन जाति हो?

बृद्ध ने सिर झुका लिया और दीर्घ, परन्तु दबी हुई, निःश्वास लेकर बोला—ठाकुर।

नवयुवक—कौन ठाकुर?

बृद्ध—बैस।

पहला नवयुवक—ठाकुर तो कुलीन हो। फिर भी भीख मांगते हो।

बृद्ध—पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है।

दूसरा नवयुवक बोला—पेट के लिए मज़दूरी कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो?

बृद्ध—नौकरी लगती नहीं। मज़दूरी होती नहीं।

पहला नवयुवक—क्यों मज़दूरी क्यों नहीं होती?

बृद्ध—मज़दूरी में परिश्रम बहुत पड़ता है। इतने परिश्रम का अभ्यास नहीं।

दूसरा नवयुवक—भीख मांगने में परिश्रम बिलकुल नहीं पड़ता, क्यों न?

बृद्ध का चेहरा लाल हो गया—पता नहीं, क्रोध के मारे अथवा लज्जा के।

पहले नवयुवक ने कहा—भीख मांगना तो महा अधम काम है।

बृद्ध-अधम तो है।

दूसरा—इसके अतिरिक्त भीख मांगने में अधिकतर अपमान होता है।

बृद्ध—मैं अपमान का काम नहीं करता। एक बार सवाल करता हूँ, जिस ने दे दिया, ले लिया, नहीं तो अपना रास्ता देखता हूँ।

पहला—चाहे जो हो, भीख मांगना बुरा है।

बृद्ध—ने सिर झुका लिया, कुछ उत्तर न दिया।

दूसरा—खैर ! जो कुछ हो; तुम नेक मालूम पड़ते हो, इस लिये यह लो।

यह कहकर युवक ने बृद्ध के हाथ में एक रुपया रख दिया। बृद्ध ने रुपया लेकर कहा—आपने जब इतनी दया दिखाई, तो इस से अच्छा यह था कि कहीं नौकरी लगवा देते। मुझे भीख मांगने में जितना दुःख होता है, वह भगवान् ही जानता है।

पहला—तुम शकेले हो ?

बृद्ध—जी नहीं, स्त्री है और एक कन्या।

पहला—इस समय हमें किसी आदमी की आवश्यकता

तो है नहीं, तुम चेष्टा करके देखो। यदि तुम्हें कहीं नौकरी न मिले तो फिर हमारे पास आना।

वृद्ध—पर आप मिलेंगे कहां?

पढ़ला—हम लोग तो नित्य ही यहां आते हैं—या तुम हमारे घर पर आ जाना।

यह कह कर युवक ने अपने मकान का पता बता दिया। वृद्ध ‘भगवान् आप का भला करे’ कह कर चल दिया। वृद्ध के चले जाने के पश्चात् दूसरे युवक ने कहा—तुम्हें तो एक आदमी की आवश्यकता थी।

पढ़ला—थी क्या, अब भी है।

दूसरा—तो इसे रख क्यों नहीं लिया?

पढ़ला—बात यह है कि मैं देखना चाहता हूँ, इसे वास्तव में नौकरी करनी है या नहीं। यदि करनी होगी, तो अवश्य आवेगा और नहीं करनी है, तो नहीं आवेगा।

दूसरा—यह भी ठीक है।

(२)

बाबू शंकरसहाय जाति के कायस्थ और शहर के अच्छे बकीलों में हैं। उनके दो पुत्र हैं। एक की उमर १३—१४ वर्ष के लगभग है, आठवीं क्लास में पढ़ता है, नाम देवीसहाय है। दूसरे यानी ज्येष्ठ पुत्र की उम्र २०-२२ वर्ष के लगभग है; फ़ोर्थ ईयर में पढ़ते हैं, नाम रघुवीर सहाय है। इन्हीं

रघुवीरसहाय ने कींस-पार्क में उस वृद्ध भिज्जुक से कहा था कि
यदि तुम्हें कहाँ नौकरी न मिले, तो फिर हमारे पास आना।

इतवार का दिन था। उस वृद्ध भिज्जुक से रघुवीर सहाय
का साक्षात् हुए नौ दिन व्यतीत हो चुके थे। दोपहर ढल
चुकी थी। बाबू रघुवीरसहाय सोकर उठे थे और बैठे एक
पुस्तक पढ़ रहे थे। उसी समय उन के कहार ने आकर
कहा—बाबू जी! एक बुड्ढा आया है। आप से मिलना
चाहता है।

बाबू रघुवीरसहाय कींस-पार्क वाली वात विलकुल भूल
गए थे। उन्होंने पूछा, कौन बुड्ढा?

कहार—यह तो मालूम नहीं।

रघुवीर—क्या कोई नया आदमी है?

कहार—हाँ, नया है।

रघुवीरसहाय कुछ देर तक सोच कर बोले—अच्छा
बुलाओ।

बुड्ढे ने सामने आकर सलाम किया। उसे देखते ही
रघुवीर सहाय बोले—ओहो! तुम हो! मैं कहता था, कौन
आदमी है। हाँ, तो क्या तुम्हें अभी तक कोई नौकरी
नहीं मिली?

वृद्ध—नहीं सरकार।

रघुवीर—तो तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे?

वृद्ध—क्यों नहीं करूंगा सरकार!

रघुवीर—क्या तनङ्खाह लोगे ?

बृद्ध—तनङ्खाह बनखाह कुछु नहीं, मेरा और मेरे बाल-बच्चों का पेट भरना चाहिए ।

रघुवीर—तो भी कुछु मालूम तो हो ।

बृद्ध—मैं क्या बताऊँ ?

रघुवीर—अच्छा खैर, हम तुम्हें पंद्रह रुपए महीना देंगे ।

बृद्ध—बहुत है । काम सरकार क्या करना होगा ?

रघुवीर—तुम्हारे लायक जो काम होगा ।

बृद्ध—हाँ सरकार इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं ठाकुर हूँ ।

रघुवीर—हाँ ! इस बात का पूरा ध्यान रखेगा जायगा । तुम भी नमक-हलाली के साथ काम करना । यह याद रखो, लोग बहुत समझ बूझ कर नौकर रखते हैं । जब तक कोई भला आदमी सिफारश नहीं करता, तब तक नौकर नहीं रखेगा जाता । हम तुम्हें केवल तुम्हारी ही बात पर रखते हैं ।

बृद्ध—आप की सब बातों के उत्तर मैं मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि मैं असली क्षत्री हूँ ।

रघुवीर—तुम रहते कहाँ हो ?

बृद्ध—सरकार मुझे आप के शहर में आए १०-१२ दिन हुए हैं । धर्मशाला मैं ठहरा हूँ ।

रघुवीर—ओहो ! तुम पहले यहाँ कभी नहीं आए ?

बृद्ध—कभी नहीं ।

रघुवीरसहाय कुछ देर तक सोचते रहे । तदुपरांत बोले—अच्छा तुम अपने बाल-बच्चों को यहाँ ले आओ, तुम्हें रहने के लिए स्थान दिया जायगा ।

वृद्ध—बहुत अच्छा सरकार । तो मैं आज ही आ जाऊँ ?

रघुवीर—हाँ ! आज ही आ जाओ ।

रघुवीरसहाय ने अपने कहार को बुलाकर कहा—देखो ! इन्हें वह कोठरी और दालान, जो खाली पड़ा है, दिखा दो । (वृद्ध से) जाओ, अपनी जगह देख लो ।

वृद्ध चला गया और थोड़ी देर के पश्चात् आकर बोला—ठीक है । मेरे लिए जगह काफ़ी है । अच्छा तो जाता हूँ, शाम तक आ जाऊँगा ।

रघुवीर—जाओ । हाँ ! तुम्हारा नाम क्या है, नाम पूछना तो मैं भूल ही गया था ।

वृद्ध—मेरा नाम सरकार ! शेरर्सिंह है ।

यह कह कर वृद्ध शेरर्सिंह चला गया ।

(३)

शेरर्सिंह को बाबू रघुवीरसहाय के यहाँ नौकर हुए तीन मास हो चुके हैं । अब उसकी दशा अच्छी है, पहले की अपेक्षा शरीर अधिक हुष्ट-पुष्ट है । एक दिन रघुवीरसहाय के मित्र शिवमोहनलाल ने उन से पूछा—कहिए ! शेरर्सिंह कैसा आदमी है ? ठीक काम करता है ?

रघुवीरसहाय सुंह बना कर बोले—क्या कहूँ, बड़ा आलसी आदमी है। सच बात तो यह है कि हम लोगों ने उस का चरित्र समझने में भूल की। इस व्यक्ति से परिश्रम नहीं हो सकता, और हो कैसे? जिस आदमी को भीख मांगने का चसका लग जाता है, उस से परिश्रम का काम हो ही नहीं सकता।

शिवमोहन—यह बात तो ठीक है पर उस समय तो हम लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि यह भीख मांगने का अभ्यस्त नहीं।

रघुवीर—हाँ, पर वह अनुमान गलत निकला।

शिवमोहन—आखिर उसमें दोष क्या है?

रघुवीर—दोष यही कि जितना काम कहा जायगा, आप उतना ही करेंगे। अपनी ओर से कोई काम नहीं करेंगे। यह भी नहीं कि प्रत्येक समय हाज़िर रहें-घर में आराम से पड़े रहते हैं। कभी इच्छा हुई तो धंटे-दो-धंटे के लिए द्वार पर आ बैठे, अन्यथा आवश्यकता होने पर घर से बुलाना पड़ता है।

शिवमोहन—यह तो बुरी बात है।

रघुवीर—अकड़ भी आप में काफ़ी है। ज़रा-सी बात में लोगों से लड़ मरते हैं। बातूनी इतने हैं कि अपने सामने किसी को बोलने नहीं देते। पिता जी तो बड़े असन्तुष्ट हैं। उन्होंने तो कई बार कहा कि निकाल बाहर करो, पर मैं ही

निभा रहा हूँ। एक-आध महीने और देखता हूँ। यदि राह पर आए तो खैर, नहीं तो जवाब दे दूँगा।

शिवमोहन—हाँ, फिर और क्या करोगे ! अच्छा ज़रा उन हज़रत को बुलाओ तो, मैं भी उनकी बातें सुन लूँ।

रघुवीर—अरे हटाओ भी, क्या सुनोगे !

शिवमोहन—तुम्हें हमारी क़सम; ज़रा बुलवाओ।

रघुवीरसहाय ने कहार को आवाज़ दी। कहार के आने पर उस से पूछा—शेरसिंह कहाँ है ?

कहार—क्या जानूँ, दरवज्जे (दरवाज़े) पर तो हैं नहीं, घर मैं पड़े हूँगे।

रघुवीरसहाय शिवमोहन से बोले—देखा आप ने ? इस के पश्चात् कहार से कहा—उन्हें बुलाओ।

थोड़ी देर बाद शेरसिंह अकड़ते हुए आए। सिर पर एक गुलाबी साफ़ा बंधा था। एक मखमल का सफ़ेद कुर्ता पहने हुए थे। धोती भी साफ़ थी। शिवमोहन ने शेरसिंह की शान देखकर मन मैं कहा—निस्सन्देह यह आदमी काम-काज क्या करता होगा ?

शिवमोहन ने पूछा—कहो शेरसिंह ! कहाँ थे ?

शेरसिंह बड़ी लापरवाई से बोला—कहीं नहीं, घर मैं पड़ा था। थोड़ी देर हुई, भोजन किया था। भोजन करने के पश्चात् कुछ देर आराम करना अच्छा होता है। कुछ आदत सी पड़ गई है। भोजन करने के पश्चात् यदि धंटे

दो घंटे आराम न कर लूं तो चित्त प्रसन्न नहीं होता ।

शिवमोहन—इसके पहले कहीं और भी नौकरी कर चुके हो ?

शेरसिंह-सरकार नौकरी तो कई जगह की, पर किसी से पटी नहीं । तीस बरस की उम्र तक तो हम अपने गांव में खेती-बेती करते रहे । ज़मींदार से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया । अपनी किसी से दबकर रहने की आदत नहीं, ठाकुर-बच्चे ठहरे । और दर्बे भी तो क्यों ? लगान सब से पहले मुच्छ पर बसा देते थे, नज़र-बेगार कुछ देते नहीं थे । जब तक उनके पिता जोते रहे, वह कुछ नहीं बोले । बड़े भले आदमी थे, आदमी की कदर (क़द्र) जानते थे । उनका देहान्त होने पर उनके पुत्र गांव तहसीलने लगे । वह थे लौड़; लोगों के कहने-सुनने में आ गए और लगे हम पर रोब जमाने । हम ने सरकार ! आज तक किसी का रोब सहा नहीं । बस एक रोज उन से हमारी कहा-सुनी हो गई । हम ने उन्हें घर के डांट दिया । बस, उसी दिन से वह हमारे शत्रु हो गए । हम ने भी सोचा, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं । न जाने कब बार कर दे । वह ज़मींदार, हम किसान । सब उन्हीं की-सी कहने वाले; हमारी सी कहने वाला कोई नहीं । यह सब सोचकर हम ने ज़मीन छोड़ दी और गांव से चले आए ।

शिवमोहन—फिर क्यों करते रहे ?

शेरसिंह—फिर एक जगह नौकरी की। वह भा ठाकुर ही थे। उनके यहाँ सरकार! हम पंद्रह बरस रहे। वह आदमी को पहचानते थे। इसीलिए इतने दिन उन के यहाँ निभ भी गए। उन के मरने पर हम ने एक दूसरी जगह नौकरी की; पर उनसे हमारी पट्टी नहीं। वह भी छोड़ दी। तब से फिर ऐसा ही रहा कि कहाँ छुः महीने रहे, कहाँ चार महीने। कोई ऐसा आदमी ही न मिला, जो हमारी क़दर करता। पारसाल एक के यहाँ लखनऊ में नौकरी की; उनसे भगड़ा हो गया। तब हम ने यह प्रण कर लिया था कि चाहे भीख मांग खाएं पर नौकरी न करेंगे; करेंगे भी तो ऐसे आदमी के यहाँ, जो हमारी क़दर करे। अब सरकार, आप लोगों की ढेरी में आए हैं। आप लोगों ने दया करके शरण में रक्खा है। निभ जाए, तो अच्छा ही है।

शिवमोहन—तुम निभाना चाहोगे, तो निभेगी।

शेरसिंह—हम तो चाहते ही हैं; पर मुख्य-निभाना आप लोगों के हाथ है। हम हैं घोड़े और वह भी अरबी। अरबी घोड़े महीनों बंधे खाते हैं; पर लड़ाई के मैदान में सारी खिलाई एक दिन में वसूल कर देते हैं। सरकार! ऐसी ही बात है। समझने वाले समझते हैं। नासमझ क्या समझ सकते हैं? उन बातों के कहने से कोई फायदा नहीं, वह समय ही और था।

शिवमोहन शेरसिंह की बातें सुनकर चुप रह गए। अंत में बोले—ठीक कहते हो।

शेरसिंह ने रघुवीरसहाय से पूछा—कुछ काम तो नहीं है सरकार !

रघुवीरसहाय शेरसिंह की बातें सुनकर मन ही-मन कुछ रहे थे। अतएव उन्होंने बड़े रुखेपन से कहा—कोई काम नहीं।

शेरसिंह—तो जाता हूँ सरकार ! धंटे आध धंटे आराम करूँगा।

यह कहकर शेरसिंह चला गया।

रघुवीरसहाय—सुना आप ने ?

शिवमोहन—हाँ सुना। विचित्र आदमी है। बड़ा बातूनी है।

रघुवीरसहाय—जितनी बातें इसने कहीं, उन पर आप विश्वास करते हैं।

शिवमोहन—कुछ समझ में नहीं आता। संभव है, ठीक हों।

रघुवीरसहाय—मुझे तो ज़रा भी विश्वास नहीं। मुझे तो यह आदमी बिलकुल झूठा और ढोंगी मालूम होता है। संभव है, यह कहीं चार छः वर्ष रहा हो; पर किसी आंख के अंधे और गांठ के पूरे के यहां रहा होगा। इस की बातों में आकर उस ने रख लिया होगा; काम कुछ विशेष होगा नहीं, इस लिए निम गया होगा।

शिवमोहन—यह भी संभव हो सकता है। खैर, मेरे जी में एक बात आती है।

रघुवीरसहाय—वह क्या ?

शिवमोहन—यह आदमी बहुत बढ़-बढ़कर बातें बनाता है, अरबी घोड़ा बनता है। एक दिन इस की परीक्षा ली जाए

कोई कठिन काम वता दिया जाए। देखें, यह करता है या नहीं।
 रघुवीरसहाय—अजी यह क्या करेगा, बातों में टाल देगा।
 शिवमोहन—स्वैर, देखना तो चाहिए।

(४)

एक दिन रघुवीरसहाय के मामा के बद्दां से निमन्त्रण आया। रघुवीरसहाय के ममेरे भाई का विवाह था। उसी विवाह में सम्मिलित होने का निमन्त्रण था। रघुवीरसहाय के पिता ने उनसे कहा—मैं तो इतने पहले जा नहीं सकता, दो-चार आवश्यक मुक़दमे हैं। तुम अपनी माँ, बहू और देवीसहाय को लेकर कल चले जाओ। मैं एक-दो दिन के लिए सीधे बद्दी आकर सम्मिलित हो जाऊंगा।

रघुवीरसहाय—साथ मैं नौकर कौन ले जाऊं ?
 शंकरसहाय—कहार के लड्डों को ले जाओ। उससे तुम्हारा काम चल जायगा।

रघुवीरसहाय—बद्दां, चल तो जाएगा।

शंकरसहाय—तो बस ठीक है।

रघुवीरसहाय—कहिए, तो शेरसिंह को भी ले जाऊं।

शंकरसहाय—उसे ले जाकर क्या करेंगे ? बद्दां उसके लिए एक अलग नौकर की आवश्यकता होगी। दूसरे, बरात का मामला है। सभी तरह के आदमी होंगे। बद्दां यदि किसी से लड़ पड़ा, तो और अपयश मिलेगा। वैसे तुम्हारी इच्छा। मेरे तो यह किसी काम का है नहीं; मैं तो उसकी सूरत से

जलता हूँ। तुमने उसे रक्खा है—तुम्हारी इच्छा हो ले जाओ।

रघुवीरसहाय—अच्छा, जैसा उचित होगा, करूँगा।

दूसरे दिन चार बजे शाम की ट्रेन से सब लोगों ने प्रस्थान किया। शिवमोहन के कहने से रघुवीरसहाय ने शेरसिंह को भी साथ ले लिया था। शिवमोहन ने कहा था— अच्छा है लेते जाओ, कुछुन-कुछु काम तो करेगा ही। इस के सिवा दो आदमी साथ रखने से शान रहेगी। चलते समय रघुवीर ने शेरसिंह के हाथ में मोटा लट्ठ देखकर कहा—यह लट्ठ क्या करोगे ले चलके। किसी से फ़ौजदारी करोगे क्या?

शेरसिंह—अजी सरकार! अंगरेज बहादुर ने सब हथियार तो छीन लिए, अब लट्ठ बांधने से भी गए क्या? हम लोगों का तो यही एक सहारा है।

रघुवीर—मगर लट्ठ से अधिक काम तो निकलता नहीं; तलवार-बन्दूक के सामने लट्ठ क्या काम दे सकता है?

शेरसिंह—बन्दूक के सामने तो काम नहीं दे सकता, पर तलवार इसके सामने कोई चीज़ नहीं। ‘पड़ा लट्ठ से काम भूल गई पटेवाज़ी (पटेवाज़ी)’। सरकार, लट्ठ की मार बहुत बुरी होती है। लट्ठ के सामने तलवार या भाला किसी काम का नहीं।

रघुवीरसहाय शेरसिंह को मूर्ख समझ कर चुप होगए।

आठ बजे रात को ट्रेन निश्चित स्टेशन पर पहुँची। स्टेशन से गांव चार कोस के अन्तर पर था। स्टेशन पर दो बद्देलियां और दो लट्ठबन्द आदमी उपस्थित थे।

स्टेशन पर उतरते ही पहला प्रश्न रघुवीरसहाय ने यह उठाया, कि इस समय चलना उचित है या नहीं ? बहेलियों के साथ जो आदमी आए थे, उन्होंने कहा—कोई चिंता नहीं, आप बेधड़क चलें।

रघुवीरसहाय—इधर डाकेवाके तो नहीं पड़ते ?

बे आदमी बोले—नहीं सरकार ! इस समय इसकी चिंता नहीं । डाके पड़ते हैं बारह बजे रात के पश्चात् । फिर हम लोगों का डाकू कर क्या सकते हैं ? अभी तो शाम ही हुई है । दस बजे तक घर पहुंच जाएंगे, आप बेस्टके चलें ।

रघुवीरसहाय ने शेरसिंह से पूछा—क्यों भाई शेरसिंह ! मेरी तो राय यह है कि रात यहीं स्टेशन पर बितायें और सबेरे चलें । तुम्हारी क्या राय है ?

शेरसिंह ने उत्तर दिया—आपको राय ठीक है; मेरी भी यहीं राय है ।

शेरसिंह की बात सुन कर बहेलियों के साथ आए हुए आदमी बहुत हँसे । उन्होंने शेरसिंह से पूछा—तुम कौन जाति हो भैया ?

शेरसिंह—हम तो डाकुर हैं ।

एक आदमी—ओरे राम राम ! डाकुर होकर हतना डरते हो ?

शेरसिंह के ओरों पर एक घृणा-युक्त मुस्किराहट दौड़

गई। उसने कहा-भाई! डर क्यों नहीं? जान सब को प्यारी होती है। दूसरे, स्त्रियों का साथ है।

वही आदमी—तो कोई बात हो तो हमारा ज़िम्मा, तुम चले चलो चुपचाप, रात भर यहां पड़े रह कर क्या करोगे? तकलीफ (तकलीफ़) होगी।

रघुवीरसहाय-भई, जैसा तुम लोग उचित समझो, करो। मैं तो इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं जानता।

वही आदमी—आप चलिए, देर मत कीजिए, देर करने से और रात हो जायगी।

शेरसिंह—चलिए सरकार! ये लोग कहते हैं, तो चलिए। डर क्या है—अभी शाम ही हुई है चांदनी रात है।

शेरसिंह की यह बात सुन कर वे दोनों आदमी हँसकर बोले—हां, अब तुमने ठाकुरपन की बात कही। पहले तो बड़ी बोदी बात कही थी।

शेरसिंह कुछ बिगड़ कर बोला—देखो भई, मेरे ठाकुर-पने की हँसी मत उड़ाओ, नहीं तो अच्छा न होगा। मैं ठाकुर हूँ तो अपने लिये, नहीं हूँ तो अपने लिये। मुझे यहां किसी ससुर से नातेदारी नहीं करनी है।

रघुवीरसहाय कुछ बिगड़ कर बोले—तो यहां लड़ने आए हो? अपना-अपना काम देखो।

वे आदमी बोले—नहीं मालिक! लड़ाई-वड़ाई की कोई

बात नहीं, आपस की बातें हैं। अच्छा, तो अब सवार हो जाइए।

सब लोग सवार हुए। एक बहेली पर रघुवीरसहाय की माता, पत्नी तथा उन का छोटा भाई देवीसहाय सवार हुए। दूसरी पर रघुवीरसहाय तथा कहार का लड़का जिस की उम्र चौदह-पन्द्रह वर्ष की थी, बैठ गए। जो आदमी बहेलियों के साथ आए थे, वे पैदल चले।

थोड़ी दूर चल कर शेरसिंह भी उचक कर रघुवीरसहाय की बहेली पर बैठ गया।

उन दोनों आदमियों में से एक ने शेरसिंह से कहा—क्यों भैया डट गए?

शेरसिंह—ओर क्या, जब जगह है तो क्यों पैर तोड़े?

दूसरे आदमी ने कहा—ओर जो डाकू मिले?

शेरसिंह—मिले तो तुम काढे के लिए हो? तुम्हारे ही कहने से तो हम लोग इस समय चले हैं। मैं बुझदा आदमी ठहरा, मुझ से क्या हो सकेगा?

पहला—कुछ चिन्ता नहीं, आप बे खटके चले चलिए, हमारे रहते आप का कोई कुछ नहीं कर सकता।

दो कोस चलने के पश्चात् एक नदी मिली। यह नदी इस समय सूखी पड़ी थी।

नदी के पास पहुंच कर गाड़ीवानों ने कहा—संभले रहिएगा, इस जगह उतार है।

बहेलियां छुम-छुम करती हुई नदी में उतरीं और दूसरी ओर निकल गईं। दूसरी ओर चढ़ाव था, अतएव बैलों को यथेष्ट परिश्रम पड़ा। उस पार पहुंचने पर गाड़ीवानों ने बहेलियां रोक दीं।

रघुवीरसहाय ने कहा—चले चलो, रुक क्यों गए?

गाड़ीवानों ने कहा—सरकार! ज़रा बैलों को दम ले लेने दीजिए।

बहेलियों को रुके कुछ ही क्षण हुए थे कि नदी के कगारों से आठ-दस आदमी ढाटा बांधे, दाथों में लट्ठ लिए तेज़ी के साथ निकले और डांटकर बोले—बस, खबरदार, जो कुछ पास हो, रखते जाओ।

उन की ललकार सुन कर गाड़ीवान तो कूदकर भागे। वे आदमी जो बहेली के साथ थे, डाकुओं की ललकार सुनकर हत-बुद्धि से हो गए।

इधर शेरसिंह तुरन्त बहेली पर से कूद पड़ा, और रघुवीरसहाय से बोला—सरकार आप चुपचाप बैठे रहिए। मेरे जीत-जी आप लोगों पर आंच नहीं आ सकती। मेरा कहा-सुना माफ़ कीजिएगा। बच गया तो खैर, नहीं तो आप के नमक-पानी से अदा हो जाऊंगा।

रघुवीरसहाय डर के मारे बदहवास हो गए थे। उन के मुख से कोई बात न निकली।

उधर डाकुओं ने उन दोनों आदमियों के एक-एक लट्ठ रसीद किया। पहले तो उन्होंने भी एक-आध हाथ मारा,

परन्तु फिर लट्टु फेंककर भाग खड़े हुए ।

इधर शेरसिंह आगे बढ़कर बोला—जिस ने अपनी माँ का दूध पिया हो, मेरे सामने आए ।

इतना सुनते ही सब डाकू शेरसिंह पर टूट पड़े । कुछ क्षणों तक लाठियों की खटाखट के सिवा न कुछ सुनाई पड़ा और न दिखाई पड़ा । इस के उपरान्त ‘हाय मार डाला’ ‘अरे दैया रे’, ‘हाय राम !’ इत्यादि चाक्य सुनाई पड़े, साथ ही चार-पांच आदमी भद्रभद्र गिरे । पांच मिनट तक यही दशा रही । इस के पश्चात् डाकू लोग भाग खड़े हुए ।

लहू से तर शेरसिंह रघुवीरसहाय के पास आकर बोला— सब भाग गए, नामदै थे, पर मेरा भी काम तमाम हो गया । ओफ ! यह कहकर शेरसिंह गिर पड़ा और बेहोश हो गया । डाकुओं के भाग जाने पर गाड़ीवान और वे दोनों आदमी भी आ गए । देखने पर पांच डाकू बेहोश पड़े पाए गए ।

(५)

शेरसिंह बहुत बुरी तरह घायल हो गया था जीवन की आशा नहीं रही थी । दो महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा; परन्तु अन्त को अच्छा हो गया । जब शेरसिंह चलने फिरने योग्य हो गया, तब एक दिन शंकरसहाय ने उससे कहा— शेरसिंह ! तुम ने हमारे बाल-बच्चों की रक्ता की है, इस का बदला हम इस जीवन में नहीं दे सकते । आज से तुम हमारे भाई हो । तुम्हें जन्म-भर भोजन-वस्त्र और दस रुपए महीना

जेब-खर्च के लिए मिलेगा। तुम्हारे पश्चात् तुम्हारी पत्नी को भी यही मिलता रहेगा।

शेरसिंह बड़ी लापरवाही से बोला—अब्जी सरकार! भोजन वस्त्र की तो मैंने आज तक कभी चिन्ता नहीं की। कद्रदान मिलना चाहिए। खाने के लिए चने भी मिलें, तो मस्त रहूँ।

रघुवीरसदाय बोले—हमको पहले तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने वाले थे, पर तुम्हारी परीक्षा ईश्वर ने करा दी।

शेरसिंह-सरकार! यदि आप परीक्षा लेते तो क्या चिंता थी, और अभी क्या हुआ है, इच्छा हो तो अब परीक्षा ले लीजिए। जो निकल जाऊं तो ठाकुर नहीं तो चमार कहिएगा। हम तो जिसका नमक-पानी खाते हैं उसी को अपने प्राण सौंप देते हैं। जब उसका जी चाहे ले ले।

यह कहकर शेरसिंह मूँछूँ पर ताब देता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर रघुवीरसदाय बोले—मनुष्य-चरित्र एक ऐसी पहेली है, जिसे कभी कोई हल नहीं कर सकता।

शंकरसदाय बोले—निस्सन्देह, जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का रंग-रूप एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार चरित्र भी। कोई कहां तक जाने और कहां तक समझे?

पं० ज्वालादत्त शर्मा

आप का जन्म सन् १८८८ ई० में सुरादाबाद में हुआ। आप संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी और हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। उर्दू के सुविळ्यात कवियों पर आप ने हिन्दी में कई आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं जिन्हें हिन्दी-भाषा-भाषियों ने बहुत प्रसन्न किया है। पं० जी की कहानियां सरस्वती आदि उच्च कोटि की पत्रिकाओं में उस समय प्रकाशित होती थीं, जब कहानियों का रिवाज हिन्दी में बहुत कम था। पं० जी की वर्णन-शैली और भाषा शुद्ध, सरस और प्रशंसनीय है। समाज के करुणा-जनक दृश्य दिखाने में आप बहुत निपुण हैं। इधर कई वर्षों से आप ने व्यापार में एड़ कर लिखना कम कर दिया है, यह हिन्दी का दुर्भाग्य है।

विधवा

(१)

राधाचरण की अकाल मृत्यु से उस के चचा-चाची को बहुत शोक हुआ। किन्तु अभागिनी पार्वती के लिए तो संसार ही अन्धकार-मय हो गया। उस के लिए तो संसार में आशा, उत्साह और सुख का सोलहो आने नाश होगया। उसने इस घोर दुःख को, इस अनध्र वज्रपात को, दिल का खून कर के, किसी तरह सहन किया। वह न रोई, न चिज्जाई। उसने इस असह्य दुःख को मन की पूरी ताकत से चुपचाप सहन किया। शोक के भारी बोझ से पार्वती का सुकोमल मन निस्सन्देह चूर-चूर हो गया। किन्तु विधि के इस विपरीत विधान में किसी का क्या वश था !

राधाचरण के चचा रामप्रसाद औसत दर्जे के आदमी थे। राधाचरण के पिता, गुरुप्रसाद का देहान्त, जब उसकी अवस्था पांच वर्ष की थी, तभी होगया था। सुनीति माता भी, पति की मृत्यु के एक वर्ष बाद ही, स्वर्गलोक-गामिनी

हो गई थी। इस लिये बालक राधाचरण का पालन-पोषण चचा रामप्रसाद और उनकी पत्नी हरदेवी ने ही किया था। उनके पास कुछ पैतृक मिलकियत थी, जिस की आमदनी से घर का खर्च चलता था। रहने को पक्का मकान था। पर इस पैतृक मिलकियत और रहने के मकान में-जायदाद के ज्यय-रोग-कर्ज़े के कीटाणुओं ने प्रवेश कर लिया था। राम-प्रसाद ने अपनी कन्या चमेली के विवाह में शहर के मूर्ख और निठले आदमियों के मुंह से चिकनी-चुपड़ी बातें सुनने के लिए बहुत रुपया बरवाद किया था। विवाह के बाद, कोई एक सप्ताह तक, पक्कान की सुगन्धि के साथ-साथ राम-प्रसाद की इस मूर्खता-पूर्ण उदारता की बूझी मुहज्जे में सर्वत्र, और शहर में यत्र-तत्र, फैल रही थी। खस्ता कचौरी, मोती-चूर के लहौ, गोल बालूशाही, कुरकरी इमरती और मसालेदार तरकारियों के साथ-साथ नये चमकते हुए 'इन्डुसम उज्ज्वल' रूपराज दक्षिणा की बात जहां-तहां होती थी। किन्तु रामप्रसाद के यश की उस स्निग्ध चांदनी में, उसके विमल यश की सफेद चादर में, कोई कलंक न हो, कोई धब्बा न हो सो बात नहीं। दुष्ट समालोचक, जिन्होंने ज्योनार में कई दिनों पहले से अल्पाहार करते रहने के कारण, बुरी तरह खस्ता कचौरी और मेवा मिली मुल्यम मिठाइयों का ध्वंस किया था, अपने दुष्ट, पर प्रकृतिदत्त स्वभाव से मजबूर हो कर बाल की खाल निकालने और रामप्रसाद की दूध की

गंगा में विष मिलाने लगे। कोई कहता था—कचौरियों में
मोयन कम डाला गया और कोई बताता था कि शाक में
नोन ज्यादा हो गया था। कोई लड्डुओं की बूंदी को ठोस,
तो कोई वेसन की बरफी को सख्त करार देता था। मतलब
यह कि रामप्रसाद की मूर्खता का आद्द करने वाले नर-
पुङ्गवों की भी कमी न थी। किन्तु घरों की मालकिनें जिन्होंने
अपने बच्चों से रुपए छीनकर बढ़ुओं में भर लिए थे और इस
तरह एक अनिवाचनीय आनन्द का अनुभव किया था, राम-
प्रसाद की प्रशंसा अपनी प्रलयङ्करी बुद्धि की सहायता से
शत-शत मुख से कर रही थीं। इस प्रशंसा रूपी बीमारी का
दौरा भी एक महीने से अधिक न रहा। हलवाइयों के हिसाब
के साफ़ होते ही लोगों के बेकार अथवा खाली दिमाग भी
इस खब्त से खाली हो गए। छः मास के बाद, रामप्रसाद के
उकसाने पर भी किसी को लड्डुओं की बूंदियों में तरावट
मालूम न होती थी कोई उस विषय का उत्थान न करता था।
इससे रामप्रसाद की श्लाघा सुनने की अभिलाषा पर तुषार-
पात हो जाया करता था, किन्तु उसकी आशालता को
पक्षित करने वाला सूदखोर छज्जूमल महाजन ‘पड़ोस’ का
दक्क, करीब-करीब रोज़ निभा देता था।

जिस साल रामप्रसाद की लड़की चमेली का विवाह हुआ
था, उसी साल राधाचरण बी० ८० में तीसरे नम्बर पर पास
हुआ था। राधाचरण को स्कूल से ही उसकी योग्यता के

कारण, छात्रवृत्ति मिलती थी। पर बी० ए० की फ़ीस और किताबों के लिए चचा रामप्रसाद ने १५०] उसे ज़रुर दिए थे। उसी साल 'गरीब नवाज़' लाला छुज्जूमल ने यथा नियम अगले-पिछले जोड़कर रामप्रसाद से पांच हज़ार रुपया की दस्तावेज़ लिखाकर उस की 'इज़ज़त' बचाई थी। कोई तीन हज़ार रुपये उस ने अपनी लड़की के विवाह में स्वादा किए थे। किन्तु कर्ज़ का प्रसङ्ग उठते ही रामप्रसाद भर्तीजे की पढ़ाई का उल्लेख करते थे। उनके हिसाब से यदि राधाचरण न पढ़ता तो उन्हें ऋणी न बनना पड़ता। छोटी-छोटी बातों पर रामप्रसाद राधाचरण से कहते—'अभी तूने मेरी क्या सेवा की है? एक साल से पचास रुपए महीने कमाने लगा है। मुझे देख तेरी पढ़ाई के कारण ही तबाह हो गया। इतना देना हो गया।'

सुशील राधाचरण अपने मूर्ख चचा की बात का उत्तर न देता था। नीची गर्दन कर के बह सब कुछ सुन लेता था।

राधाचरण की मृत्यु से चचा और चाची को वेशक बहुत बड़ा दुःख हुआ, पर दुःख की उस तीव्र आग से जलते हुए भी रामप्रसाद ने राधाचरण के कारण कर्ज़दारी का ज़िक्र करने की प्रवृत्ति को सुरक्षित रखा।

(२)

शोक की प्रवल लहरों में बही जाने वाली रामप्रसाद-

दम्पती ने अपने घेवते का सहारा पाकर बहुत कुछ शांति लाभ किया। भाद्रपद की वर्षा के बाद जिस तरह सूर्य और अधिक असत्य हो उठता है उसी तरह शोक-सागर में स्नान करके रामप्रसाद-दम्पती का कठोर हृदय और अधिक सङ्गत हो गया। अब वे बात-बात में कहते थे—‘राधे हमें मार गया! वह हमारा भर्तीजा नहीं, शत्रु था। हमें बरबाद करने आया था।’

पार्वती शोक-महानद की जिस प्रबल लहर में वही जा रही थी उस में तिनके का भी सहारा नहीं था। वह थी और अनन्त शोक की अनन्त लहर थी। उस के लिए भाद्रपद के तरण सूर्य की प्रखर धूप उत्ताप-हीन थी—प्रकाश-हीन थी। शरत्काल के लुभावने चन्द्रमा की ठंडी चांदनी उस के लिए सूर्य की धूप से कहीं अधिक प्रखर थी। उस के मन में शोक की प्रचण्ड अग्नि धू-धू जल रही थी। बाहर रामप्रसाद-दम्पती का कठोर व्यवहार उस अबला को बेदम किये देता था। शोक की अनन्त ज्वाला में, अनन्त विरह के प्रचण्ड अनल में, निराशा के घने अन्धकार में, उपेक्षा के दुर्गन्धिपूर्ण संसार में—सब कहीं—उसे परलोकगत पति का पूत और पवित्र मुखपद्म दिखाई देता था, मानो वह उस से मौन भाषा में कहता था—‘प्रिये पार्वती, धैर्य धारण करो त्रिताप दग्ध संसार में जब तक हो, जैसे बने काल-यापन कर लो। स्वर्ग में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें

अबश्य मिलूंगा । क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ ।

पार्वती का छुलनी की तरह छिदा हुआ हृदय शान्त हो जाता था । रामप्रसाद-दम्पति का कठोर व्यवहार उसके लिए सुकोमल हो जाता था । संसार भी उसकी दृष्टि में उतनी धृणा का पात्र नहीं रहता था; उस पर से उसकी विरक्षि की मात्रा कम हो जाती थी । संसार के अन्तरिक्ष में ही, इसी संसार के आकाश में ही, उसके परलोकवासी पति के प्रभा-पूर्ण मुख का प्रतिविम्ब मध्याकाश में न सही, हृदयाकाश में ही सही—दिखाई पड़ता था । इसलिए संसार उसके लिए उतना हेय नहीं रहता था; कुछ काम की चीज़ हो जाता था ।

सास के कुलिशसम कठोर वाक्यों और उस से भी बढ़ कर पश्च-तर पार्थिव व्यवहारों को वह अनायास सह लेती थी । मृत्यु शय्या पर पड़े पति के ज्योतिर्हीन नेत्रों का कातर भाव उसे कभी न भूलता था । उसके आखिरी शब्द—‘प्रिये पार्वती—’ आज भी उसके कानों में गूँज रहे थे । उस कातर भाव की शब्द-हीन भाषा का मर्म भी उसने ठीक ठीक समझ लिया था । चचा-चाची का कठोर-स्वभाव और पार्वती के पौसाल की शोचनीय अवस्था ही उस कातर भाव का प्रधान उपादान थी ।

पार्वती हिन्दी-मिडल पास थी । राधाचरण ने बड़े आग्रह से उसे अंगरेजी भी पढ़ाई थी । उसका विचार था कि वह

उस से प्रवैशिका परीक्षा दिलाएगा, किन्तु उसकी अकाल मृत्यु ने, बहुत सी अन्य बातों के साथ, इस विचार को भी कार्य में परिणत न होने दिया।

पति की मृत्यु के बाद अभागिनी पार्वती को पुस्तक छूने का मौका ही न मिलता था। घर में उसकी कोई सत्ता ही न थी। सास राधाचरण की मृत्यु का कारण उसे ही समझती थी। पार्वती अन्न पीसती है, चौका-बरतन साफ करती है, भोजन बनाती है, किन्तु फिर भी सास-ससुर की सहानुभूति का पात्र नहीं बनती—फिर भी उनके मुंह से कभी मीठी बातें नहीं सुनती। सुनती है कर्जदारी का कारण अपने दुर्भाग्य की गाथा और कभी-कभी गूढ़ प्रेम के परदे में पति की निन्दा।

पार्वती को कुटिलता-पूर्ण संसार में सहानुभूति का चिह्न कहीं दिखाई न देता था। उसके एक चचेरा भाई था, वह कहीं चपरासी था। पर था विवाहित। इसलिए शरीबी के फलों—सन्तान की बहुतायत से माला-माल था। अत्यन्त गर्मी पड़ने के बाद वर्षा होती है। बहुत तप चुकने पर धराधाम जल की अनन्त धाराओं से प्लावित हो जाता है। पार्वती ने भी निराशा के घोर अन्धकार में, सास ससुर के कठोर व्यवहार रूप नरक में, उपेक्षा के समुद्र में, शोक के महासागर में ध्रुव तारे का दर्शन किया। उसे देख कर दिग्भ्रष्टा पार्वती ने कर्त्तव्य-पथ का निश्चय कर लिया। सामने खड़ी

अलमारी में भरी हुई पुस्तकें उसे मानो अपनी-अपनी भाषा में सान्त्वना देने लगीं। वे कहने लगीं—पार्वती, तू लिखी-पढ़ी है, हम तेरी साथिन हैं। दुःख में, शोक में, सन्ताप में सदा-सर्वदा-हम तेरी साथिन हैं। हमें घृणा करना नहीं आता, उपेक्षा करना नहीं आता। हम से भले कोई दिक्क हो जाए, हम किसी से दिक्क नहीं होतीं। पुस्तकों की विभिन्न, पर मौन, भाषा को उस ने साफ़ साफ़ समझा। उस के भग्न-हृदय में शान्ति की अस्फुट किरण का उदय हुआ। अलमारी की चुनी हुई किताबों में उस ने साक्षात् अभयदा सरस्वती के दर्शन किए। बहुत समय के बाद मानों मा सरस्वती के इशारे से ही उस ने अलमारी में से एक पुस्तक निकाली। पुस्तक थी सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार स्माइल्स साहब की 'Self-Help' या आत्मावलम्बन। चटाई पर बैठ कर पार्वती उसे पढ़ने लगी।

पुस्तक के अभी दो-ही-चार पृष्ठ पढ़े होंगे कि रामप्रसाद की छी बहां आ पहुंची। पार्वती को पुस्तक पढ़ते देखकर उस के शरीर में आग लग गई। उस ने अपने अभ्यस्त अनेक कुछ क्यों का विष उगल कर अन्त में कहा—‘पुस्तके पढ़कर ही तू राधे को चट कर गई। तू नार नहीं नागन है। भगवान्। मेरे घर में ऐसी डायन कहां से आ गई! वह था-तबाह कर गया; तू है—तबाह करने की फ़िक्र में है।’

हिरन के बच्चे पर शेरनी को गुर्रता देखकर जिस तरह

उस का प्रणयी शेर भी गरजने लगता है, उसी तरह राम-प्रसाद भी गरीब पार्वती पर टूट पड़ा। उस ने भी स्वस्ति-वाचन के बाद कहा—ठीक तो कहती हैं। यह नार नहीं, नागन है। कहीं को मुँह काला भी तो नहीं करती। मैं ऐसी नागन को पालना नहीं चाहता। उसे खा गई। अब मुझे खाएगी क्या?

इधर रामप्रसाद बक रहा था, उधर पार्वती के हृदय में अनेक तरंगें उठ रही थीं। उन्हीं तरङ्गों में उस ने अपने पति राधाचरण के दर्शन किए। इस समय उस की आँखों में कातरता के साथ-साथ दुःख भी था, विषाद भी था और अभागिनी पार्वती के लिए थी—गहरी सहातुभूति। स्माइल्स साहब की आत्मा की अबला पार्वती को पुस्तक के रूप में खूब बल प्रदान कर रही थी। पार्वती ने पुस्तक को बंद कर दिया। पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर सोने के अक्षरों में छुपा 'Self-Help' के मनोहर शब्द पार्वती के अश्रु-पूर्ण नेत्रों को अपनी ओर खींचने लगे।

(३)

दूसरे दिन प्रातःकाल पार्वती ने बड़ी शान्ति से अपनी सास को समझा दिया, कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। आप उसे एक चिट्ठी लिखवा दीजिए।

सास को मनचाही बात हाथ लग गई, उस ने उसी

समय स्त्री-जन-सुलभ नमक मिर्च लगाकर अपने पति राम-प्रसाद से कह दिया। उन्होंने पहले तो 'हाँ' 'हाँ' की। फिर धर्म और स्वभाव की साथिनी स्त्री के कहने सुनने पर सुखदयाल को एक चिट्ठी लिख दी।

चार दिन बाद वह चली जाएगी—इसलिए वह के साथ अधिक कठोर व्यवहार न करना चाहिये, यह सोचकर राम-प्रसाद-दम्पती का व्यवहार पार्वती के साथ अपेक्षाकृत अच्छा हो गया है। घर के कामों के साथ अब उसे गालियों का बोझा सहन नहीं करना पड़ता। पर कर्जदारी के कारण काज़िक यथा-नियम प्रतिदिन एक-दो बार हो जाता है।

राधाचरण को मरे अभी पूरा एक वर्ष भी नहीं हुआ था। इसी थोड़े समय में ही घर की हरएक चीज़ पार्वती के लिए बिलकुल बदल गई थी। घर के आदमियों के साथ घर के दरोदीवार भी उसे काटने दौड़ते थे। मूल्य समाप्त न होने के कारण अभी तक उस के नाम कुछ समाचार-पत्र आते थे। पार्वती समय मिलने पर उन्हें पढ़ लेती थी। आज के 'हितकारी' में उस ने 'आवश्यकता'—के स्तम्भ को बहुत ध्यान से पढ़ा।

तीसरे दिन जवाब आ गया कि शनैश्चर की रात को सुख-दयाल बहन को लेने के लिए आवेगा। बृहस्पतिवार को पत्र मिला था। पार्वती को सिर्फ़ दो रोज़ का मिहमान समझ कर सास और ससुर का कठोर हृदय और ढीला पढ़ गया। पार्वती

की सेवा और उस के कभी न डिगने वाले शीत में उन्हें अब बहुत कुछ भलाई दिखाई देने लगी। विच्छेद के विचार ने निस्सन्देह उनकी मानसिक कल्पता को बहुत कुछ दूर कर दिया।

काल भगवान् किसी की उपेक्षा नहीं करते। सूर्य के रथ का धुरा कभी नहीं टूटता। काल भगवान् के प्रधान सहचर सूर्यदेव सुखी; दुखी-सभी को पीछे छोड़ते हुए रथ बढ़ाते चले ही जाते हैं। शनैश्चर की रात को सुखदयाल—दैन्य और दारिद्र्य की मूर्ति सुखदयाल आ गया। बहन को गले लगाकर वह बहुत रोया। दूसरे दिन प्रतःकाल की देन से वह पार्वती को लेकर घर को रवाना हो गया।

पार्वती ने चलते समय सिर्फ़ अपने पति की पुस्तकों का एक टुकड़ा अपने साथ लिया। बाकी न कोई ज़ेवर और न दो धोतियों को छोड़कर कोई कपड़ा। भरा हुआ घर, जो उस के लिए पहले ही से खाली हो चुका था, उस ने भी खाली कर दिया। चलते समय सास ने ऊपरी मन से जल्द आने के लिए कहा और खी-जन-सुलभ अशु-वर्षण का परिहास भी दिखाया।

पार्वती ने निष्कपट मन से जिस समय सास के चरण छुए, उस समय गरम-गरम आंसुओं की कुछ बूँदों ने भी हरदेवी के चरण छूने में उसके साथ प्रतियोगिता की।

(४)

पार्वती के आने से सुखदयाल की गरीबी का, पैटक, और इसी से पक्का, घर स्वर्ग बन गया । उसके बालक जो निर्धनता के कारण शिक्षा न पा सकते थे बुआ पार्वती से पढ़ने लगे । सुखदयाल की बड़ी लड़की शान्ति उस से हिन्दी शिक्षा के साथ साथ सिलाई का काम सीखने लगी । थोड़े ही दिनों में पार्वती और शान्ति को सूई के प्रताप से कुछ कम दो रुपये रोज़ की आमदनी होने लगी । पार्वती के कहने पर सुखदयाल पक अच्छी गाय खरीद लाया । अब उसके घर में सब कुछ था । विद्या थी, धन था और गोरस था । सुखदयाल की स्त्री चमेली पार्वती को अपनी समृद्धि का मूल कारण समझती थी । वह उसे साक्षात् देवी समझती थी । प्रातःकाल उठ कर उसके चरण छूती थी । घर का हर काम उसकी आङ्गा लेकर करती थी ।

एक वर्ष बीत गया । पार्वती हिन्दू-गर्ल्स स्कूल में हिन्दी पढ़ाती है । इसी वर्ष उसने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ली है ५०) मासिक वेतन मिलता है । अब सुखदयाल के बालक, जो एक वर्ष पहले लाचारिस और अचारा धूमते फिरते थे, अब साफ कपड़े पहन कर भले बालकों की तरह बगल में पुस्तकें दबाए स्कूल जाते हैं । लड़की शान्ति भी पार्वती के साथ स्कूल में काम करती है । देवि स्वरूपिणी वहन पार्वती की बदौलत सुखदयाल ने भी चपरासगिरी के कर्कश हाथों से

बुटकारा पाकर सौदागरी की दुकान खोल ली है।

सुखदयाल का घर भी अच्छा खासा वालिका-विद्यालय था। महल्ले भर की छोटी बड़ी अनेक लड़कियां स्कूल से इतर समय में पढ़ने और सूई का काम सीखने आती थीं। विद्यादान का द्वार सदा उन्मुक्त रहता था। पार्वती के परोपकार आदि सद्गुणों की प्रशंसा महल्ले से बढ़कर शहर भर में फैल गई थी।

चार बर्ष और बीत गए। पार्वती ने प्राइवेट तौर पर पहली कक्षा में बी० ए० पास किया। रायपुर के कलेक्टर की पत्नी ने अपने हाथ से पार्वती की सफेद साड़ी पर प्रतिष्ठा-सूचक मेडल पहनाया। हिन्दू गलर्स-स्कूल की प्रधान अध्यक्षा (लेडी प्रिन्सिपल) के पद पर (जिसकी शोभा, उपयुक्त हिन्दू परिणता के न मिलने के कारण, अब तक क्रिश्चियन लेडियां बढ़ाती रहीं) परिणता पार्वती का यशोगान होने लगा। वेतन भी एकदम २५० होगया।

(५)

रविवार का दिन था। स्कूल के बड़े कमरे में प्रबन्ध कारिणी समिति के सभ्यों की अन्तरंग सभा हो रही थी। मेम्बर सभी लियां थीं। राय रामकिशोर बहादुर की पत्नी जो स्कूल की आनंदरी सेकेटरी थीं, प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक विषय पेश कर रही थीं। रायबहादुर की पत्नी ने कहा—

अब मैं आज की बैठक का अन्तिम विषय अर्थात् चपरासी के काम के लिए आई हुई दरखास्तें पेश करती हूँ। मेरी सम्मति में जिन लोगों की दरखास्तें हैं, उन्हें विना देखे नौकर रखना ठीक न होगा। चपरासी बूढ़ा तो होगा ही, पर साथ ही साथ चिड़चिड़ा या ढुबल भी न होना चाहिए, और यह ऐसी बात है जो विना देखे ठीक नहीं हो सकती। अब मैं इस विषय में आप की या बाई जी की (मतलब था प्रिन्सिपल पार्वती से) जैसी आशा हो वैसा करूँ।

उपस्थित अन्य तीन महिलाओं ने एक स्वर से कहा—
इस विषय में बाईजी की आशानुसार ही काम होना चाहिए, क्योंकि बाई जी की आशाएं बहन करने और दरबानी के लिए ही चपरासी की नियुक्ति होगी।

पार्वती ने अपने शान्त, पर प्रभा पूर्ण मुख-कमल को खिलाते हुए कहा—मैं रायबद्दादुर की पत्नी से सहमत हूँ। आदमी को देखकर ही रखना अच्छा होगा। मनुष्य के चेहरे से उस के गुणदोषों का बहुत पता लग जाता है। उस दिन ‘रैशनल थाट’ में मिस्टर अरणडेल का, आप ने सेक्रेटरी महोदया ! इसी विषय पर एक लेख पढ़ा था।

रायबद्दादुर की पत्नी ने कहा—पढ़ा तो था। पर समझा था कम। आजकल आप का पूरा समय और शक्ति ‘विधवा-आश्रम’ की स्थापना में लग रही है। इस तरह आप देश की बड़ी भारी सेवा कर रही हैं। आप का कुछ भी समय

खाली होता तो मैं आप से अंगरेजी-साहित्य का थोड़ा बहुत अध्ययन करके अपनी इस कमी को ज़रूर पूरा करती। पर मेरे मूर्ख रह जाने से देश की विधवाओं की दुःख भरी शोच-नीय अवस्था को सुधार देने वाले 'विधवा-आश्रम' की स्थापना कहीं बढ़कर आवश्यक और एकान्त कर्तव्य है।

पार्वती ने मुस्कराते हुए कहा—धन्यवाद। आप की सहायता और ईश्वर की कृपा से ही यह काम पूरा हो सकेगा। आप सुनकर प्रसन्न होंगी कि हमारे प्रजा-प्रिय छोटे लाट महोदय ने हिमालय पार्श्व के उस बड़े भू-खण्ड को विधवा-आश्रम के लिए देने की कृपा की है। चन्दा भी कुछ कम एक लाख हो गया है। ईश्वर की कृपा दुई तो अब यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

रायबद्धादुर की पत्नी ने बड़े हृषि के साथ कहा—अब काम के पूरा होने में कुछ सन्देह नहीं। जिस दिन आप ने आश्रम के लिए अपना जीवन देने का महा प्रण किया था हमें क्या, देश के सभी हितैषियों को, उसी दिन काम के पूरा होने का पका भरोसा हो गया था।

पार्वती ने बड़ी सरलता से कहा—बहन, धन्यवाद। हाँ तुम्हारी अंगरेजी-साहित्य पढ़ने की बात रही जाती है। उस के विषय में मेरा निवेदन है कि आप रायबद्धादुर से पढ़ें। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर शिक्षक और कोई नहीं। लड़कियों को तो माता-पिता या अन्य कोई शिक्षक पढ़ा

सकता है। पर ख्यायों का, या साहित्य की भाषा में प्रौढ़ाओं का परम गुरु और शिक्षक पति ही है। आशा है आप मुझे इस वक्तव्य के लिए क्षमा करेंगी।

रायबहादुर की पत्नी ने सौजन्य दिखाते हुए लेडी प्रिन्सिपल का धन्यवाद किया और साथ ही सभा का कार्य भी समाप्त कर दिया।

(६)

कंगाल भारत की विभूति का कलिपत स्वप्न देखकर आज भी अनेक विदेशी चौंक उठते हैं। किन्तु जिन लोगों ने भारत के गांव देखे हैं, एक-वस्त्रधारी कृषक-काय अस्थि-चर्मा-वशिष्ठ भारत-गौरव किसानों को देखा है वे भारत की विभूति को खूब समझते हैं।

गल्स्स-स्कूल में आठ रुपए की चपरास के लिए इतने आदमी आवेंगे—किसी को ख्याल भी न था। अनेक बूढ़े आदमी पांत बांधे बैठे थे। रायबहादुर की पत्नी और सेकेरड मिस्ट्रेस सुशीला देवी ने उस भीड़ में से चार आदमियों को चुन लिया। इन्हीं में से एक को बड़ी बाई जी चुनेंगी। हिन्दू-गल्स्स-स्कूल में परदे और सदाचार का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी लिए किसी नौकर की नियुक्ति के विषय में बहुत सावधानता से काम लेना पड़ता है। स्कूल भर में सिर्फ चपरासी का काम ही बूढ़े मर्द के सिपुर्द था। बाकी सब कामों पर ख्यायां ही नियुक्त थीं।

दस बजते-बजते लेडी प्रिन्सिपल की गाड़ी स्कूल के बरामदे में पहुंच गई। विभिन्न कक्षाओं की विभिन्न पंक्तियों में खड़ी बालिकाओं ने बड़ी अख्ता से प्रधानाध्यापिका को प्रणाम किया। गाड़ी से उतर कर वे सीधी आफिस में पहुंची। रायबढ़ादुर की पत्नी वहां पहले ही से उपस्थित थीं। प्रिन्सिपल के पहुंचने पर दासी ने बारी-बारी से उन चारों आदमियों को बुलाया।

पहले आदमी को देखते ही पार्वती के विस्मय का ठिकाना न रहा। वह बूढ़ा आदमी और कोई न था—अभाग रामप्रसाद था। उसे देखकर परिणिता पार्वती के हृदय में जल्द भर के लिए लज्जा का उदय हुआ। किन्तु उसने तत्काल ही अपने को संभाल लिया।

सौ मील की दूरी पर आठ रुपए की नौकरी के लिए वह क्यों आया है? मालूम होता है, उनकी मिलकियत और मकान चाढ़कार पड़ोसी सूदखोर की विशाल तोंद में जरूर समा गया है। रामप्रसाद के मलीन और चिन्तित मुख को देखकर करण-हृदया पार्वती के मन का अन्तस्थल तक हिल गया। उस ने दूसरी तरफ को मुंह करके अनमने भाव से सन्देह निवारण के लिए पूछा—आप का नाम?

‘रामप्रसाद पाण्डे।’

‘मकान?’

‘बिलासपुर।’

‘इतनी दूर नौकरी के लिए क्यों आए ?’

‘मां, पेट की खातिर !’

‘घर पर खेती बारी न थी।’

‘मां सब कुछ था; खेती क्या, ज़र्मांदारी भी थी।’

‘वह क्या हुई ?’

‘कर्ज़ में विक गई।’

‘कर्ज़ क्यों लिया था ?’

‘मां, दुःख की बातें हैं उन्हें भूल जाना ही अच्छा है।’

‘फिर भी सुनाइए तो ?’

‘भतीजे की पढ़ाई के लिए।’

‘और क्या ?’

‘और कुछ नहीं—’

‘लड़की की शादी में तो फिजूलखर्ची नहीं की थी ?’

बूढ़े का चेहरा उतर गया। उस ने पार्वती का चेहरा कभी न देखा था और अब तो विद्या, मान और अधिकार की दीपि ने उसे बिलकुल ही बदल दिया। बूढ़ा बाई जी को मन ही-मन देवी समझने लगा। रायबद्दादुर की पहाड़ी भी इस प्रश्नोत्तरी को एकाग्र मन से सुन रही थीं।

‘मां, तुम देवी हो। सचमुच लड़की की शादी में ही बरबाद हुआ हूँ।

‘तो भतीजे के पढ़ाई के लिए कुछ न कुछ रूपया कर्ज़ लेना पड़ा होगा ?’

‘मां सिर्फ डेढ़ सौ रुपये !’

कहते-कहते बूढ़े के कोटर-लीन नेत्रों में आंसू भर आए।
‘अच्छा आप बाहर बैठिए ।’

बाकी तीन आदमियों में से एक आदमी चुन लिया गया। बूढ़ा रामप्रसाद उसी समय लेडी प्रिसिपल के बझले पर पहुंचाया गया।

आठ रुपए की नौकरी के लिए आए हुए रामप्रसाद को बझले के नौकरों ने जब मालिक की तरह ठहराया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ।

शाम को भोजनोपरान्त पार्वती ने पूछा—

‘आप मुझे पहचानते हैं ?’

‘मां, आप स्कूल की बड़ी बाई हैं ।’

‘मैं आप के भतीजे की अभागिनी खी हूँ ।’

बूढ़े की निद्रा टूट गई। उसे मूँछा आने लगी, पार्वती की भतीजी शान्ति ने संभाल लिया।

पार्वती ने बहुत चाहा कि रामप्रसाद यहाँ रहे। पर वह किसी तरह राजी न हुआ। आत्म-ग्लानि की तीव्र अस्थि से वह अन्दर ही अन्दर जल रहा था। चलते समय पार्वती ने कभी-कभी दर्शन देने का वचन ले लिया। फिर एक दृजार के दो नोटों को लिफ्फाफ़े में बन्द करके बूढ़े ससुर के हाथ में दिया और बड़ी नम्रता से कहा—यह चिट्ठी मांजी को दे दीजिएगा और अबकी बार उन्हें ज़रूर साथ लाइएगा।

पं० चतुरसेन शास्त्री

शास्त्री जी देहखी के रहने वाले हैं। आयु ५० वर्ष के लगभग है। अच्छे वैद्य हैं। कई वर्ष बम्बई में काम करते रहे, फिर देहखी चले आय, आजकल लखनऊ में निवास है।

“हृदय की परख” आप का पहला उपन्यास था, जिस ने हिन्दी-साहित्य-संसार में हलचल मचा दी थी। उस के बाद आप कहानियों की तरफ झुके। यहां भी आप को सफलता प्राप्त हुई है। जो कुछ लिखते हैं, उस में दूब कर लिखते हैं, और अपने मन्तव्य के अनुकूल लिखते हैं। कोई पसन्द करेगा, या न करेगा, इस का ज़रा ल्याक नहीं करते।

आप की भाषा सजीव, लाक्षित्र और काव्य-पूर्ण होती है, परन्तु कहीं कहीं अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, जो बहुत अखरते हैं।

मिन्नुराज

(१)

मसीह के जन्म से २५०० वर्ष पूर्व । श्रीष्म की ऋतु थी और सन्ध्या का समय, जब कि एक तरणी कांबोज समुद्र-तट से दक्षिण दिशा की ओर धीरे-धीरे अनन्त सागर के गर्भ में प्रविष्ट हो रही थी ।

इस छुदा तरणी के द्वारा अनन्त समुद्र की यात्रा करना भयंकर दुर्साहस था । वह तरणी हल्के, किन्तु हड्ड काष्ठ-फलकों को चर्म-रज्जु से बांध कर और बीच में बांस का बंध देकर बनाई गई थी, और ऊपर चर्म मढ़ दिया गया था । वह बहुत छोटी और हल्की थी, पानी पर अधर तैर रही थी, और पक्षी की तरह समुद्र की तरंगों पर तीव्र गति से उड़ी चली जा रही थी । तरणी में एक ओर कुछ खाद्य पदार्थ मृद्भांडों में धरा था, जिन का मुख वस्त्र से बंधा हुआ था । निकट ही बड़े-बड़े पिटारों में भूर्ज-पत्र पर लिखित ग्रन्थ भर रहे थे ।

तरणी के बीचोंबीच बारह मनुष्य बैठे थे। प्रत्येक के हाथ में एक-एक पतवार थी, और वह उसे प्रबल चायु के प्रवाह के विपरीत दृढ़ता से पकड़े हुए था। उनके बख्त पीतवर्ण थे, और सिर मुँडित—प्रत्येक के आगे एक मिज्जा-पात्र धरा था। उनके पैरों में काष्ठ की पाड़ुकाएं थीं।

तेरहवां एक और व्यक्ति था। उस का परिच्छद भी साथियों जैसा ही था। किन्तु उस की मुख-मुद्रा, अंतस्तेज और उज्ज्वल दृष्टि उस में उसके साथियों से विशेषता उत्पन्न कर रही थी। उस की दृष्टि में एक अद्भुत कोमलता थी, जो प्रायः पुरुषों में विशेष कर युवकों में नहीं पाई जाती। उस के मुख की गठन साफ़ और सुंदर थी। उसके मुख पर दया, उदारता और विचारशीलता टपक रही थी।

वह सब से ज़रा हटकर, पीछे की तरफ, बैठा हुआ और उसका एक हाथ नाव की एक रस्सी पर था। उसकी दृष्टि सागर की चमकीली, तरंगित जल-राशि पर न थी। वह दृष्टि से परे किसी विशेष गंभीर और विवेचनीय दृश्य को देख रहा था। उसका मुख समुद्र-नीर की उन हरी-भरी पर्वत-ओणियों की ओर था, और उन के बीच में छिपते सूर्य को वह मानों स्थिर होकर देख रहा था। उस की छुड़ी उस के कंधे पर धरी थी। कभी-कभी उसके हृदय से लंबी श्वास निकलती और उस के होठ फड़क जाते थे।

इस के निकट ही एक और मूर्ति चुपचाप पाषाण-प्रतिमा

की भाँति बैठी थी, जिस पर एकाएक दृष्टि ही नहीं पड़ती थी उस के बख्त भी पूर्व-वर्णित पुरुषों के समान थे। परन्तु उस का रंग नवीन केले के पत्ते के समान था। उस के सिर पर एक पीत बख्त बंधा था, पर उस के बीच से उस के घुंघराले और चमकीले काले बाल चमक रहे थे। उस के नेत्र शुक्र-नक्षत्र की भाँति स्वच्छ और चंचल थे। उसका अरुण अधर और अर्निद्य सुंदर मुख-मंडल सुधावर्षी चंद्र की स्पर्धा कर रहा था। वास्तव में वह पुरुष नहीं, बालिका थी। वह पीछे की ओर दृष्टि किए उन नक्षण-नक्षण में दूर होती हुई उपत्यका और पर्वत-श्रेणियों को करुण और डबडवाई आंखों से देख रही थी, मानो वह उन चिरपरिचित स्थलों को सदैव के लिए त्याग रही थी। मानो उन पर्वतों के निकट उस का घर था जहां वह बड़ी हुई, खेली। वह वहां से कभी पृथक् न हुई, और आज जा रही थी सुदूर अक्षात् देश को, जहां से लौटने की उसे आशा ही न थी।

यह युवक और युवती ससागरा पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट् मगधपति भ्रियदर्शी अशोक के पुत्र महाभट्टारकपादीय महा-कुमार महेन्द्र और महाराज कुमारी संघमित्रा थे, और उनके साथी बौद्ध-मित्र। ये दोनों धर्मात्मा, त्यागी राजसंतति-आचार्य उपरुप की इच्छा से सुदूर सागरवर्ती सिंहलद्वीप में मित्रवृत्ति ग्रहण कर बौद्ध-धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। महाराज-कुमारी के दक्षिण हाथ में बोधि-बृक्ष की टहनी थी।

आकाश का प्रकाश और रंग धुल गया, और धीरे-धीरे अंधकार ने चारों ओर से पृथ्वी को बेर लिया। बारहों मनुष्य नीरव अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे। कचित् ही कोई शब्द उन के मुख से निकलता हो, कदाचित् वे भी अपने स्वामी की भाँति भविष्य की चिंता में मग्न थे। इसके सिवा उस अचल एकनिष्ठ व्यक्ति के साथ बातचीत करना सरल न था।

अंततः पीछे का भू-भाग शीघ्र ही गंभीर अंधकार में छिप गया। कुमारी संघमित्रा ने एक लम्बी सांस खींचकर उधर से आंखें फेर लीं। एक बार बहन-भाई दोनों की दृष्टि मिली। इसके बाद महाकुमार ने उसकी ओर से दृष्टि फेर ली।

एक व्यक्ति ने चिन्ह स्वर में कहा—स्वामिन्! क्या आप बहुत ही शोकातुर हैं? दूसरा व्यक्ति बीच ही में बोल उठा—‘क्यों नहीं, हम अपने पीछे जिन वनस्ती और दश्यों को छोड़ आए हैं, अब उन्हें फिर देखने की इस जीवन में क्या आशा है? और अब आज जिन मनुष्यों से मिलने को हम जारहे हैं, उनका हमें कुछ भी परिचय नहीं है। उनमें कौन हमारा सगा है? केवल अन्तरात्मा की एक बलवती आवाज़ से प्रेरित होकर हम वहां जा रहे हैं। आचार्य की अज्ञा के विशद्द हम में कौन निषेध कर सकता था?’

एक और व्यक्ति बोल उठा, उसकी आंखें चमकीली और चेहरा भरा हुआ एवं सुन्दर था। उसने कहा—जब तुम इस प्रकार स्थित हो, तब वहां चल ही क्यों रहे हो? अब भी

लौटने का समय है।' वह मुस्किराया। महाकुमार महेन्द्र ने मुस्करा कर, मधुर स्वर से कहा—भाइयो! जब मैंने इस यात्रा का संकल्प किया था, तब तुमने क्यों मेरे साथ चलने और भले-बुरे में साथ देने का इतना हठ किया था? ऐसी क्या आपात्ति थी?

एक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया—स्वामिन! हम आप को प्यार करते थे।

दूसरे ने मन्द हास्य से कहा—‘आह! यह खूब जवाब दिया! मैं स्वामी को प्यार करता हूँ, इस लिए उसकी जो आशा होगी, वह मानूंगा—जहाँ वह लिवा जायगा, वहाँ जाऊंगा।’ फिर उसने गम्भीरता-पूर्वक कहा—और मैं समझता हूँ कि मैं उन अपरिचित मनुष्यों को भी प्यार करता हूँ, जो इस असीम समुद्र के उस पार रहते हैं।

यह कह कर उसने उस अन्धकारावृत दक्षिण दिशा की ओर उंगली उठाई, जहाँ शून्य भय के सिवा कुछ दीखता न था। उसने फिर कहा—जो आत्मा के गहन विषयों से अनभिज्ञ हैं, जो तथागत के सिद्धान्तों को नहीं जान पाए हैं, जो दुःख में मग्न अवोध संसारी हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। तथागत की आशा है कि उन पर अगाध करुणा करनी चाहिये। मेरा हृदय उनके प्रेम से ओत-प्रोत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमें बुला रहे हैं, चिरकाल से बुला रहे हैं। आह! उन्हें हमारी अत्यन्त आवश्यकता है। वे भवसागर में झूब रहे हैं,

चूंकि तथागत की ज्ञान-गरिमा से वे अज्ञात हैं। हम उन्हें अक्षय प्रकाश दिखाने जा रहे हैं। निस्सन्देह हमें कठिनाइयों और आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास रक्षा की कोई सामग्री नहीं, और शख्त भी नहीं। फिर भी अहिंसा का महामहोख तो हमारे हाथ में है जो अन्त में सब से अधिक शक्तिशाली है।

यह धीमी और गम्भीर आवाज़ उस अन्धकार को भेदन करके सब साथियों के कानों में पड़ी। मानों सुन्दर पर्वत-श्रेणियों से टकरा कर हटात् उनके कानों में घुस गई हो। बारहों मनुष्यों में सन्नाटा छा गया, और सब ने सिर मुका लिए। इन शब्दों की चमत्कारिक, मोहिनी शक्ति से सभी मोहित हो गये।

दो घंटे व्यतीत हो गए। तरणी जल-तरङ्गों से आनंदोलित होती हुई उड़ी चली जा रही है। राजनन्दिनी ने मौन भंग किया। कहा—भाई, क्या मैं अकेली उस द्वीप की समस्त स्त्रियों को श्रेष्ठ धर्म सिखा सकूंगी?

महाराजकुमार ने मृदुल स्वर में कहा—आर्या संघमित्रा यहां तुम्हारा भाई कौन है? क्या तथागत ने नहीं कहा है कि सभी सद्वर्मी भिञ्जुमात्र हैं?

‘फिर भी महाभृतकपादीय महाराजकुमार.....’

‘भिञ्जु न कहीं का महाराज है न महाराजकुमार।’

‘अच्छा, भिजु-श्रेष्ठ ! क्या मैं वहां की स्थियों के उद्धार में अकेली समर्थ होऊँगी ?’

‘क्या तथागत अकेले न थे ? उन्होंने जम्बू-महादीप में कैसी क्रान्ति उत्पन्न कर दी है ।’

‘किन्तु भिजुवर ! मैं अबला खी.....’

‘तथागत की ओत-प्रोत आत्मा का क्या तुम्हारे हृदय में बल नहीं ?’

संघमित्रा ध्यान-मण्ड हो गई ।

एक मनुष्य बीच ही मैं बोल उठा-क्या हम लोग तीर के निकट आ गए हैं ? समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं ।

महाकुमार ने चिन्तित स्वर में कहा-अवश्य ही हम मार्ग भटक गए हैं, और निकट ही कोई जल-गर्भस्थ चट्टान है । आप लोग सावधानी से तरणी का संचालन करें । इतना कह कर उसने एक दृष्टि चारों ओर डाली ।

क्षण-भर बाद ही तरणी चट्टान से जा टकराई । कुमारी संघमित्रा औंधे मुँह गिर पड़ी, और समस्त सामग्री अस्त-व्यस्त हो गई । कुमार ने देखा, चट्टान जल से ऊपर है । वह उस पर कूद पड़े । खड़े होकर उन्होंने अनन्त-जल राशि को चारों ओर देखा । इसके बाद उन्होंने साथियों से, संकेत कर के नीचे बुला कर, कहा-‘हमें यहीं रात काटनी होगी । प्रातः-काल क्या होता है यह देखा जाएगा ।’ सब ने वहीं फलाहार किया और उस ऊबड़-खाबड़, उजाड़ और सुनसान, जुद्र

चट्टान पर वे चौदहों व्यक्ति बिना किसी छांह के अपनी-अपनी बाहों का तकिया लगाकर सो रहे।

(२)

प्रातःकाल सूर्य की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। समुद्र की उज्ज्वल फेन-राशि पर उनकी प्रभा एक अनिर्वचनीय सौन्दर्य की सृष्टि कर रही थी। समुद्र शान्त था, और जलचर जन्तु जहां-तहां सिर निकाले, निशंक, स्वच्छ वायु में, श्वास ले रहे थे। कुछ दूर छोटे-छोटे पक्षी मंद कलरव करते उड़ रहे थे; वे नेत्र और कर्ण दोनों ही को सुखद थे।

महाकुमारी आर्या संघमित्रा चट्टान पर चढ़कर, सुदूर पूर्व दिशा में आंख गाड़कर, कुछ देख रही थीं। महाराज-कुमार ने उसके निकट पहुंच कर कहा—‘आर्या संघमित्रा ! क्या देख रही हैं ?’

संघमित्रा के हाँठ कंपित हुए। उसने संयत होकर विनम्र और मृदु स्वर में, कहा—‘भिन्नुवर ! जिस पृथ्वी को हमने छोड़ा है, वह यहां समुख तो है। पर ऐसा प्रतीत होता है, मानों युग व्यतीत हो गया, और माता पृथ्वी के दूसरे छोर पर हम आ गए। सोचिप, अभी हमें और भी आगे, अज्ञात प्रदेश को जाना है। क्या वहां हम ठहर कर सद्मन्त्रप्रचार कर सकेंगे ? देखो, प्रियजनों की दर्शयां हम को बुला रही हैं, यह मैं स्पष्ट देख रही हूँ।’ उसने अपना हाथ दूरस्थ पहाड़ियों की

धुंधली छाया की तरफ़ फैला दिया जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दीख रहे थे। इस के बाद उस ने महाकुमार को और सुड़कर कहा—‘भाई, नहीं-नहीं भिज्जुराज ! चलो लौट चलें—घर लौट चलें। सद्धर्म-प्रचार का अभी वहां बहुत क्षेत्र है।’

महाकुमार ने कुमारी के और भी निकट आकर उस के सिरपर अपना शुभ हस्त रक्खा, और मंद-मंद स्वर से गंभीर मुद्रा से कहा—‘शान्तं पापं, आर्या संघमित्रा ! शान्तं पापं।’ महाकुमारी वहीं बैठकर नीचे दृष्टि किए रोने लगी।

कुमार की वाणी गदगद हो गई थी। उसने कहा—आर्य ! हमने जिस महावत की दीक्षा ली है, उसे प्राप्त रहते पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। सोचो हम असाधारण व्यक्ति हैं। हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट् हैं। मैं इस महाराज्य का उत्तराधिकारी हूँ। मैं जहां भिज्जाटन करने जा रहा हूँ, कदाचित् उसका राजा करद होकर मेरे पास भेट लेकर आता। परन्तु मैं उस प्रदेश की गली-गली में एक-एक ग्रास अब मांगूंगा, और बदले में सद्धर्म का पवित्र रत्न उन्हें दूंगा। क्या यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी आर्या संघमित्रा ! अलभ्य कीर्ति और सौभाग्य की बात नहीं ? क्या तथागत प्रभु को छोड़कर और भी किसी सद्धर्मी ने ऐसा किया था ? प्रभु की स्पर्धा करने का सौभाग्य तो भूत और भविष्य में आर्या संघमित्रा ! हमें दोनों जीवों को प्राप्त होगा; तुम्हें मुझ से भी अधिक, क्योंकि सम्राट् की कन्या होकर भिज्जुणी होना स्त्री-जाति में तुम्हारी

समता नहीं रखता। आर्या ! इस सौभाग्य की अपेक्षा क्या राजवैभव अतिप्रिय है। सोचो ! यह अधम शरीर और अनित्य जीवन जगत् के असंख्य प्राणियों का कैसा नष्ट हो रहा है। परन्तु हमें उसकी महाप्रतिष्ठा करने का कैसा सुयोग मिला है, कदाचित् भविष्य काल में, सहस्रों वर्षों तक हम लोगों की स्मृति अद्वा और सम्मान-साहित जीवित रहेगी।'

इतना कह कर महाकुमार मौन हुए। कुमारी धीरे-धीरे उन के चरणों में झुक गई। उस ने अपराधिनी शिष्या की भाँति प्रथम बार सहोदर भाई से मानों मातृ-संबंध त्याग कर अपनी मानसिक दुर्बलता के लिए कर-वद्ध हो ज्ञान-याचना की और महाकुमार ने कर्मठ भिजु की भाँति उस का सिर स्पर्श कर के कहा—‘कल्याण !’

इस के बद्द ही नौका तैयार हुई, और वह फिर लहरों की ताल पर नाचने लगी। बारहों साथी निस्तब्धता से समुद्र की उचुंग तरंगों में मानों उस जुद्रा तरणी को घुसाए लिए जा रहे थे। एक दिन और एक रात्रि की अविरल यात्रा के बाद समुद्र-तट दिखाई दिया। उस समय धीरे-धीरे सूर्य झूब रहा था, और उस का रक्ष प्रतिविव जल में आन्दोलित हो रहा था। महाकुमारी ने सूर्य की ओर देखा और मन-ही-मन कहा—‘सूर्यदेव ! अभी उस चिर-परिचित प्रभात में मैं एक अविक-सित अरविंद-कली थी। तुम्हारी स्वर्ण-किरण के सुखद स्पर्श से पुलकित होकर खिल पड़ी। मैं अपनी समस्त पंखुड़ियों

से खिलकर दिन-भर निर्लज्ज की भाँति तुम्हें देखती रही। हाय ! किन्तु तुम कितनी उपेक्षा से जा रहे हो ! जाते हो तो जाओ, मैं अपना समस्त सौरभ तुम्हारे चरणों में लुटा चुकी हूँ अब सूख कर रज-कण में मिल जाना ही मेरी चरम गति है।'

उस ने अति अप्रकट-भाव से अस्तगत सूर्य को प्रणाम किया, और टप से एक बूँद आंसू उस की गोद में रक्खे बोधि-वृक्ष पर टपक पड़ा।

तट आ गया, और महाकुमार गंभीर-मुद्रा से उस पर कूद गए। उस के बाद उन्होंने मुस्किराते हुए महाकुमारी को संकेत करके कहा—‘आर्या संघमित्रा ! आओ, हम अभीष्ट स्थान पर पहुंच गए। इस क्षण से यह तट निर्वाण-तट के नाम से पुकारा जाए।’

सब ने चुपचाप सिर झुका लिया। तेरहों आत्माएं, एक के बाद दूसरी, उस अपरिचित किनारे पर सदैव के लिए उत्तर पड़ीं, और प्रार्थना के लिए रेत में घुटनों के बल धरती में झुक गईं।

(३)

वह राजवंशीय भिन्नु उस स्थान पर समुद्र-तट से और थोड़ा आगे बढ़ कर, ठहर गया। उसके तेरहों साथी उसके अनुगत थे। उन्होंने उस बोधि-वृक्ष की बहां स्थापना की।

पत्थर और गारा इकट्ठा करके उन्होंने विहार बनाना शुरू किया। धीरे धीरे भवन-निर्माण होने लगे, और आस-पास की अर्ध-सभ्य जातियों में उसकी ख्याति होने लगी। झुण्ड के झुण्ड खी-पुरुष इस सुन्दर, सभ्य, विनम्र तपस्वी के दर्शन करने को, उसका धर्म-सन्देश और प्रेममय भाषण सुनने को आने लगे। इस पुरुष-रत्न के सतेज स्वर, बलिष्ठ शरीर, निरालस्य स्वभाव, आनन्दमय और सन्तोष-पूर्ण जीवन, दयालु प्रकृति ने उन सहस्रों अपरिचितों के हृदयों को जीत लिया। वे उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। उसके ज़ोरदार भाषण में वे महाप्रभु बुद्ध की आत्मा को प्रत्यक्ष देखने लगे। उनके पुराने अन्ध विश्वास—उपासनाएं—कुरीतियां इतनी शीघ्रता से दूर हो गईं, और वे अपने इस प्यारे गुरु के इतने पक्के अनुगामी हो गए कि उस प्रान्त भर में इसकी चर्चा होने लगी, और शीघ्र ही वह स्थान टापू भर में विख्यात हो गया, और वहां नित्य मेला रहने लगा।

धीरे-धीरे वह वन्य प्रदेश विलास अद्वालिकाओं से परिपूर्ण हो गया। अब वह एक बड़ा विहार था, और उसमें केवल बढ़ी चौदह भिजु न थे, किन्तु सैकड़ों भिजु-भिजुशियां थीं, जो जगत् के सभी स्वार्थों और सुखों को त्याग कर पवित्र और त्याग-पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी थीं।

समुद्र की लहरें किनारों पर टकरा कर उनके परिजनों की आनन्द-ध्वनि की प्रतिध्वनि करती थीं, और उन महात्मा

राजपुत्र और राजपुत्री एवं उनके साहसी साथियों के उत्साह दिलाती थीं, और अब उनके मन में कोई खेद था। वे सब अति प्रफुल्लित हो अपने कर्तव्य का पालन करहे थे।

(४)

भिन्नुराज ध्यानावस्थित बैठे कुछ विचार कर रहे थे आर्या संघमित्रा बोधिवृक्ष को सोंच रही थी। एक भिन्नु ने बद्धांजलि हो कर कहा—स्वामिन्, सिंघलद्वीप के स्वामी महाराज तिष्य ने आपको राजधानी अनुराधापुर ले जाने के लिए राजकीय रथ और वाहन तथा कुछ भेट भी भेजी है; स्वामी की क्या आशा है ?

युवक भिन्नुराज ने बाहर आकर देखा, सौ हाथी, सौ रथ और दो सहस्र पदातिक एवं बहुत से भिन्न-भिन्न यान हैं। साथ में राजकीय छत्र-चंचर भी हैं। महानायक ने संमुख आ, नत-जानु हो प्रणाम कर कहा—प्रभु, प्रसन्न हों। महाराजा की विनय है कि पवित्र स्वामी अनुचरों सहित राजभवन को सुशोभित करें। वाहन सेवा में उपस्थित हैं। कुछ तुच्छ भेट भी है।

यह कह कर महानायक ने सङ्केत किया-तत्काल सौ दास विविध सामग्री से भरे स्वर्ण-थाल से, सम्मुख रख कर पीछे छढ़ गए। उनमें बड़े बड़े मोतियों की मालाएं, रक्ताभरण,

रेशमी बहुमूल्य वस्त्र, सुन्दर शिल्प की वस्तुएं, बहुमूल्य मदिराएं और विविध सामग्री थीं। महाकुमार ने देखा, एक नीण हास्य-रेखा उनके ओरों में आई, और उन्होंने महानायक की ओर देख कर गम्भीर वाणी से कहा—महानायक, भिन्नुओं के भिन्ना-पात्र में कहाँ यह राजसामग्री समावेगी; मेरे जैसे भिन्नुओं को इसकी आवश्यकता ही क्या? इन्हें लौटा ले जाओ। महाराज तिष्य से कहना, हम स्वयं राजधानी में आते हैं।

भिन्नुराज ने यह कहा और उत्तर की प्रतीक्षा किए विना ही अपने आसन पर आ बैठे। राज्यवर्ग अपनी तमाम सामग्री सहित वापस लौट गया।

राजधानी वहाँ से दूर थी, और यात्रा की कोई भी सुविधा न थी, परन्तु उस टापू के राजा तिष्य को सद्धर्म का सन्देश सुनाना परमावश्यक था। यदि ऐसा हो जाय, तो टापू में बौद्ध-सिद्धान्तों की व्याप्ति हो जाय।

महाराजकुमार ने तैयारी की। कुमारी और बारहों साथी तैयार हो गए। और वह दुर्गम यात्रा प्रारम्भ की गई। प्रत्येक के कन्धे पर उनकी आवश्यक सामग्री और हाथ में भिन्ना-पात्र था। वे चलते ही चले गये। पर्वतों की चोटियों पर चढ़े। घने, हिस्स जन्तुओं से परिपूर्ण वन में घुसे। वृक्ष और जल से रहित रेगिस्तान में होकर गुज़रे। अनेक भयंकर गार और ऊबड़-खाबड़ जंगल, पेचीली जंगली नदियां

उन्हें पार करनी पड़ीं। अन्त में राजधानी निकट आई।

राजा अन्ध-विश्वासों से परिपूर्ण बातावरण में था। सैकड़ों जादूगर, मूर्ख, पाखरडी उसे घेरे रहते थे। उन्होंने उसे भयभीत कर दिया कि यदि वह उन भिजु-यात्रियों से मिलेगा, तो उस पर दैवी कोप होगा, और वह तत्काल मर जायगा। परन्तु उसने सुन रखा था कि आगन्तुक, चक्रवर्ती सम्राट् अशोक के पुत्र और पुत्री हैं। उसमें सम्राट् को अप्रसन्न करने की सामर्थ्य न थी। उसने उनके स्वागत का बहुत अधिक आयोजन किया। उसे झ्याल था, महाराजकुमार के साथ बहुत सी सेना-सामग्री सवारी आदि होगी। पर जब उसने उन्हें पीतवस्त्र पहने, पृथ्वी पर दृष्टि दिये, नंगे पैरों धीरे धीरे पैदल अग्रसर होते और महाराजकुमारी तथा अन्य अनुचरों को उसी भाँति अनुगत होते देखा, तो वह आश्चर्य-चकित रह गया, और जब उसने सुना कि उसकी समस्त भेट और सवारी उन्होंने लौटा दी है, और वे इसी भाँति पैदल भयानक यात्रा कर के आए हैं तो वह विमूढ़ होगया। कुमार पर उसकी भक्ति बढ़ गई उसने देखा, राजकुमार के सिर पर मुकुट और कानों में कुरड़ल न थे, पर मुख कान्ति से देदीप्यमान हो रहा था। उन्होंने हाथ उठा कर राजा को 'कल्याण' का आशीर्वाद दिया। राजा हठात् उठ कर महाकुमार के चरणों में गिर गया। समस्त दरबार के सम्मान्त पुरुष भी भूमि पर लोटने लगे।

महाकुमार ने प्रबोध देना आरम्भ किया, और कहा—
 राजन्, त्वमा हमारा शख्ब और दया हमारी सेना है।
 हम इसी राजवल से पृथ्वी की शक्तियों को विजय करते हैं।
 हम सद्धर्म का प्रकाश जीवों के हृदयों में प्रज्वलित करते
 फिरते हैं। हम त्याग, तप, दया और सद्भावना से आत्मा
 का शृंगार करते हैं। हे राजन्! हम अपनी ये सब विभूतियां
 आप को देने आए हैं, आप इन्हें ग्रहण करके कृतकृत्य द्वाजिप।

राजा धीरे-धीरे पृथ्वी से उठा। उसने कहा—और
 केवल यही विभूतियां ही आपके इस प्रशस्त जीवन का
 कारण हैं?

राजकुमार ने स्थिर गम्भीर होकर कहा—हाँ।

‘इन्हीं को पाकर आपने साम्राज्य का दुर्लभ अधिकार
 तुच्छ समझ कर त्याग दिया?’

‘हाँ, राजन्।’

‘और इन्हीं को पाकर आप भिज्ञावृत्ति में सुखी हैं,
 पैदल यात्रा के कष्टों को सहन करते हैं, तपस्वी जीवन से
 शरीर को कष्ट देने पर भी प्रफुल्लित हैं?’

‘हाँ, इन्हीं को पाकर।’

‘हे स्वामी! वे महाविभूतियां मुझे दीजिए, मैं आप के
 शरणागत हूँ।’

भिजुराज ने एक पद आगे बढ़कर कहा—राजन्,
 सावधान होकर बैठो।

राजा घुटनों के बल धरती पर बैठ गया। उसका मस्तक युवक भिञ्चुराज के चरणों में झुक रहा था।

महाकुमार ने कमरड़लु से पवित्र जल निकाल कर राजा के स्वर्ण-खचित राजमुकुट पर छिड़क दिया, और कहा—
कहो—

बुद्धं शरणं गच्छामि ।

संघं शरणं गच्छामि ।

सत्यं शरणं गच्छामि ।

राजा ने अनुकरण किया। तब भिञ्चुराज ने अपने शुभ हस्त राजा के मस्तक पर रखकर कहा—राजन्, उठो। तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम प्रियदर्शी सन्नाद के प्यारे सद्मीं और तथागत के अनुगामी हुए।

इसके बाद राजा की ओर देखे बिना ही भिञ्चु-श्रेष्ठ अपने निवास को लौट गए।

(५)

उन के लिए राजमहल में एक विशाल भवन निर्माण कराया। और उसमें श्रेत चंदोवा त ना गया था, जो पुर्णों से सजाया गया था। महाकुमार ने वहां बैठकर अपने साथियों के साथ भोजन किया, और तीन बार राजपरिवार को उपदेश दिया। उसी समय तिष्य के लघु भ्राता की पत्नी अनुला ने अपनी पांच सौ सखियों के साथ सद्मर्म ग्रहण किया।

सन्ध्या का समय हुआ, और भिञ्चु-मंडली पर्वत की ओर जाने को उद्यत हुई। महाराज तिष्ठ ने आकर विनीत भाव से कहा—पर्वत बहुत दूर है, और अति विलम्ब हो गया है, सूर्य छिप रहा है, अतः आप कृपा कर नदन-उपवन में ही विश्राम करें।

महाकुमार ने उत्तर दिया—राजन्, नगर में और उसके निकट वास करना भिञ्चु का धर्म नहीं।

‘तब प्रभु महामेघ-उपवन में विश्राम करें, वह राजधानी से न बहुत दूर है, न निकट ही।’

महाकुमार सहमत हुए, और महामेघ-उपवन में उनका आसन जमा।

इसरे दिन तिष्ठ पुष्प-भैट लेकर सेवा में उपस्थित हुआ; महाकुमार ने स्थान के प्रति संतोष प्रकट किया। तिष्ठ ने प्रार्थना की कि वह उपवन भिञ्चु-संघ की भैट समझा जाए, और वहाँ विहार की स्थापना की जाए।

भिञ्चुराज ने महाराज तिष्ठ की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। महामेघ-अनुष्ठान के तेरहवें दिन, आषाढ़-शुक्ल त्रयोदशी को, महाकुमार महेन्द्र, राजा का फिर आतिथ्य ग्रहण करके, अनुराधापुर के पूर्वी द्वार से मिस्सक पर्वत को लौट चले। महाराज ने यह सुना, तो वह राजकुमारी अनुला और सिंहालियों को साथ लेकर, रथ पर बैठकर दौड़ा।

महेन्द्र और भिञ्चु तालाब में खान करके पर्वत पर चढ़ने

को उद्यत खड़े थे। राजवर्ग को देखकर महाकुमार ने कहा—
राजन्, इस असह्य ग्रीष्म में तुमने क्यों कष्ट किया?

‘स्वामिन्, आप का वियोग हमें सह्य नहीं।’

‘अधीर होने का काम नहीं। हम लोग वर्षा-ऋतु में वर्ष
अनुष्ठान के लिए यहां पर्वत पर आए हैं, और वर्षा-ऋतु यहीं
पर व्यतीत करेंगे।’

महाराज तिष्य ने तत्काल कर्मचारियों को लगाकर दृढ़
गुफाएं वहां निर्माण करा दीं, और भिन्नुगण वहां चातुर्मास
व्यतीत करने को ठहर गए। एक दिन तिष्य ने कहा—

स्वामिन्, यह बड़े खेद का विषय है कि लंका में भगवान्
बुद्ध का ऐसा कोई स्मारक नहीं, जहां उसकी मैट्पूजा
चढ़ाकर विधिवत् अर्चना की जाए। यदि प्रभु स्मारक के
योग्य कोई वस्तु प्राप्त कर सकें, तो उसकी प्रतिष्ठा करके
उस पर स्तूप बनवा दिया जाए।

महाकुमार महेन्द्र ने विचार कर ‘सुमन’ भिन्नु को लंका-
नरेश का यह संदेश लेकर सम्राद् प्रियदर्शी अशोक की सेवा
म भारतवर्ष भेज दिया।

उसने सम्राद् से महाकुमार और महाकुमारी के पवित्र
जीवन का उल्लेख करके कहा—चक्रवर्ती की जय हो !
महाकुमार और लंका-नरेश की इच्छा है कि लंका में
तथागत के शरीर का कुछ अंश प्रतिष्ठित किया जाए, और
उसकी पूजा होती रहे।

अशोक ने महाबुद्ध के गले की एक अस्थि का ढुकड़ा उसे देकर विदा किया ।

महाकुमार उस अस्थि-खण्ड को लेकर फिर महामेघ-उपवन में आए । वहाँ राजा अपने राजकीय हाथी पर छुत्र लगाए स्वागत के लिए उपस्थित था ।

उसने अस्थि-खंड को सिर पर धारण किया, और बड़ी धूम-धाम से उस की स्थापना की । उस अवसर पर तीस सहस्र सिंहालियों ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया ।

(६)

द्वीप भर में बौद्ध-धर्म का साम्राज्य था । सम्राट् ने अपने पवित्र पुत्र और पुत्री को तीन सौ पिटोरे भरकर धर्म-ग्रन्थ उपहार भेजे थे । उन्हें वहाँ के निवासियों को उसने अध्ययन कराया । एक बच्चा भी अब बौद्धों की विभूति से बंचित न था ।

भिजुराज महाकुमार महेन्द्र कठिन परिश्रम और तपश्चर्या करने से बहुत दुर्बल हो गए थे । वृद्धावस्था ने उन के शरीर को जीर्ण कर दिया था । महाराजकुमारी ने द्वीप की स्त्रियों को पवित्र धर्म में रंग दिया था । दोनों पवित्र आत्माएं अपने जीवनों को धैर्य से गला चुके थे । उन्हें वहाँ रहते युग बीत गया था । एक दिन उन्होंने कुमारी से कहा—

‘आर्या संघमित्रा ! मेरा शरीर अब बहुत जर्जर हो गया है, अब इस शरीर का अंत होगा । यह तो शरीर

का धर्म है। तुम प्राण रहते अपना कर्तव्य पूर्ण किए जाना।
उनके सुख पर संतोष के हास्य की रेखा थी।

उसी रात्रि को एक अनुचर ने, जो कुमार के निकट ही
सोता था, देखा कि उन का आसन खाली है। वह तत्काल
उठकर चिन्हाने लगा—‘हे प्रभु! हे प्रभु!’ समुद्र की लहरें
किनारों पर टकरा कर उस पार के मित्रों की आनंद-धर्वन
ला रहा था। अनुचर ने देखा, महाकुमार भिन्नुराज बोधि-
वृक्ष को आर्लिंगन किए पढ़े हैं। उन के नेत्र मुद्रित हैं। अनु-
चर लपक कर चरणों में लोट गया। लोग जाग गए और
वहाँ को आ रहे थे। इस भीड़ को देखकर कुमार मुस्किराए,
सब को आशीर्वाद देने को उन्होंने हाथ उठाया, पर वह
दुर्बलता के कारण गिर गया। धीरे-धीरे उनका शरीर भी
गिर गया। अनुचर ने उठाकर देखा, तो वह शरीर निर्जीव
था। उस स्थिर्घ चंद्रमा की चांदनी में, उस पवित्र बोधि-वृक्ष
के नीचे वह त्यागी राजपुत्र—सत्सागरा पृथ्वी का एक-मात्र
उत्तराधिकारी-धरती पर निर्झित होकर अदूट सुख की नींद
सो रहा था, और भक्तों में जो जो सुनते थे, एकत्र होते जाते
थे, और चार आंसू बहाते थे।

— * —

श्री राय कृष्णदास

आप काशी के रहने वाले हैं। इस समय आप की आयु ४४ वर्ष के लगभग है। आप का प्रिय विषय गद्य काव्य है। “साधना” आप का पहला अमर ग्रन्थ है, जिस ने हिन्दी संसार को चकित कर दिया था। आप की कहानियों में भी काव्य का ग्राधान्य रहता है, इसी लिए कहीं कहीं अस्वाभाविकता आ जाती है। प्रायः प्रेम और कला ही के विषय पर लिखते हैं। साधारण कथानक आप को यसन्द नहीं।

इस समय तक आप की कहानियों के दो छोटे छोटे संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

कला और कृत्रिमता

सम्राट् ने एक महल बनाने की आशा दी—अपने वैभव के अनुरूप, अपूर्व, सुख और सुखमा की सीमा।

देश-भर के बड़े-बड़े स्थपतियों का दिमाग उसी का नक्शा तैयार करने में भिड़ गया। नक्शा तैयार हुआ। उसे देखकर सम्राट् फड़क उठे; उनके गर्व को बड़ी मधुर गुदगुदी हुई। जिस का नक्शा पसंद हुआ था, उसके भाग्य खुल गए।

जिस समय उस महल की तैयारी का चिन्ह उनके मनो-नेत्र के सामने खड़ा हुआ, संसार के बड़े-से-बड़े प्रासाद-निर्माता नरेन्द्र आर्यावर्च, मिस्त्र, मय, बाबुल, चीन, पारस, ग्रीस, रोम आदि के,—तुच्छ मालूम हुए क्योंकि उन्होंने भव्यता और चारता का जो प्रदर्शन किया था वह इसके आगे कुछ भी न था।

जिन मर्दों से सम्राट् मत्त हो रहे थे आज उनमें एक और बढ़ा।

जिस भाग्यवान् स्थपति की कल्पना ने इस भवन की

उद्घावना की थी उस के तो पैर ही जमीन पर न पड़ते थे । सातवें आसमान की उड़ान में उसे अपनी इस कृति के सिवा अन्यत्र दीख ही न पड़ती थी ।

अस्तु ।

संसार-भर की एक-से-एक मूल्यवान और दुर्लभ सामग्रियां एकत्र की गई और वह प्रासाद बनने लगा । लाखों वास्तुकार, लाखों शिल्पी काम करने लगे ।

नीहार भी उन्हीं में से था । संगतराशों की एक टोली का वह मुखिया था और उसके काम से उसके प्रधान सदैव संतुष्ट रहते थे । किन्तु वह अपने काम से संतुष्ट न था । उसमें कल्पना थी । जो नक्शे उसे पत्थरों में तराशने को दिये जाते उनमें हेर-फेर और घटाव-बढ़ाव की जो भी आवश्यकता सुरुचि को अभीष्ट होती, उसे तुरन्त भास जाती । परन्तु उसका कर्तव्य था केवल आश्चापालन, अतः यह आश्चापालन वह अपनी उमंग को कुचल-कुचल कर किया करता । पत्थर गढ़ते समय टाँकी से उड़ा हुआ छींटा उस की आंखों में उतना न कसकता जितना उन नक्शों की कुधरता ।

इतना ही नहीं, उस सारे महल की कल्पना ही उसे वास्तु के मूल पुरुष, मय असुर की ठठरी सी मालूम होती और उस स्थान पर पहुंचते ही उसे ऊज़ू, भयावनेपन, और बद-नुमापन की ऐसी प्रतीति होती कि वह सिंहर उठता, मन

मैं कहता—अच्छा ढङ्डा खड़ा किया जा रहा है क्या
ढकोसला है !

और, उस की कल्पना एक दूसरा ही कोमल स्वप्न देखने
लगती—

धीरेधीरे यह चर्चा महाराज के कानों तक पहुंची कि
नीहार अपने घर में एक महल बना रहा है—एक छोटा-सा
नमूना। लोग राजप्रासाद के और इसके सौन्दर्य की तुलना
करने लगे हैं कि वह इसके आगे कुछ भी नहीं; इसकी
चारुता और कौशल अपूर्व है। नगर भर में इसकी चर्चा थी।

अधीश्वर की भावना को चोट लगी। जिस मूर्ति की वह
उपासना कर रहे थे उस पर जैसे किसी ने आघात किया
हो। परन्तु वे ज्वलन प्रकृति के न थे, उनके हृदय में उसे
देखने की इच्छा जाग उठी।

उनके हृदय में कला का जो राजस प्रेम था, वह उन्हें
प्रेरित करने लगा। क्योंकि, उनसे कहा गया था कि जिस
समय वह काम करने लगता है, मग्न होजाता है, कहाँ क्या
हो रहा है, इसकी खबर ही नहीं रह जाती। इसके चारों
ओर देखने वालों की भीड़ लगी रहती है। किन्तु, इससे क्या!
वह ज्यों का त्यों अपने विनोद में लगा रहता है। वे इस
तल्लीनता को देखने के लिए उत्सुक हो उठे—अपने को रोक
न सके।

एक दिन वे चुपचाप नीहार के यहाँ पहुंचे। दर्शक-समूह

सम्भाद को देखकर खड़बड़ाया; किन्तु उनके एक इंगित से सब जहाँ के तहाँ शान्त हो गए। चुपचाप सम्मान पूर्वक उन्हें रास्ता दे दिया।

कलावन्त की उस तन्मयता, उस लगन, उस समाधि के देखने में मनुष्य स्वयं तमाशा बन जाता था। महाराज भी वैसे ही रह गए। जिस प्रकार अचेतन यंत्र, चेतन बन कर काम करने लगता है। उसी प्रकार यह चेतन, अचेतन यंत्र हो कर, अपनी धुन में लगा हुआ था। उसकी कामना के प्रावल्य ने चेतन-अचेतन का भेद मिटा दिया था—तभी न वह पत्थर में जान डाल सकता था।

सम्भाद का स्वप्न विकीर्ण हो गया, जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ अलग-अलग होकर उड़-पुड़ जाती हैं। जिस प्रकार शुक्रि में रजत का भ्रम उसी समय तक रहता है जब तक वास्तविक सामने नहीं आ जाता, उसी प्रकार अपने ग्रासाद के सम्बन्ध में वे जिस कला-आभास से अभिभूत हो उठे थे, यह प्रकृति कला दीख पड़ते ही वह जाने कहाँ चिलीन हो गया।

विजृम्भा की मूर्ति बने सम्भाद उसे देख रहे थे कि नीहार चरण के लिए किसी कारण अपनी उस निद्रा से जागृत हुआ। उसकी दृष्टि उन पर पड़ी—

उस समय उसके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने इस निरुद्देश निर्माण का फल-सा पा लिया और वह सम्भाद के चरणों में भक्ति भाव से नत हुआ।

सम्राट् ने उसे उठा कर अपने उन्मुक्त हृदय से लगा लिया। कह उठे—बाह ! यहां तो पत्थर एक खिंगध-हृदय से एकतानता करके मोम बन गया है। नीहार ! तू धन्य है। निस्सन्देह किसी शाप-वश पृथ्वी पर आया है, तभी तो यह वैजयन्त प्रासाद यहां निर्मित हुआ है।

‘नरेन्द्र ! आप ही यह रहस्य जानें’—विनीत शिल्पी ने अपनी लघुता व्यक्त करके कहा।

‘तो अब इसका निर्माण इसके रूप-सरूप के अनुसार होने दो—वह राजभवन न बन कर यही बनेगा।’

‘जो आशा’—कह कर वह पुनः न त हुआ।

महाराज ने महास्थपति को बुलाने की आशा दी।

हरकारे दौड़े और बात कहते वह महाराज के सामने उपस्थित किया गया। नीहार की कृति पर उस की निगाह पड़ी, साथ ही मुंह विचक गया। महाराज ने उस ओर इशारा कर के कहा—देखो !

महास्थपति नम्र हो कर देखने लगा, किन्तु चेहरे पर की शिकन ज्यों की त्यों कायम रही।

सम्राट् ने पूछा—क्यों, कैसा है ?

‘कैसे कहूँ ?’

‘क्यों, संकोच क्या है ?’

‘यह देव को पसन्द आ चुका है।’

‘तो उस से क्या हुआ’—सम्राट् ने साहस बंधाते हुए

कहा—तुम अपनी स्पष्ट राय दो ।

‘एक सिलवाड़ है !’ नाक सिकोड़ कर उसने कहा—

‘तभी तो इतना आकर्षक है !’

‘किन्तु निरर्थक तो है, स्वामी !’

‘नहीं ! रहस्यमय कह सकते हो । निरर्थक तो कोई वस्तु नहीं । जिसे हम नहीं समझ पाते, उसे निरर्थक कह बैठते हैं ।’

‘हां भगवन् ! किन्तु यदि वही रहस्य दुरुह हो जाता है तो व्यर्थ अवश्य हो जाता है—चाहे निरर्थक न हो ।’

‘किन्तु, यहां तो उसका गूढ़ हो जाना आवश्यक था, वहीं तो कला है !’

‘सेवक की समझ में यह न आया !’

‘सुनो ! केवल सौन्दर्य की अभिव्यक्ति तो इस के निर्माता का उद्देश्य हुई नहीं । उसे तो एक वास्तु-निवास-स्थान की रचना करनी थी, किसी सम्राट् की पद-मर्यादा के अनुरूप । अतएव येसे भवन के लिए जितने अलंकार की अपेक्षा थी उस की इस में तनिक भी कसर नहीं । किन्तु वहाँ तक बस । उससे एक रेखा भी अधिक नहीं, क्योंकि घर तो घर, चाहे कुटी हो वा राजमहल, उस का प्रधान उपयोग तो यही है न कि उस में जीवन बसेरा ले—पक्षी अपना नीड़ भी तो इसी सिद्धान्त पर बनाता है, वह मृग-रीचिका की तड़क-भड़क वाला पिंजरा जर्दीं बगाना जे-

जीवन को बंदी करके ग्रस लेता है। तुम्हारे और उस के कौशल में भी यही अन्तर है। केवल बाहरी आकर्षण होना ही कला नहीं। उसका रूप प्रसंग के अनुकूल होना ही उस की चारूता है।'

'नाथ, अपने नन्देपन के कारण यह ऐसा जान पड़ता है।' नम्रता दिखाते हुए उसने सीख दी।

'अजी, यह न कहो! विशालता तो ऐसी वस्तु है कि वह बहुतेरे दोषों को दाढ़ लेती है। यद्यी नमूना जब पूरे पैमाने पर बनेगा तो और खिल उठेगा। तो भी'—उन्होंने हँसकर कहा—'यदि तुम्हारे जान, यह अपने नन्देपन के कारण ही इतना रुचिर है तो मंगाओ अपना महल बाला, वह नन्दा नमूना। दोनों के सामने रखकर तुलना हो जाय।'

महास्थपति से इस का कोई उत्तर न बना, क्योंकि अब वह जान गया था कि महाराज में जो निगाहदारी ऊंध रही थी, उसे कला की इस प्रकृत वस्तु ने पूर्णतः जगा दिया है, अतः वे भेरी आलोचना के पोलेपन को भली-भाँति समझ रहे हैं। इस कथोपकथन के बीच-बीच में वह महाराज की निगाह बचाकर चुब्ध दृष्टि से नीहार को भी देखता जाता था। किन्तु अब उसकी वह दृष्टि नीहार पर नहीं पड़ रही थी—अब नत होकर पृथ्वी से करुणा की याचना कर रही थी।

यह दशा देखकर नीहार से न रहा गया—महाराज से उस ने कुछ निवेदन करने की आज्ञा ली।

उसने बड़ी शिष्टता से कहा—देव ! वे आचार्य हैं, मैं उनकी चरण-धूलि के समान भी नहीं। उनकी और मेरी कृति की तुलना न्याय नहीं है—मझयुद्ध में बराबर के जोड़े छोड़े जाते हैं।

‘परन्तु यह तो प्रतिभा की तुलना है जो अपने विकास से छोटे को भी बड़े के बराबर बैठा देती है।’ महाराज ने गम्भीर होकर कहा, और महास्थपति को देखने लगे।

‘किन्तु’—नीद्वार दृढ़ता से बोला—‘इस प्रसंग में तो एक और सूक्ष्म विचार है, तथा वही इसका मूल कारण है। यदि श्रीमान् उसे सुन लेंगे तो यही आदेश देंगे कि इन दोनों रचनाओं की तुलना उचित नहीं।

‘वह क्या ?’—महाराज ने उत्सुकता से पूछा।

‘यही कि’—कलावन्त के मुंह पर मुसकान थी, किन्तु इस प्रसंग से नहीं, वही जो उस पर सहज खेला करती थी—‘यह कल्पना ‘स्वान्तस्सुखाय’ से उपजी है, और वह ‘हुकुम पाइ’ उपजाई गई है। देव कोई फर्माइश मुझे भी दें तो मेरी कलई आप ही खुल जाय !

‘बस, बस, अपने महास्थपति को तो तुमने परास्त किया ही था, अपने महाराज को भी हरा दिया !’ प्रसन्नता से गद्दद सम्राद् ने कहा।

उसके लिए, उनकी आंखों में स्नेह झलक रहा था और महास्थपति की दृष्टि में आसीस—केवल आसीस ही नहीं चन्दना भी उमड़ी पड़ती थी।

बाबू जयशंकर प्रसाद

आपका जन्म सन् १८६० ई० में काशी के एक प्रतिष्ठित कान्य-
कुञ्ज वैश्य घराने में हुआ। आपके पिता अच्छे सम्पद व्यक्ति थे, इस
लिए आपकी शिक्षा घर पर हुई। हिन्दी-संसार में आप सब से पहले
कवि के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात् आपने कहानियाँ और नाटक
लिखना शुरू कर दिया। परन्तु उच्चकोटि के नाटक लिखने में बाबू जी
को सफलता नहीं हुई। इनकी भाषा बड़ी जटिल और अप्रसिद्ध होती
है। उसमें लाक्रित्य की मात्रा इतनी कम होती है कि उसे पढ़ने के
लिए मन को भजबूर करना पड़ता है। उनकी कहानियों का सम्भाषण
विभाग भी अस्वाभाविक होता है। परन्तु फिर भी उन्हें पसन्द
करने वालों की कमी नहीं। बाबू जी की कहानियों के भाव बड़े
सुमधुर और सुन्दर होते हैं और यही भाव उनकी कला की जान है।
इस समय तक आप के तीन गल्प-संग्रह और कुछ नाटक प्रकाशित हो
चुके हैं।

ममता

(१)

रोहतास-दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीव्रण गम्भीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात के लिए, वह सुख के करटक-शयन में चिकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उस के लिये कुछ अभाव होना असम्भव था, परन्तु वह विधवा थी,—हिन्दू-विधवा संसार में सब से तुच्छ निराश्रय प्राणी है तब उसकी विडम्बना का कहाँ आन्त था?

चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कल-नाद में, अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। खेह-पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा

प्रायः होता, पर आज मन्त्री के मन में बड़ी दुश्मिन्ता थी।
पैर सीधे न पढ़ते थे।

एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे इस सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए थे, कितने ही मनुष्यों के पद-शब्द सुन ममता ने धूम कर देखा। मन्त्री ने सब थालों के रखने का सङ्केत किया। अनुचर थाल रख कर चले गए।

ममता ने पूछा—यह क्या है पिता जी?

‘तेरे लिए बेटी ! उपहार है।’ कह कर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुन-हली सन्ध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी—
‘इतना स्वर्ण ! यह कहां से आया ?’

‘चुप रहो ममता ! यह तुम्हारे लिए है।’

‘तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया ?
पिता जी ! यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए। पिता जी ! हम लोग ब्राह्मण हैं। इतना सोना लेकर क्या करेंगे ?’

‘इस पतनोन्मुख प्राचीन सामन्त-वंश का अन्त समीप है,
टी ! किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर रक्ता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी !

‘हे भगवान ! तब के लिए ! विपद के लिए ! इतना पायोजन ! परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस ! ता जी ! क्या भीख न मिलेगी ? क्या कोई हिन्दू भृपृष्ठ पर

न बचा रह जायगा, जो ब्राह्मण को दो सुड्डी अन्न दे सके ?
यह असम्भव है । फेर दीजिए पिता जी ! मैं कांप रही हूँ—
इसकी चमक आँखों को अन्धा बना रही है !

‘मूर्ख है’—कह कर चूड़ामणि चले गए ।

दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था,
ब्राह्मण मन्त्री चूड़ामणि का हृदय धक-धक करने लगा । वह
अपने को रोक न सका । उसने जाकर रोहिताश्व-दुर्ग के
तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा । पठानों
ने कहा—

यह माहिलाओं का अपमान करना है ।

बात बढ़ गई । तलवारें खिचीं, ब्राह्मण वहाँ मारा गया
और राजारानी, कोष सब छुली शेरशाह के हाथ पड़े । निकल
गई ममता । डोली में भेरे हुए पठान-सैनिक दुर्ग-भर में फल
गए, पर ममता न मिली ।

(२)

काशी के उत्तर धर्मचक विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों
की कीर्ति का खंडहर था । भग्न-चूड़ा, तण-गुलमों से ढके हुए
प्राचीर ईंटों के ढेर में विखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति
श्रीष्म-रजनी की चंद्रिका में श्रीपते आप को शीतल कर रही थी ।

जहाँ पञ्चवर्गीय भिजु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के
लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मालिन छाया

में एक भाँपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी-

‘अनन्याशिचनायन्तो मां ये जनाः पर्युशासते…’

पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मन्द प्रकाश में सामने खड़ी थी। खी उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। परन्तु उस व्यक्ति ने कहा—‘माता ! मुझे आश्रय चाहिए।’

‘तुम कौन हो ?’—खी ने पूछा।

‘मैं मुगल हूँ। चौसायुद्ध में शेरशाह से विपत्ति होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ।’

‘क्या शेरशाह से ?’—खी ने अपने ओंठ काट लिए।

‘हाँ माता !’

‘परन्तु तुम भी वैसे ही कर हो ? वही भीषण रक्त की प्यास ! वही निष्ठुर प्रतिविम्ब, तुम्हारे मुख पर भी है ! सैनिक ! मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहाँ दूसरा आश्रय खोज लो !’

“गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अब गिर पड़ा है—इतना थका हुआ हूँ इतना !”—कहते-कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्माएड घूमने लगा। खी ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई ! उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी—‘सब विधर्मा दया के पात्र नहीं—मेरे पिता का वध करने वाले आततायी !’ घृणा से उसका मन विरक्त हो गया।

स्वस्थ होकर मुगल ने कहा—माता ! तो फिर मैं चला जाऊँ ?

खी विचार कर रही थी—‘मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म—अतिथिदेव की उपासना—का पालन करना चाहिए। परन्तु यहाँ……नहीं-नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परन्तु यह दया तो नहीं……कर्तव्य करना है। तब ?’

मुगल अपनी तलचार टेककर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा—‘क्या आश्र्य है कि तुम भी छुल करो; ठहरो !’

‘छुल ! नहीं, तब नहीं माता ! जाता हूँ, तैमूर का वंशधर खी से छुल करेगा ? जाता हूँ ! भाग्य का खेल है !’

ममता ने मन में कहा—‘यहाँ कौन दुर्ग है ! यही भौंपड़ी न; जो चाहे लेते, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना पड़ेगा।’—वह बाहर चली आई और मुगल से बोली—‘जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक ! तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण-कुमारी हूँ; सब अपना धर्म छोड़ दें, तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ ?’ मुगल ने चन्द्रमा के मन्द प्रकाश में वह महिमामय मुखमण्डल देखा; उसने मन-ही-मन नमस्कार किया। ममता पास की दूरी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने भौंपड़ी में विश्राम किया।

प्रभात में खण्डहर की सन्धि में ममता ने देखा, सेंकड़ों अश्वारोही उस प्रान्त में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी।

अब उस झोपड़ी से निकल कर उस पथिक ने कहा—
मिरज़ा ! मैं यहां हूँ ।

शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार-चवनि से वह ग्रान्त गूँज उठा । ममता अधिक भयभीत हुई । पथिक ने कहा—‘वह स्त्री कहां है ? उसे खोज निकालो ।’ ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई । वह मृग-दाव में चली गई । दिन-भर उस में से न निकली । संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है—मिरज़ा ! उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका । उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहां आश्राम पाया था । यह स्थान भूलना मत ।’ इसके बाद वे चले गए ।

चौसा के मुग्ल-पठान-गुद्द को बहुत दिन बीत गए । ममता अब सत्तर वर्ष की वृद्धा है । वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पढ़ी थी । शीतकाल का प्रभात था । उस का जीर्ण कंकाल खांसी से गूँज रहा था । ममता की सेवा के लिए गांव की दो तीन स्त्रियां उसे घेरकर बैठी थीं; क्योंकि वह आजीवन सब के सुख-दुःख की समझागिनी रही ।

ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया । सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा । वह अपनी धुन में कहने लगा—‘मिरज़ा ने जो चित्र बनाकर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए । वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूँ कि एक दिन

शाहंशाह हुमायूँ किस छुप्पर के नीचे बैठे थे ? यह घटना भी तो सेतालीस वर्ष से ऊपर की हुई ।'

ममता ने अपने चिकल कानों से सुना । उसने पास की खी से कहा—उसे बुलाओ ।

अश्वारोही पास आया । ममता ने रुक-रुक कर कहा—मैं नहीं जानती कि वह शाहंशाह था, या साधारण मुग्गल; पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा । मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आशा दे चुका था, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भीतर ही थी ! भगवानने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ । अब तुम इसका मकान बनाओ या महल—मैं अपने चिर-विश्राम-गृह में जाती हूँ !'

वह अश्वारोही अवाक्ख खड़ा था । बुद्धिया के प्राण-पक्षी अनन्त में उड़ गए ।

वहां एक अष्टकोण मन्दिर बना, और उस पर शिलालेख लगाया गया—

'सातों देश के नरेश हुमायूँ ने एक दिन यहां विश्राम किया था । उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगन-चुम्बी मन्दिर बनाया था ।'

पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं !

पं० विनोदशंकर व्यास ।

व्यास जी का जन्म सन् १६०१ ई० में हुआ । पठन-पाठन में आप को रुचि न थी । ऐट्रेंस भी पास न किया । माता-पिता समझते थे, बेटा आवारा हो गया । मगर व्यास जी को विधाता ने साहित्य-सेवा के लिए बनाया था । आप की कहानियां बड़ी हृदय-स्पर्शी होती हैं, उन्हें पढ़कर दिल पर चोट लगती है । उन में किसी किसी स्थान पर तो नाटक का सा मज्जा आ जाता है । व्यास जी की कहानियां ग्रायः भाव-प्रधान होती हैं । इस समय तक आप की मौलिक कहानियों के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं ।

शक्तिसिंह

(१)

‘मान जाओ ! तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा ।’

‘चुप रहो—तुम क्या जानो ।’

‘इसमें वीरता नहीं है, अन्याय है ।’

‘बहुत दिनों की ध्यक्ति हुई ज्वाला आज शान्त होगी ।’

शक्तिसिंह ने एक लम्बी सांस फेंकते हुए, अपनी खींची की ओर देखा ।

‘.....’

‘.....’

‘कलङ्क लगेगा ! अपराध होगा !!’

‘अपमान का बदला लूंगा । प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा । आज मैं विजयी होऊंगा ।’ बड़ी दृढ़ता से कह कर शक्तिसिंह ने शिविर के द्वार पर देखा—मुगल-सेना के चतुर सिपाही अपने-अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे । बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे ।

‘निश्चय महाराणा की हार होगी। बाईस हज़ार राजपूतों को दिन-भर में मुग्रल-सेना काटकर सूखे डंडल की भाँति गिरा देगी।’ साहस से शक्तिसिंह ने कहा।

“बाई पर क्रोध करके, देश-द्वोही बनोगे!”
कहते-कहते उस राजपूत-बाला की आँखों से चिन्मारियाँ निकलने लगीं।

शक्तिसिंह अपराधी की नाईं विचार करने लगा। जलन का उन्माद उसकी नस-नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा। उसे कौन समझा सकता था?

रण-भेरी बजी।

कोलाहल मचा। मुग्रल-सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता-पत्ता खड़खड़ा उठा। विजली की भाँति तलवारें चमक रही थीं। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगीं।

शक्तिसिंह ने घोड़े की लगाम पकड़ कर कहा—आज अन्तिम निर्णय है, मरुंगा या मार कर ही लौटूंगा!

शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गम्भीरता से कहा—ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है।

(२)

एक महत्त्वपूर्ण अभिमान के विघ्वंस करने की तैयारी

थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़ों और हाथियों के चीत्कार स आकाश थरथर कांप उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जङ्गल के वृक्ष रणनाद करते हुए भूम रहे थे। पशु-पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूँढ़ने लगे। बड़ा चिट्ठ समय था।

उस भयानक मैदान में राजपूत-सेना मोर्चा बन्दी कर रही थी। हल्दीघाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त के समान खड़े थे।

‘महाराणा की जय’!—शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुग्गल-सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरम्भ हुआ। भैरवी रणचरणी ने प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य दिस्त्र जन्तुओं की भाँति अपने-अपने लक्ष्य पर दूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। तलवारें बजने लगीं। पर्वतों के शिखरों पर से विष्वैले बाण मुग्गल-सेना पर बरसने लगे, सूखी हल्दी-घाटी में रक्त की धारा बहने लगी।

महाराणा आगे बढ़े। शत्रु-सेना का व्यूह दूट कर तितर-बितर हो गया। दोनों ओर के सैनिक कट-कट कर गिरने लगे। देखते-देखते लाशों के ढेर लग गए।

भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने को अवकाश मिला। मुग्गलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल-पुथल करने लगे। धांय-धांय करती बन्दूक से निकली हुई गोलियां दाढ़ रही थीं—ओह! जीवन कितना स्फुरा हो गया था।

महाराणा शत्रुसेना में सिंह की भाँति उन्मत्त होकर धूम रहे थे। जान की बाज़ी लगी थी। सब तरफ से घिरे थे। हमला-पर-हमला हो रहा था। प्राण सङ्कट में पड़े थे। बचना कठिन था। सात बार धायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं, मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था।

मानसिंह की कुमन्त्रणा सिद्ध होने वाली थी। ऐसे आपत्ति काल में वह चीर सरदार सेना सहित बहाँ कैसे आया? आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा—चीर मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज्य-चिह्नों को उतार कर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्र्य और क्रोध से पूछा—यह क्या?

‘आज मरने के समय एक बार राज चिह्न धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है।’ हंस कर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उस उन्मादपूर्ण हँसी में अटल धैर्य देखा।

मुगलों की सेना में से शक्षिर्सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा—धायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जागते चले जा रहे हैं। और, चीर मन्ना जी को प्रताप समझ कर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं।

उसी समय दो मुगल सरदारों के साथ, महाराणा के पीछे २ शक्षिर्सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया।

(३)

खेल समाप्त हो रहा था। स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर

सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिट्ठने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। बाइस हज़ार राजपूत वीरों में से केवल आठ हज़ार बच गए थे।

विद्रोही शक्तिसिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में कटे शब पड़े थे—कहाँ भुजाएं शरीर से अलग पड़ी थीं, कहाँ धड़ कटा हुआ था, कहाँ खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है! दो घड़ियों में हँसते-बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व!

शक्तिसिंह की आंखें ग्लानि से छलछला पड़ीं—

‘ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे मैं! मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ—क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं था, अधम शक्ति! यह तेरे चिरकलङ्क के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भूला, पागल! प्रताप से बदला लेना चाहता था—उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादिपि गरीयसि जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने चला था! वही जन्म-भूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें फूली-फली हैं! अब भी तो मां की मर्यादा का ध्यान कर!

सद्दसा धांय धांय गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्तिसिंह ने देखा—दोनों मुग्गल-सरदार प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त-पस्त हो कर भूमता हुआ

गिर रहा है। अब भी समय है। शक्तिसिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी।

एक आवाज आई—रुको।

दूसरे द्वाण शक्तिसिंह की बन्दूक छूटी, पलक मारते दोनों मुख्यल-सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंख चढ़ा कर देखा। वे आंखें पूछ रही थीं—क्या मेरे प्राण पाकर तुम निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के सून से तुम्हारी हिंसा-तृप्ति नहीं हुई?

किन्तु यह क्या, शक्तिसिंह तो महाराणा के सामने न त मस्तक खड़ा था। वह चच्चों की तरह फूट-फूट कर रो रहा था। शक्तिसिंह ने कहा—नाथ! सेवक अज्ञान में भूल गया था, आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ा कर पद-प्रकालन कर लूं, प्रायश्चित्त कर लूं!

राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दीं। दोनों के गले आपस में मिल गए, दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगीं। दोनों के हृदय गद्दद हो गए।

इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी बृक्षों ने पुष्प-वर्षा की, नदी की कल कल धाराओं ने बन्दना की।

प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से ही देखा—उनका चिर-सहचर प्यारा 'चेतक' दम तोड़ रहा है। सामने ही शक्तिसिंह का घोड़ा खड़ा था।

शक्तिसिंह ने कहा—भैया ! अब आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है ।

राणा, शक्तिसिंह के घोड़े पर सवार होकर, उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए ।

(४)

श्रावण का महीना था ।

दिन-भर की मार-काट के पश्चात्, रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी । शिविर में से महिलाओं के रोदन की करुण-ध्वनि हृदय को हिला देती थी । हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे । उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला न था, या तो केवल हाहाकार, चीतकार, कष्टों का अनन्त पारावार !

शक्तिसिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था । उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी । उसके हृदय में जीवन की आशा-निराशा क्षण-क्षण उठती-गिरती थी ।

अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे । एक-एक उस शिविर में शक्तिसिंह ने प्रवेश किया । पत्नी ने कौतूहल से देखा, उसके कपड़े खून से तर थे ।

‘भ्रिये !’

‘नाथ !’

‘तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई—मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया !’

श्री राजेश्वरप्रसाद सिंह

आप प्रयाग के निवासी हैं। आयु २२ वर्ष के लगभग होगी। पहले लीडर के सम्पादक विभाग में काम करते थे, पर अब उससे अलग हो कर स्वतन्त्र-रूप से साहित्य-सेवा कर रहे हैं। आपकी भाषा बड़ी खचीली होती है, बड़ने में मज़ा आता है। पग पग पर अलंकार और उपमाएं बख़ेरते जाते हैं, जैसे कोई अपने पीछे फूल बख़ेरता जाता हो। आप सामाजिक दुर्बलताओं पर ही अपनी कहानियों की नींव रखते हैं।

आप का एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। गल्प-संग्रह अभी तक कोई नहीं निकला।

आदर्श

(१)

नाई के दृथियारों में लुरे का जो स्थान है, समाज-सुधारक के अख्तों में उसकी ज़िवान का वही स्थान है ! सुधारक में चाहे और कोई गुण हों या न हों, वाक्शक्ति अत्यधिक होनी चाहिए । बाबू चोखेलाल इस लोक-प्रिय सिद्धान्त से भली-भाँति परिचित थे । बाबू साहब के जीवन का अन्तिम ध्येय समाज-सुधार ही था । इसी लिपदफ्तर के काम से जो समय बचता उसे आप अपनी तर्क-शक्ति बढ़ाने में ही लगाते थे । मित्र-मंडली में आपकी ज़िवान खुलते ही दूसरों की बन्द हो जाती थी । अपनी बातों से आप अपने मित्रों को मुग्ध कर रखते थे । आप को इस बात का गर्व था कि बाद-विवाद में आप को कभी कोई पराजित नहीं कर सका । इस बात पर किसी को सन्देह न था, सन्देह करने का किसी को अधिकार भी न था । किन्तु बाह्य संसार का यह विजयी योद्धा घर के सीमा-प्रान्त में पैर रखते ही भीगी बिल्ली बन

जाता था। घर में तर्क-वितर्क से काम न चलता, यहाँ न उक्खि काम देती, न प्रमाण। पञ्च-बल का भी यहाँ गुज़र न था। विनय का जवाब व्यंग्य में मिलता, टेढ़ी नज़र का आंसुओं में। बाबू साहब पर व्यंग्य का तो कुछु असर न होता, क्योंकि निश्चय में ढढ़ता आती थी, किन्तु आंसू देखते ही आप घबड़ा उठते थे, क्योंकि ये निर्दिष्ट पथ से विचलित करते थे।

सन्ध्या का समय था। बाबू साहब खियों को मेलों-डेलों में ले जाने की कुरीति पर बहस करके अभी घर लौटे थे। आप की सहधर्मिणी रामप्यारी देवी रसोई-घर में तरकारी बना रही थीं, पति को देखते ही कलबुली चलाती हुई बोलीं-कल दशहरा है।

चोखेलाल ने अन्यमनस्कता से कहा-सुनता तो हूँ।

‘सुन तो तुम हमेशा लेते हो। हाँ, याद रखना नहीं जानते। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया।’

बाबू साहब समझ गए कि यह किस प्रसंग की भूमिका है। उन्होंने सतर्क होकर ढढ़ता से कहा—तो क्या हर बात की माला जपता रहूँ कि याद रहे?

‘माला तुम क्या जपोगे। भगवान् का नाम लेने के लिये तो जपते ही नहीं, यह तो मामूली बात है। अब तो धरम-करम दुनियां से उठ ही गया। अब क्या है?’

चोखेलाल को दम्पति-जीवन से केवल एक शिकायत थी,

और वह थी रामप्यारी की संकीर्णता । जिस विषय पर देवी जी के अपने स्वतन्त्र विचार थे, उस पर बाबू साहब को अपने निजी विचार रखना परेशानी में पड़ना था । स्त्री का दृष्टि-क्षेत्र विस्तीर्ण करने के लिए पतिदेव ने अक्सर प्रयत्न किए; परन्तु कभी सफल नहीं हुए । धर्म के विषय पर चोखेलाल रामप्यारी से आज तक किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सके थे, इस लिए यह प्रसंग छिड़ते ही उन के हृदय में रामप्यारी के प्रति अप्रसन्नता का भाव उठा था । अब रामप्यारी के व्यंग्य-वाक्यों ने अप्रसन्नता को क्रोध में परिणत कर दिया । चोखेलाल ने चिढ़कर कहा—‘मैं तुम से धर्म का सबक पढ़ने नहीं आया हूँ ।

आग में जल का एक छींटा पड़ा ! रामप्यारी ने झमक कर कहा—‘तुम्हें क्या पढ़ायेगा कोई, तुम तो आप ही सब पढ़ बैठे हो ।’

बाबू साहब झल्लाकर बोले—‘तुम्हारे मारे नाक में दम है । तुम्हारी जो बातें हैं, सब बे-सिर-पैर की, न इधर चलती होन उधर ।’

‘मेरी बातें तो सब बे-सिर-पैर की होती हैं ! और तुम्हारी तो सब अजूबा होती हैं ?’

‘भई, जी न खाया करो, कहो घर में आया करूँ, कहो ज आया करूँ ।’

‘हाँ, घर में क्यों आओगे ? यहाँ तुम्हारा बैठा ही कौन है ?’

चोखेलाल ने लालटेन उठाई, और बाहर जाकर अपने कमरे में प्रवेश किया। लालटेन एक ओर रखकर उन्होंने एक लम्बी सांस ली, कपड़े उतारे और तइते पर पही हुई चटाई पर लेट कर छुत की ओर शून्य दृष्टि से ताकने लगे। आज उन्हें नवयौवन के उन दिनों की बात याद आने लगी, जब वे एक ऐसी संगिनी की कल्पना करते थे, जो जीवन-पथ पर उन के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके! जिन स्वभाँ की सृष्टि में यौवन की सारी शक्ति खर्च हो जाती है और कदाचित् जिन की पूर्ति के द्वारा मनुष्य को अक्षय आनन्द प्राप्त हो सकता है, वे इतने अनित्य क्यों हैं? उस आत्म-बेदना की दशा में इस प्रश्न पर विचार करते करते उन्हें ऐसा ज्ञात होने लगा मानो संसार में उन का जन्म व्यर्थ हुआ। उन के अन्तर्देश में जीवन के प्रति उदासीनता का तिमिर छा गया। कार्य-सिद्धि के लिए रामप्यारी ने जिस उपाय की शरण ली थी, उसके अनौचित्य का अब उसे ज्ञान हुआ; किन्तु अपनी भूल से उसे पश्चात्ताप नहीं हुआ, परि पर कोध आया। विजयी-सैनिक पराजित शत्रु की किसी अबहेलना पर ध्यान नहीं देता; किन्तु असफल एक-एक बात याद करता है और खीभ उठता है! क्या खीं की मान रक्षा करना परि का धर्म नहीं? फिर वे पग-पग पर उसकी अबहेलना क्यों करते हैं, सीधे-सुंह बात क्यों नहीं करते? राम-प्यारी रोटी सेंक रही थी। कुछ रोटियां जल गईं, कुछ कच्ची

रह गई। जैसे-तैसे खाना बनाकर वह रसोई से बाहर निकली, खान किया, साड़ी बदली, और सहन में पड़ी हुई चौकी पर बैठकर पति की प्रतीक्षा करने लगी; किन्तु जब इस तरह पंद्रह मिनट बीत गए और शत्रु की ओर से सन्धि का कोई प्रस्ताव न हुआ, तब स्वयं दबना उचित जान पड़ा। उसे भय हुआ कि कहीं वे विना खाए ही न सो जाय। एक मिनट में वह बाहरी बैठक में थी।

‘आज खाना न खाओगे क्या?’

‘नहीं’ दीवार की ओर मुख किए हुए चोखेलाल ने उत्तर दिया।

‘क्यों?’

‘भूख नहीं है।’

‘क्यों भूख नहीं है?’

‘ऐसे ही।’

‘तो क्या बिलकुल न खाओगे?’

‘नहीं।’

‘अच्छी बात है न खाओ।’

आवेश में आकर रामप्यारी कमरे से बाहर चली गई। वह जानती थी कि भूख न होने की बात एक-दम भूठ है, किन्तु इस समय अनुनय विनय न कर सकी। इस समय विशेष नम्रता दिखानी अपनी हेठी कराना होता। क्या उसे पति से शिकायत का मौका न था? उसे ऐसा जान पड़ने

लगा, मातों इस समय उस का घोर अपमान किया गया है। रामप्यारी की आँखों में आँसू छुलक आए। वह शयनागार में गई, पलंग पर गिर पड़ी और तकिए में सुंह छिपा कर फफक-फफक कर रोने लगी। उस के प्रताड़ित हृदय पर रोष और गर्व के भाव चोटें करने लगे। वे उसे कौन सा सुख दे रहे हैं जिसका ऐसा कुटिल मूल्य लेते हैं? आज तक एक छुल्ला भी नहीं दिया, जो गहने मायके से लाई थी उन्हें भी तो नहीं पहनने पाती! फिर उन्हें किस बात का तमतमा है? उसे ऐसे पति को सौंप कर उस के माता पिता ने उस पर कैसा घोर अन्याय किया!

चोखेलाल का विचार था कि रामप्यारी अनुनय करेगी, इसी लिप उन्होंने अन्यमनस्कता का भाव धारण किया था। यह बात न थी कि उन्हें भूख न रही हो, पेट में चूहों की दौड़ बराबर जारी थी, किन्तु रुठा हुआ बालक बिना मनाए कैसे घर जाय? पांसा उलटा पड़ा। उस ने विनय न की, यों ही चली गई। तब उन्हें स्त्री के अन्तिम वाक्य याद आए—‘अच्छी बात है, न खाओ।’ इन वाक्यों में जो चेतावनी छिपी हुई थी, उस में सन्धि स्थापन की इच्छा नहीं, बल्कि पुनर्द्वन्द्व की चुनौती थी, चोखेलाल उन आने वाले दिनों की कल्पना कर के उठे। जब वे एक ही घर में बेगानों की तरह रहेंगे, जब रामप्यारी एक ओर जायगी और वह दूसरी ओर, जब इच्छा रहते हुए भी वे एक दूसरे से वार्तालाप न कर सकेंगे, जब

घर की शान्ति श्री उठ जायगी और गृहस्थी एक-दम चौपट हो जायगी।

दस मिनट के बाद चोखेलाल शयनागार के सामने गए। रामप्यारी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कमरे में प्रवेश करते समय उन्होंने खुले हुए किवाड़ को धक्का दिया, किन्तु वह दीवार की ओर मुख किए हुए लेटी ही रही, दिली भी नहीं। चोखेलाल समझ गए कि वह सो नहीं रही है। वह एक दृश्य कमरे के मध्य में खड़े-खड़े पलंग पर मुंद के बल पड़ी हुई रामप्यारी की ओर देखते रहे, फिर धीरे-धीरे मुस्कराते हुए उस पलंग की ओर बढ़े जिस पर नन्दा शिशु रमेश बाल्यकाल की मीठी नींद के मज्जे ले रहा था। पलंग के निकट पहुंच कर चोखेलाल ने चुटकी काटी। रमेश चीख उठा। रामप्यारी फिर भी जैसी की तैसी पड़ी रही। रमेश को गोद में लेकर चोखेलाल उसे चुपकारने और थपकियां देने लगे, फिर रामप्यारी के पलंग पर जा बैठे। रमेश पिता की गोद से उतर कर माता की ओर रोता हुआ लपका और माँ की पीठ से लिपट कर उछुलने लगा। रामप्यारी ने दीवार की ओर करवट ली और दाहिना हाथ पीछे ले जाकर रमेश को झींच लिया। माँ के पास जाते ही रमेश शांत हो गया। स्त्री के कंधे पर हाथ रख कर पतिदेव ने पूछा—‘खाना न खिलाओगी, रमेश की माँ?’

पति का हाथ फिटक कर रामप्यारी ने रुधे हुए कण्ठ से

कहा—मुझे तुम्हारे खाने की ज़रूरत नहीं है।

रामप्यारी को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर चोखेलाल ने देखा, उस की आँखों से अश्व-धाराएं बह रही हैं। तब उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया और अपनी धोती के कोर से उसके आँसू पौँछते हुए बोले—तुम तो ज़रा-ज़रा-सी बात में रोने लगती हो।

रामप्यारी ने सिसकते हुए कहा—आदमी इत...नी हँसी कर... ता है कि हँसी आ...ये न कि....!

‘छेड़ा तो पहले तुम्हीं ने था?’

रामप्यारी चिटक कर तीव्र स्वर से बोली—‘मैंने तो नहीं, तुमने ही पहले छेड़ा था।’

मामला फिर बढ़ता देखकर चोखेलाल ने नीति से काम लिया—खैर, जाने दो, मेरा ही क़सूर सही। इन बातों में क्या रक्खा है?

‘मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ। तुम्हीं फिर छेड़ रहे हो, और अभी फिर मुझी को दोषी ठहराओगे।’

‘अच्छा बाबा, मैं अपना क़सूर माने लेता हूँ। सारा दोष मेरा है, तुम बिलकुल निर्दोष हो, अब तो खुश हुई?’

विजय-गर्व से रामप्यारी की आँखें चमकने लगीं, और उस के मुख-मण्डल पर एक दिव्य मुसकान नृत्य करने लगी समझौता हो गया।

घर में फिर शांति राज्य करने लगी। भोजन हो चुका

था, चोखेलाल घर में बैठे हुए हुकका पी रहे थे। इसमय उनकी दशा उस जवान मांझी की सी थी जो अपने छोटी-सी डोंगी में बैठा हुआ ढांड चलाता और मलार गाते हो ! उन के चेहरे से आनन्द और सन्तोष की रेखाएं प्रस्तु टित हो रहीं थीं। रामप्यारी रमेश को लेकर आई, और उसे पति की गोद में बिठा दिया। चोखेलाल बच्चे के साथ खेलने लगे, कभी उसे चूमते, कभी उछालते, कभी हँसाते। रमेश भी कभी हुकके की निगाली के सहारे खड़े होने की कोशिश करता, कभी पिता की मूँछ पकड़ कर खींचता, कभी किल-कारियां मारता हुआ माता की ओर लपकता। रमेश को आँचल से ढक कर रामप्यारी ने कहा—कल मेला देखने के लिए क्या कहते हो ? लिवा चलोगे न ?

फिर वही बात छिड़ गई ! किन्तु सांप का काटा रस्सी से भी डरता है। चोखेलाल ने इस बार नम्रता से कहा—लिवा चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी समझ में औरतों का मेले पर जाना ठीक नहीं होता। और फिर इस साल झगड़ा हो जाने का भी डर है।

‘सभी तो जा रहे हैं। प्यारेलाल का सारा घर जा रहा है। कोई मेरा ही भव्या नोच लेगा।

‘अगर दूसरे भाड़ में कूदें, तो तुम भी कूदो ! यह कहाँ की बुद्धिमानी है ?’

‘चाहे जो हो, मैं तो ज़रूर जाऊँगी।’

‘अच्छी बात है, चलो। तुम तो हमेशा अपने मन की करती ही हो।’ रामप्यारी की इच्छा-शक्ति से युद्ध करने के लिए चोखेलाल के पास न तो अब साहस था न बल।

चोखेलाल बड़े धर्म-संकट में पड़ गए। एक ओर चिर-सञ्चित सिद्धान्त था, दूसरी ओर खी की मान-रक्षा का विचार। एक से जगहंसाई थी, दूसरे से मुंह मोड़ने में नित्य की बमच्छ, आप दिन के ताने और उलाहने। बाह्य संसार में परास्त होने पर घर में शरण मिल सकती है, किन्तु घर के निर्वासित को बाहर कोई नहीं पूछता। वे कोई ऐसा सुगम उपाय सोचने लगे, जिससे न सिद्धान्त की अवहेलना हो, न रामप्यारी की।

(२)

विजयदशमी का दिन था। दिन के तीन बजे थे। इकों के अड्डे पर बाबू चोखेलाल एक इक्के वाले से किराया तय कर रहे थे। इक्केवाले ने कहा—‘बाबू साहब, बारह आने से कम न होगा। जी चाहे चलिए, न जी चाहे न चलिए।’

‘बारह आने तो, भाई बहुत होते हैं। आठ आने लो।’

‘नहीं, बाबू, आज बारह आने से कम नहीं हो सकता।’
इतने में एक साहब दूर ही से ‘इक्केवाले, चौक चलोगे? चौक चलोगे?’ की हाँक लगाते हुए आते दिखाई दिए। निकट पहुंच कर आगन्तुक सज्जन ने चोखेलाल को

नमस्कार किया। चोखेलाल ने नमस्कार का उत्तर दिया। तब आगन्तुक महाशय ने दांत निकाल कर पूछा—कहाँ की तैयारी है, जनाव?

चोखेलाल ने मुंह बनाकर उदासीनता से कहा—ज़रा हकीम जी के यहाँ जाना है।

‘क्यों, क्यों? भई, खैरियत तो है?’

‘घर में कुछ तर्दीयत खराब हो गई है।’

चोखेलाल की ओर एक बार अविश्वास से देख कर वे महाशय आगे बढ़े और एक दूसरे इक्के वाले से बातें करने लगे। चोखेलाल की जान छूटी। एक दीर्घ-निःश्वास छोड़ कर वे इक्के पर सवार हुए, और घर की ओर चले। वे नवयुग के क्रान्तिकारी के अनुयायी अवश्य थे, किन्तु इस समय उन के हृदय में शक जगह करने लगा। इस मुठभेड़ में उन्हें भावी अमंगल की सूचना दिखाई देने लगी।

राम-दल निकलने का समय हो गया था। सञ्जीमरही के आस-पास कुछ गुरेड़, बुल्ल बदले, लट्ठ लिप, पान चवाते हुए कानाफूसी करते दिखाई देते थे। जिन सड़कों पर हो कर दल निकलने वाला था उन पर इस समय ऐसी भीड़ थी कि दुर्बल मनुष्य एक बार उस में फँस कर न हिल डोल सकता था, न बाहर ही निकल सकता था। नगर के हिन्दुओं की सारी धार्मिक सिमिट कर इस भीड़ में आ गई थी। जो हिन्दू मतभेद के कारण इस में सम्मिलित न थे, वे

इन धर्मावलम्बियों की दृष्टि में, या तो पक्के नास्तिक थे या 'किरस्टान' ।'

जब प्रतीक्षा करते-करते दर्शकों की शांति का अंत हो गया, तब दल निकला । जयकारों की गगन-भेदी ध्वनि चारों ओर गूँजने लगी । इस वर्ष कोई नई बात न थी । वही घोड़े थे, वही ऊंट थे, वही चौकियां, वही बाजे, वही हाथी । जिस हाथी पर रामचन्द्र जी सवार थे उस पर चारों ओर से निरन्तर पुष्प-वर्षा हो रही थी । फूलों की जो छुट्टियां भाग्य-वश महाराज के श्री-चरणों से दुलकर नीचे गिर पड़तीं, उन पर भक्त-वृन्द इस प्रकार गिरते थे मानों रत्न पर दूट रहे हों ।

दल निकल गया । रामप्यारी का हाथ पकड़े हुए बाबू चोखेलाल हकीम निहालचन्द की ऊंची छुत से नीचे सड़क पर उतर आए । यद्यां अभी काफ़ी भीड़ थी । इक्का लाने की गुज्जाइश न थी, न देर हो जाने पर सवारी पाने की आशा, इसलिए इसी समय अहड़े की ओर चलना तय पाया । आगे-आगे भीड़ चीरते हुए चोखेलाल चले जाते थे और पीछे-पीछे रमेश को गोद में लिए, पति का हाथ पकड़े हुए रामप्यारी । दोनों धक्के पर धक्का खा रहे थे । अभी वे सौ क़दम गए होंगे कि सहसा उन्हें सैकड़ों आदमी गलियों से निकल-निकलकर इधर-उधर भागते हुए दिखाई देने लगे । इन्हीं भागते हुए आदमियों में वे लोग भी दिखाई देते थे, जो अभी थोड़ी देर पहले दल के साथ लट्ठ उछालते, अकड़ते चले जाते थे ।

चारों ओर चिल्हाहट शुरू हो गई—

‘भागो, भागो ! चल गई, चल गई ! हिन्दू-मुसलमान में
चल गई !’ पीछे से भीड़ का रेल आया और रामप्यारी के
द्वाथ से पति का द्वाथ छूट गया । इबते हुए तैराक का
सहारा छिन गया ।

रामप्यारी मसल उठी, उसके पैर लड्डखड़ाने लगे, चक्कर
सा आने लगा, और निकट था कि नीचे गिर जाए और
सहस्रों बदहवास पैरों के नीचे पड़कर कुचल जाए कि सहसा
उसे एक दीवार का सहारा मिल गया । वह दीवार से सट-
कर खड़ी हो गई और भयानुर नेत्रों से भागते हुए मनुष्यों
में पति को खोजने लगी । उस के सूखे हुए मुख से बार बार
निकल रहा था—‘हाय राम ! अब क्या करूँ ?’ शिशु रमेश
जाग पड़ा, और माता के गले से लिपट कर आश्वर्य से इधर
उधर देखने लगा । इस प्रकार के धार्मिक झगड़ों में अबलाओं
पर बदमाशों द्वारा किए गए अत्याचारों की भयोत्पादक
कथाएं रामप्यारी सुन चुकी थीं । आज ऐसी शोचनीय
परिस्थिति में पड़कर उस की दुष्कल्पना जागृत हो गई और
उन अतीत दुर्घटनाओं के भयावह इश्य उस के नेत्रों के
समुख फिरने लगे ।

चोखेलाल का कहीं पता न था । हताश होकर हृदय को
मज्जबूत करके, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती हुई,
रामप्यारी बचाव का उपाय सोचने लगी । सामने सेठों की

कोठियाँ थीं, किन्तु वहाँ शरण मिलने की आशा न थी; सब के फाटक बन्द थे। सहसा उसकी बाई और दृष्टि गई, एक पतली सूनी गली दिखाई दी। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानों ईश्वर ने उसके दुःख निवारणार्थ मार्ग निकाल दिया हो। उसके हृदय से एक बोझ सा उठ गया, पैरों में पर लग गए। भीड़ अब छंट गई थी। वह शीघ्रता से गली में घुसी। थोड़ी दूर पर उसे रोशनी दिखाई दी। वह ठिठक गई आगे बढ़ना ठीक है या नहीं? न जाने शत्रु हों कि मित्र। किन्तु न बढ़ने में भी भलाई न थी, गली में कोई बदमाश घुस आया तब? फिर वह जी कड़ा करके धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी।

(३)

भीड़ के रेले में पैर उखड़ जाने पर कठिनाई से जमते हैं। बाबू चोखेलाल ने जब होश सम्भाला तब मरडी के पास थे। उन्होंने देखा—सड़क के मोड़ पर कुछ मुसलमान गुरुड़े खड़ हुए हैं, और जो इको-दुक्के आदमी घबराहट में उधर निकल पड़ते हैं उन पर लाठियों की वर्षा होने लगती है। बाबू साहब उलटे पैर भागे और बड़ी कठिनाइयों के बाद किसी तरह उस स्थान पर पहुंचे जहाँ रामप्यारी से साथ छूट गया था; किन्तु इस समय रामप्यारी यहाँ कहीं न थी। वे भय और दुविधा से कांप उठे। उनका दिल बैठने लगा, आँखों के सामने अन्धेरा छा गया। वह बहीं ज़मीन पर बैठ गए।

सहसा एक ओर घोड़े के टापों का शब्द हुआ। चोखे-

लाल ने सिर उठा कर देखा, मुशी दीनदयाल जो अभी दल के आगे-आगे थे, भागे जा रहे थे। चोखेलाल ने चिल्ला कर कहा—‘महाशय ज़रा सुनते जाइये। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मेरी मदद कीजिए।’

मुशी जी ने एक बार मुड़ कर देखा, और फिर घोड़ा तेज़ कर दिया। किसी ने पीछे से कहा—यह है हमारे नेताओं का हाल! अभी ज़रा देर पहले कैसे जोश में थे, लेकिन झगड़ा होता देखा और दुम दबा कर भाग निकले! भइया! वह रुकने वाले नहीं हैं, अब यहां लीडरी थोड़े ही करनी है।

चोखेलाल ने पीछे फिर कर देखा, एक दीर्घकाय, कसरती आदमी इसर से पैर तक खद्दर पहिने, लट्ठ लिए खड़ा हुआ है। उसके दाहिने और बाएं कई जवान बड़ी बड़ी लाठियां लिए खड़े हुए थे। उनके चेहरों से शौर्य, आत्म-विश्वास और दड़ संकल्प टपक रहा था। उस टोली के सरदार ने कहा—‘क्या है, महाशय! मुझ से कहिए।’

चोखेलाल एक दीर्घ-निःश्वास छोड़ कर बोले—भाई! क्या पूछते हो? खी की हठ का मारा हुआ मनुष्य हूं। धर्म में मेला दिखाने के लिये ज़िद कर रही थी। मैंने बहुत समझाया, मगर वह अपनी ज़िद पर अड़ी रही। लाचार और कोई उपाय न देख दल दिखाने लाया था। लौटते समय मैं भीड़ के रेले में पड़ गया और वह पीछे छूट गई। अब उसका

कहीं पता नहीं चलता । कहां दूँदूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में
नहीं आता ।

‘नारायन ! नारायन ! यह तो बड़ा अनर्थ हुआ । इस
समय सारे शहर में आग धधक रही है । ऐसे बुरे समय एक
असहाय हिन्दू अबला का यों अकेली रह जाना तो बहुत
बुरा हुआ ।’

‘भाई ! मैं तो लुट गया, कहीं का न रहा ।’

सरदार ने सान्तवना दी—‘जैर, आप चिन्ता न करें । इन
बीरों को देखिए । यह मेरे पसीने की जगह खून गिराने वालों
में हैं । आप की इज्जत द्वमारी इज्जत है । अगर एक भी
हिन्दू स्त्री का सतीत्व नष्ट हुआ, तो सारी हिन्दू-जाति की
लाज गई । और यह धर्म पर मिटने वाली बीर जाति की
लाज जाते नहीं देख सकते । बहादुरो, आओ ।’

होरीलाल और उसके बीर अनुयायी चोखेलाल को साथ
लिये हुए सारी रात गलियों में चक्कर काटते रहे । जहां
कहीं आदट मिली छिपकर सुनने लगते । कई स्थानों पर
मुसलमानों से मुठभेड़ हुई । इन अवसरों पर वे ऐसे-ऐसे हाथ
दिखाते कि विपक्षियों के छुक्के छूट जाते थे । उनके द्वारा कितने
ही भूले-भटके पथिकों की प्राण रक्षा हुई, कितने ही घर लुटते-
लुटते बचे, किन्तु उनका कार्य सिद्ध न हुआ । इस तरह
सारी रात खोजने पर भी रामध्यारी का कहीं पता न लगा ।

सबेरा हुआ । पूर्वाकाश में सूर्य ने लाल आंख निकाली,

मानों कोई स्नेही पिता अपने बच्चों को वर्थ भगड़ते देखकर कोध प्रकट कर रहा हो ! हताश, मनोवेदना से आनंदोलित चोखेलाल होरीलाल के घर गए। इस समय वे अपने घर जाने का साहस न कर सके। भित्रों और पढ़ोसियों से कैसे आंख मिलाएंगे, उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे, उस घर में कैसे पैर रक्खेंगे जिस का सब कुछ लुट गया ? यह बाधाएं कम न थीं। खी और बच्चे की भोली सूरतें उनकी आंखों में फिर कर कलेजे पर चोटें करने लगीं।

शाम होते-होते सारे शहर में सशस्त्र सैनिकों का पहरा चैठ गया। अधिकारियों की ओर से नगर-भर में मुनादी हो गई कि कहीं भीड़ जमा न हो, और सायंकाल छः बजे के बाद कोई घर से न निकले। लेकिन हिन्दू-मुसलमान तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, उन्हें इस मुनादी की क्या परवा थी। यदि सड़कों पर न लड़ पाते, तो गलियों में हाथ चलाते थे। बधों की ज़ज़ खाई हुई तलवारें और लुरियां निकाली जा रही थीं। कोतवाली में शब पर शब चले आते थे, किन्तु कुछ पता न चलता था कि किस ने मारा, कहाँ मारा !

तीन दिन लड़ाई का बाज़ार गर्म रहा। दोनों पक्षों ने जी खोल कर हौसला निकाला, पुराने भगड़े नप किए गए, मुद्दतों के बदले चुकाए गए। इस विकट हत्याकारण में कितने मनुष्य जान से मारे गए, कितने ज़ख्मी हुए—इस का शिक्षिक पता लगाना कठिन था। इस बीच में चोखेलाल

बराबर होरीलाल के घर उहरे रहे। होरीलाल रामप्यारी को दूँड़ निकालने में अभी तक असफल रहे; किंतु निराश नहीं हुए थे। वे चोखेलाल को नित्य आश्वासन देते—‘बाबू साहब ! आप निश्चिन्त रहिए। एक-एक बदमाश का घर खोदकर फेंक दूँगा, या तो उनका पता लगाऊँगा या प्राण दे दूँगा।’

चौथे दिन की बात है। दिन का तीसरा पहर था। और दिनों की तरह आज भी चोखेलाल होरीलाल को लेकर कोतवाली पहुँचे। विचार था, कदाचित् आज कुछ पता लगे कोतवाली में इस समय भी फ़रियादियों की भीड़ लगी हुई थी। चोखेलाल और होरीलाल भी एक कोने में खड़े हो गए। सब की शिकायतें रोज़नामचे में दर्ज की जाती थीं, किन्तु उन्हें यह देखकर आश्वर्य और दुःख होता था कि इन शिकायतों पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही थी और कर्मचारियों के पास उन अन्याय-पीड़ित फ़रियादियों के लिए व्यंग्य के अतिरिक्त और कुछ न था। इस प्रकार आधा धंटा बीत गया। चोखेलाल को नैराश्य घेरने लगा। सहसा उन्होंने देखा, एक बूढ़ा मुसलमान, सामान्य वस्त्र पहने, एक छोटे से बच्चे को कंधे पर बैठाले हुए फाटक के भीतर घुसा। उसके पीछे-पीछे एक स्त्री सिर से पैर तक सफेद चादर ओढ़े हुए चली आ रही थी। चोखेलाल ने एक ज्ञान नवागन्तुकों को ध्यान से देखा, फिर उनकी ओर बेग से लपके।

बूढ़े मिया ने रमेश को चोखेलाल की गोद में देकर

मुस्कराते हुए कहा—‘जनाब ! ये तीन रोज़ मेरे मेहमान रहे, आप को पहसास नहीं हो सकता कि अपने मेहमान को रुख सत करने में मुझे किस क़दर रुदानी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी अमानत आपको सुपुर्द कर रहा हूँ ।’

चोखेलाल की आँखों में आँख छलक आप। होरीलाल भपटे और बड़े मिया के गले से लिपट गए, फिर करठाब-रुद्ध होकर बोले—‘मियां साहब ! इतने बड़े नगर में आप ही एक आदमी हैं, जिसने धर्म का असली मतलब समझा है। आप सचे मुसलमान हैं। आप को धन्य है।

बहां सैकड़ों अदमी खड़े थे, सभी के मुख में प्रशंसा थी—‘वाह, वाह ! शराफत इसे कहते हैं—दूसरे की बहन-बेटी को अपनी बहन-बेटी समझना ।’

सब के पीछे अलग, खड़ी हुई रामध्यारी चादर के भीतर ही भीतर आँखें पौछ रही थीं। इस समय उस के हृदय में आह्वाद था, कृतज्ञता थी, पश्चाताप था।

बड़े मियां ने यह बयान दिया—‘मेरा नाम रमज़ान अली है। मैं क़रीब ही रहता हूँ, जिल्दबन्दी का काम करता हूँ। जिस दिन भगड़ा शुरू हुआ, उस दिन शाम को मैं अपने घर में बैठा हुआ सितार बजा रहा था। एकाएक बाहर शोर-गुल उनाई देने लगा। मैंने सितार बन्द कर दी और लालटेज लेकर बाहर निकला। मैं बाहर चबूतरे पर आया ही था

कि एक शरीफ़ घराने की औरत वयल में एक बच्चा लिए हुए सहमी हुई गली में दाखिल हुई । वह औरत थोड़ी दूर पर रुक गई । मैं चबूतरे से नीचे उतरा और करीब जाकर पूछा—‘किसे ढूँढ़ती हो ?’ उसने कुछ जवाब न दिया । तब मैंने कहा—‘बेटी ! डरो नहीं, बताओ क्या मामला है ?’ उसने डरी हुई आवाज़ में कहा—‘मैं अपने पति के साथ मेला देखने आई थी । हम लोग घर लौटे जा रहे थे । इतने मैं भगड़े का शोर सुनाई दिया, फिर भीड़ में उनका साथ छूट गया ।’ वह नेकजात खातून यद्दी बाबू चोखेलाल साहब की बीबी मुसम्मात रामप्यारी देवी थीं । मैं इन्हें समझा-बुझा कर अपने घर लिवा ले गया । मेरे घर में तीन दिन रहीं । मैंने अपने एक हिन्दू दोस्त के ज़रिये इनके खाने पीने का प्रबन्ध करा दिया । वह हिन्दू साहब इन्हें अपने घर में जगह देने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने मेरे यहां ही रहना पसन्द किया । मैंने और मेरी स्त्री ने इनके मज़हबी झालात की पूरी इच्छत की । भगड़े की बजह से अभी तक मैं इचला नहीं कर सका था ।’

सन्ध्या-समय बाबू चोखेलाल की मित्र-मण्डली उनके घर पर जमा हुई । सब ने बाबू साहब के प्रति सहानुभूति प्रकट की । बड़ी रात तक रमज़ान की प्रशंसा होती रही, और राज-कर्मचारियों के कुप्रबन्ध की कड़ी आलोचना । मित्रों को बिदा कर के दस बजे के लगभग चोखेलाल अन्दर गए । रामप्यारी लौटे मैं जल लेकर सर्पि आई । हाथ-मुँह धोकर चोखेलाल

ने रसोई घर में प्रवेश किया। रामप्यारी खाना परोसने लगी।

चोखेलाल ने मुस्कराते हुए पूछा—फिर मेला देखने जाओगी?

रामप्यारी ने पति के मुख की ओर धूर कर देखा, फिर दृढ़ता से बोली—हाँ जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, अगर ऐसे देवता से फिर भेट हो सके।

बार खाली गया! एक क्षण चुप रह कर चोखेलाल ने एक दीर्घ-निःश्वास छोड़ी, फिर सिर हिलाते हुए कहा—ऐसे साधु-चरित्र आदमी नित्य नहीं मिलते।

‘तो फिर मेला भी हो चुका। इन तीन दिनों में मैंने बह देखा है, जो फिर देखने को आंखें तरस जाएंगी। मुझे तो यह तअज्जुब होता है कि कोई गौर के साथ कैसे इतनी मुहब्बत दिखा सकता है। उन लोगों ने मेरी कितनी खातिर की मेरे लिए घर का एक हिस्सा खाली कर दिया, एक हिन्दू पढ़ोसी के यहाँ से बर्तन ले आए, हर समय पूछते रहते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है बेटी, इतनी खातिर कोई अपना कुदुम्बी भी न कर सकता।’

चोखेलाल सिर झुका कर भोजन करने लगे।

(४)

रमज़ान अली चोखेलाल के घर के से आदमी हो गए। वे उनके यहाँ सप्ताह में दो बार अवश्य जाते और जब जाते,

तो रमेश के लिए कोई न कोई खिलौना अवश्य लेते जाते । रामप्यारी बहुत मना करती, किन्तु वे न मानते । खिलौनों का एक अच्छा ढेर लग गया था ।

आज चोखेलाल के घर जाते समय रमज़ान ने बाज़ार में एक नया जापानी खिलौना देखा, चट खरीद लिया ।

दरवाज़े के बाहर से रमज़ान ने आवाज लगाई—रमेश ! भइया रमेश !

रामप्यारी ने अन्दर से कहा—चले आइए अब्बा ! दरवाज़ा खुला है ।

रमज़ान ने घर में प्रवेश किया । जल्दी से सहन में पलंग बिछाकर रामप्यारी रमज़ान के पैर छूने को बढ़ी ।

‘यह क्या करती हो, बेटी ?’

रामप्यारी ने इस आपत्ति पर कुछ ध्यान न दिया । तब आशीर्वाद देकर रमज़ान पलंग पर बैठ गए । खिलौने की ओर देखकर रामप्यारी ने कहा—अब्बा ! क्यों फ़िजूल पैसा बर्बाद करते हो ? खिलौने तो ढेरों रक्खे हैं ।

रमज़ान ने कुछ उत्तर न दिया । रामप्यारी ताड़ गई कि उस का बार-बार मना करना उन्हें बुरा लगता है । वह कमरे में गई और रमेश को उठा लाई । रमज़ान को देखते ही रमेश उनकी गोद में उतर पड़ा और उनकी सफ़ेद डाढ़ी से खेलने लगा । फिर खिलौना देखते ही उन की गोद से उतर कर उसकी ओर लपका ।

रामप्यारी ने सकुचाते हुए पूछा—अब्बा, एक बात पूछूँ,
बताओगे ?

‘क्या है, बेटी ?’

रामप्यारी ने दीवार के सद्वारे खड़ी-खड़ी कहा—आप ने
उस दिन हमारी मदद क्यों की थी ? आप के जात वाले तो
हम लोगों से कीना रखते हैं ।

रमज्जान ने रमेश को अपनी गोद में ले लिया और उसके
सिर पर हाथ फेरते हुए कहा—‘बेटी, इसका जवाब तो रमेश ही
दे सकता है । मेरे इस नन्हे बादशाह से पूछो । इसी ने उस
दिन मेरे ऊपर जादू डाला था । इसी ने मुझे शराफ़त का
सबक़ दिया, वर्णा मैं तो बुराइयों में फँसा हुआ आदमी हूँ ।
बेटी ! तुम समझती हो, मैं पैसा बर्बाद करता हूँ, लेकिन
तुम्हारा यह स्थाल बलत है । मैं तो अपने बादशाह को
नज़र देता हूँ । बीस साल हुए, मेरा हामिद मुझ से छीन
लिया गया था । लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा खोया
हुआ बादशाह उस दिन मुझे फिर बाषप्स मिल गया ! मेरे
जादूगर ! मेरे बादशाह !’

झेह-विहळ द्वाकर रमज्जान रमेश को बार बार चूमने
लगे । अनन्त पथ पर भटकता हुआ बटोही अपने खोए हुए
साथी को पाकर स्वर्गिक आङ्गाद से आनंदोलित हो उठा ।
कल और आज का मध्यवर्ती समय आज की सत्प्रेरणा से
प्रभावान्वित होकर विस्मृति के बज्ज में विलीन हो गया ।

रामप्यारी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उस की आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू छुलकने लगे। उसे ऐसा ज्ञात होने लगा मानो रमज़ान इस संसार का नहीं, किसी दूसरे दिव्य लोक का निवासी है।

फिर रमज़ान की ओर देखते-देखते उसे ऐसा जान पड़ा, मानो वृद्धावस्था के उस विकृत रूप में सरल निर्बोध शैशव किलकारियां मार रहा है! उस समय उसका नारी-हृदय अगाध माटू-चात्सव्य लेकर रमज़ान और रमेश की ओर चेंग से प्रवाहित हो चला।

बाबू जैनेन्द्रकुमार

आप दिल्ली के एक जैन परिवार के रह हैं। आयु अभी २५-२६ वर्ष के लगभग है। साहित्य चेत्र में दो तीव्र साक्ष से उतरे हैं, और इस अल्प काल ही में उच्चकोटि के गत्प्र लेखकों में गिने जाने लगे हैं। आप की कहानियाँ पश्चिमी कहानियों के तर्ज पर हैं। जिस भाव को लेते हैं उसे इतना व्याख्यान करते हैं और उस की ज़रा ज़रा सी बात का ऐसा हूबहू वर्णन करते हैं कि उस का पूरा पूरा चित्र आँखों के सामने खिच जाता है। आप की कहानियाँ घटना प्रधान नहीं, भाव प्रधान हैं।

आप की कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी साहित्य को आप पर बड़ी आशाएँ हैं।

खेल

मौन-मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हँस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुकास्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल, गंगातट के बालू और पानी को अपना एक मात्र आत्मीय बना, उनसे खिलचाढ़ कर रहे थे।

प्रकृति इन निर्दोष परमात्म-खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर जल को छुटा-छुट उछुल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विछल हो उछुल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप-थोप कर एक भाड़ बना रही थी।

बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली—‘देख, ठीक नहीं बना, तो मैं तुझे फोड़ दूँगी।’ फिर बड़े प्यार से थपकाथपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी—इस के ऊपर मैं एक कुटी बनाऊँगी—यह मेरी कुटी होगी।

और मनोहर ?... नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते भोजेगा । जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूँगी ।

मनोहर उधर अपने पानी से द्विल-मिल कर खेल रहा था । उसे क्या मालूम कि यहां अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है ।

बालिका सोच रही थी—‘मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है । हमें छेड़ता ही रहता है । अब के दंगा करेगा; तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे । साझी होने को कहेगा, तो उस से शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे ।’ बालिका सुरबाला सातवें वर्ष में थी । मनोहर कोई दो साल उस से बड़ा था ।

बालिका को अचानक ध्यान आया—‘भाड़ की छुत तो गरम होगी । उस पर मनोहर रहेगा कैसे ? मैं तो रह जाऊँगी । पर मनोहर तो जलेगा । फिर सोचा—उससे मैं कह दूँगी भई, छुत बहुत तप रही है; तुम जलोगे, तुम मत आओ । पर वह अगर नहीं माना ? मेरे पास वह बैठने को आया ही—तो ? मैं कहूँगी—भाई, ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ ।... पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या ? ज़रूर करेगा, वह बड़ा हठी है ।... पर मैं उसे आने नहीं दूँगी । बेचारा तपेगा—भला कुछ ठीक है ! इयादा कहेगा, मैं धक्का दे दूँगी—और कहूँगी—अरे, जल जायगा मूरख ! यह सोचने

पर उसे बड़ा मज्जा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया ! उसे मानों सचमुच ही धक्का खाकर मनोद्वार के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भाँति प्रत्यक्ष हो गया ।

बालिका ने दो एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा-भाड़ अब बिलकुल बन गया है—मां जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लेटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे-धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया । इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी । उसके पैर ही पर तो भाड़ टिका है, पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं ढूट न पड़े ! पैर साफ़ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार आह्वाद से नाच उठी ।

बालिका एकबारगी ही बेवकूफ़ मनोद्वार को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिप दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई । मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहां कैसी ज़ुबर्दस्त कारगुज़ारी हुई है—सो नहीं देखता ! ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है !

पर सोचा—‘अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं । यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी । फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी । इस प्रकार चार चुटकी रेत धीरे-धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली ।’

भाड़ तैयार हो गया । पर पड़ोस का भाड़ जब वालिका ने पूरा-पूरा याद किया, तो पता चला एक कमी रह गई । धुआँ कहाँ से निकलेगा ? तनिक सोचकर उसने एक सींक टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी । बस, ब्रह्मारण का सबसे सम्पूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुन्दर वस्तु तैयार हो गई ।

वह इस उजड़ मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन करावेगी, पर अभी ज़रा थोड़ा देख तो और ले । सुरबाला मुंह बाये आंखें स्थिर करके इस भाड़-श्रेष्ठ को देख-देखकर विस्मित और पुलकित होने लगी । परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे, तो वह बताए इस भाड़ के जादू में ।

मनोहर अपनी 'सुरी-सुरो-सुरी' की याद कर पानी से नाता तोड़, हाथ की लकड़ी को भरपूर ज़ोर से गंगा की धारा में फेंककर, जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मलीला के जादू को दूर्भने और सुलभाने में लगी हुई थीं ।

मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा— श्रीमती जी बिलकुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं । उस ने जोर से क़हक़हा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया ।

न जाने क्या क़िला फ़तह किया हो,ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्हाया—'सुरों रानी !'

सुरों रानी मूक खड़ी थी । उन के मुंह पर जहाँ अभी

एक विशुद्ध रस था, वहां अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक-एक मनोरमता और स्वर्गीयता को दिखलाना चाहती थीं। हां, हंत! वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई।

हमारे चिद्रान् पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों के समझाता—‘यह संसार क्षणभंगुर है। इस में दुःख क्या और सुख क्या! जो जिससे बनता है। वह उसी में लय हो जाता है—इस में शोक और उद्वेग की क्या बात है? यह संसार जल का बुद्बुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुद्बुदे की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते, वे दया के पात्र हैं, री, मूर्खा लड़की, तू समझ। सब ब्रह्मारण ब्रह्म का है, और उसी में लीन हो जाएगा। इस से तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है? रेत का तेरा भाड़ क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिस ने लात मारकर उसे तोड़ा है, वह तो परमात्मा का केवल साधन-मात्र है। परमात्मा मुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की तू मूर्ख क्यों बनती है? परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि आदि!'

पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ श्रीमान् पंडित तत्त्वोपदेश के लिए उस गंगा-तट पर नहीं पहुँच सके। हमें तो यह भी सन्देह है कि सुरीं एकदम इतनी जड़-मुर्खी है कि यदि कोई परोपकार-रत पंडित परमात्मा-निर्देश से वहां पहुँच कर उपदेश देने भी लगते, तो वह उन की बात को न सुनती और न समझती। पर, अब तो वहां निर्बुद्धि शठ मनोहर के सिवा कोई नहीं है, और मनोहर विश्व-तत्त्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन न जाने कैसा हो रहा है। कोई जैसे उसे भीतर-ही-भीतर मसोसे डाल रहा है। लेकिन उस ने बनकर कहा—

‘सुरो, दुत् पगली ! रुठती है !’

सुरबाला वैसी ही खड़ी रही।

‘सुरी, रुठती क्यों है ?’

बाला तानिक न छिली।

‘सुरी ! सुरी.....ओ, सुरो !’

अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज़ हडात् कंपी-सी निकाली।

सुरबाला अब और सुंह फेर कर खड़ी होगई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उस से न हो सका।

‘सुरी,...ओ सुरिया ! मैं मनोहर हूँ...मनोहर !.....
मुझे मारती नहीं !’ यह मनोहर ने उसके पीठ धीँड़े से कहा

और ऐसे कहा, जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है।

‘हम नहीं बोलते।’ बालिका से चिना बोले न रहा गया। उस का भाड़ शायद स्वर्गविलीन हो गया। उस का स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान, कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया।

मनोहर के बड़ा बल लगा कर कहा—‘सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है। वह बड़ा दुष्ट है। बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती! उसे एक थप्पड़ लगा—वह अब कभी कसूर नहीं करेगा।’

बाला ने कड़क कर कहा—‘चुप रहो जी!'

‘चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं?’

‘नहीं देखते।’

‘अच्छा मत देखो। मत ही देखो। मैं अब कभी सामने न आऊंगा, मैं इसी लायक हूँ।’

‘कह दिया तुम से, तुम चुप रहो। हम नहीं बोलते।’

बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर वह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उम्मास था जो ब्याज-कोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में यह खीत्व था।

मनोहर बोला—‘लो सुरी, मैं नहीं बोलता। मैं बैठ जाता

हूँ। यहीं बैठा रहूँगा। तुम जब तक न कहोगी, न उड़ूँगा, न बोलूँगा।

मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुर-बाला बोली—‘हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी? हमारा भाड़ बना के दो।’

‘लो अभी लो।’

‘हम वैसा ही लेंगे।’

‘वैसा ही लो, उस से भी अच्छा।

‘उसपे हमारी कुटी थी, उसपे धुएं का रास्ता था।’

‘लो, सब लो। तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊँ।’

‘हम नहीं बताएंगे। तुम ने क्यों तोड़ा? तुम ने तोड़ा तुम्हीं बनाओ।’

‘अच्छा, पर तुम इधर देखो तो।’

‘हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो।’

मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा—‘लो, भाड़ बन गया।’

‘बन गया?’

‘हाँ।’

‘धुएं का रास्ता बनाया? कुटी बनाई?’

‘सो कैसे बनाऊँ—बताओ तो।’

‘पहले बनाओ, तब बनाऊँगी।’

भाड़ के सिर पर एक सींक लगाकर एक पत्ते की ओर
लगाकर कहा—‘बना दिया।’

तुरन्त मुड़कर सुरबाला ने कहा—‘अच्छा दिखाओ।’

‘सींक ठीक नहीं लगी जी।’ ‘पत्ता ऐसे लगेगा’ आदि
आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर का हुक्म हुआ—

‘थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर ढालेंगे।’

मनोहर पानी लाया।

गंगाजल से कर पत्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना
ही चाहता था कि सुरों रानी ने एक लात से भाड़ के सिर
को चकनाचूर कर दिया।

सुरबाला रानी हँसी से नाच उठीं। मनोहर उत्कुलता से
कहूँकहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रान्त में वह निर्मल शिशु-
हास्य-रव लहरे लेता हुआ ब्यास हो गया। सूरज महाराज
बालकों जैसे लाल-लाल मुंद से गुलाबी गुलाबी हँस
रहे थे। गंगा मानों जान-बूझकर किलकारियां मार रही थीं।
और-और वे लम्बे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक परिणामों
की भाँति सब हास्य की सार-शून्यता पर मानों मन-ही-मन
गम्भीर तत्त्वालोचन कर, हँसी में भूले हुए मूखों पर थोड़ी
दया बक्षणा चाह रहे थे।